

सहजानंद शास्त्रमाला

नियमसार प्रवचन

भाग 1

रचयिता

अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री

पूज्य श्री क्षु० मनोहरजी वर्णी "सहजानन्द" महाराज

प्रकाशक

श्री सहजानंद शास्त्रमाला, मेरठ

एवं

श्री माणकचंद हीरालाल दिगम्बर जैन पारमार्थिक न्यास

गांधीनगर, इन्दौर

Online Version : 001

(सर्वोच्चिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला
नियमसार प्रवचन

प्रथम भाग

प्रवक्ता :—

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी

“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज

सम्पादक :—

महावीरप्रसाद जैन, बैकर्स, सद मेरठ

प्रकाशक —

खेमचन्द जैन, सराफ

मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,

१८५ ए. रणजीतपुरी, सदर मेरठ

(४० प्र०)

प्रथम संस्करण]
१९००

१९६६

[मूल्य
२]

आत्म-कैर्तन

शान्तमूर्ति न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी "सहजानन्द" महाराज
द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आतमराम ॥टेक॥

[१]

मैं वह हूँ जो है भगवान , जो मैं हूँ वह है भगवान ।
अन्तर यही ऊपरी जान , वे विराग यहाँ राग वितान ॥

[२]

मम स्वरूप है सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान , बना भिखारी निपट अज्ञान ॥

[३]

सुख दुख दाता कोई न आन , मोह राग रूप दुख की खान ।
निजको निज परको पर जान , फिर दुखका नहिं लेश निदान ॥

[४]

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम , विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचूँ निजधाम , आकुलताका फिर क्या काम ॥

[५]

होता स्वयं जगत परिणाम , मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम , 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥

—:०:—

नियमसार प्रथम प्रश्न भाग

[प्रवक्ता:— अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ कुल्लुक
मनोहर जी वर्ण 'सहजानन्द' महाराज]

एभिर्गुणैर्जिह्वं वीरं अणुसुखं शान्तिं देस्यसिहावं ।

वाच्छामि नियमसारं कवलि सदकेवली भण्डं ॥१॥

अनन्त उत्तम ज्ञानदर्शन स्वभाव वाले वीर जिनेन्द्रको नमस्कार करके केवली और श्रुतकेवलीके द्वारा कहे इस नियमसार का वर्णन करूंगा ।

नियमसारका संक्षिप्त परिचय— यह नियमसार नामक एक ग्रंथ है, अब इसका प्रारम्भ हो रहा है । नियमसार ग्रंथमें पहिले पढ़े गए परमात्मप्रकाशके विषयकी भांति एक सहजस्वभावका वर्णन किया गया है । इसमें चरणानुयोगका भी निश्चयदृष्टिसे वर्णन करते हुए उसी ज्ञानकस्वभावके आलम्बन पर बल दिया गया है । इसमें मोक्षमार्गका वर्णन है । अनादिकालसे भटकते हुए चले आए इन प्राणियोंको कैसे मोक्षमार्ग मिले ? उसका मौलिक अमोघ उपाय इस ग्रन्थमें बताया गया है ।

वीर जिनेन्द्रदेवको प्रणमन— इस ग्रन्थके आदि में इसके रचयिता श्री कुन्दकुन्ददेव मंगलाचरणमें जिनेन्द्र वीरको नमस्कार कर रहे हैं । आजके समय जिनेन्द्र वीरका शासन चल रहा है और जब तक भी यह धर्मपरम्परा रहेगी, वीर प्रभुका शासन कहा जाएगा । जैसे ऋषभदेवके निर्वाणके बाद अजितनाथ स्वामीके तीर्थकर बननेके पहिले जितना समय था, वह ऋषभदेवका शासन कहलाता था । इसी प्रकार सब तीर्थकरोंका समय है । पार्श्वनाथ भगवान्के तीर्थकर होनेके बाद जब तक वीरप्रभु तीर्थकर नहीं हुए, तब तक पार्श्वनाथके शासनका समय था । अब जिनेन्द्रवीरके शासनके बाद जितने समय तक धर्मपरम्परा रहेगी (समझ लीजिए पंचम काल तक) तब तक वीरप्रभुका शासनकाल कहलायेगा । इसी कारण वीरप्रभुकी विरदृष्टिसे प्रभावित होकर कुन्दकुन्ददेवने जिनेन्द्रवीरको नमस्कार किया है ।

वीर शब्दका अर्थ— वीर शब्दका अर्थ है—वि ईर, इसमें तीन शब्द हैं । वि का अर्थ है विशिष्ट, ई का अर्थ है लक्ष्मी और र का अर्थ है देने वाला । विशिष्टां ई राति ददाति इति वीरः । जो विशिष्ट ज्ञान लक्ष्मीको देवे, उसे वीर कहते हैं । लक्ष्मीका नाम है ज्ञानदर्शनस्वभावका, पर लोकव्यव-

हारमें लोगोंने हजारों लाखों करोड़ोंकी सम्पदाका लक्ष्मी नाम रख दिया है। चार हाथोंसे रुपए बरसाती हुई, जिसके दोनों ओर हाथी माला लिए हों या कलशोंसे भी अभिषेकसा करते हुए ऐसा रूपक भी बनाया, किन्तु लक्ष्मी शब्दमें जो अर्थ भरा है, उस अर्थसे भाव निकलता है ज्ञान दर्शन स्वभाव। उसे लक्ष्मी कहो या लक्ष्म कहो, एक ही शब्द है। लक्ष्म शब्द नपुंसक शब्द है, लक्ष्मी शब्द स्त्रीलिङ्ग शब्द है, पर शब्द वही है। लक्ष्म का अर्थ है लक्षण, चिन्ह। अपने आपका जो चिन्ह है, आत्माका स्वरूप है प्रतिभास चैतन्यज्ञानदर्शन। इसी प्रकाशका नाम है लक्ष्मी। ऐसी विशिष्ट लक्ष्मीको जो दे सकते हैं, उसे वीर कहते हैं।

मूलभाव और रुढ़ि— भैया ! पहिले जितने धर्मके पर्व मनाये जाते थे, उन सब पर्वोंमें कल्याणकी पुट रहती थी, किन्तु जैसे जैसे समय गुजरता गया कि उसका रूपक बिल्कुल विलक्षण हो गया है। एक दीवाली त्यौहारको ही लें। दीवाली दो बार मनायी जाती है—सुबह और शाम। अभावस्याके सवेरे व शाम। अभावस्याके सुबह तो वीरप्रभुके निर्वाण होने की दिवाली है और शामके समय वीरप्रभुके मुख्य गणधर इन्द्रभूति अथवा गौतम उनके केवलज्ञानके की दिवाली है। सुबह वीरप्रभु मोक्ष गए और शामको गौतम गणधरको केवलज्ञान हुआ। कभी कभी अभावस्याके दिन सुबह ८-९बजे तक ही अभावस्या रह जाती है और चौदसके दिन दोपहरके बाद या शामके बाद अभावस्या शुरू हो जाए तो चौदसको रात्रिको लोग दीवाली मना लेते हैं। वे चौदसके भावसे दीवाली नहीं मानते। मानते हैं अभावसके भावसे, किन्तु सन्ध्याको अभावस्या पहिले पड़ गई।

दिवालीका मूलविरुद्ध रूपक— यह दीवाली है ज्ञानलक्ष्मीकी दीवाली। अब धीरे धीरे देखो, आज क्या रूपक बन गया? उस ज्ञानको तो भूल बैठे और मात्र धन, पैसा, रोकड़ वही, तराजू, बांट, धोड़ा—ये ही सब सजाए जाते हैं और इनको ही पूजा जाता है। बजाज लोग होंगे तो गजोंको पूजेंगे, पंसारी पसरट वाले होंगे तो तराजू बांट पूजेंगे। कोई लेखक या मुनीम होंगे तो अपनी कलम दवात पूजेंगे और सेठ साहब अपनी रोकड़ पूजेंगे। क्यासे क्या रूपक बन गया? व्यों व्यों समय गुजरता गया, उसका असली प्रयोजन भूलते गए और अपने स्वार्थ या मंशाके अनुकूल तत्त्व आने लगे।

रक्षाबन्धनका मूल भाव—रक्षाबन्धनका त्यौहार ले लो। मूलमें क्या रूप था? अकम्पनाचार्य आदि मुनिराजोंको उस दिन श्री विष्णु ऋषिराजने उपद्रवसे बचाया था। जब दूसरे दिन लोगोंने उनके आहारके लिए

उनके अनुकूल पथ्य भोजन बनाया। उस नगरमें बड़ी खुशी छाई थी। जहां सात सौ मुनियोंका संघ जलाया जा रहा हो और किसी समर्थ महा-पुरुषके द्वारा उपसर्ग बचा लिया गया हो, उस समय नगरवासियोंके हर्षका क्या ठिकाना है? हर्षके मारे सारा नगर उछल रहा था। मुनिराज आये तो उनको भोजन मुख्यतासे क्या दिया गया? जो गलेमें जल्दी गिल जाय सेवई अथवा पतली खीर।

रक्षाबन्धनका उत्तरकालमें निर्वाह— वह साल तो गुजर गया। अब आया दूसरा साल। तो दूसरे वर्ष उन मुनियोंका उपसर्ग हुआ और आहार दें, ऐसा-ऐसा तो न हुआ। वह तो एक दफा हो गया। जब दूसरा वर्ष आया तो उपसर्गका और उस खुशीका ध्यान तो रहा कुछ, पर उस कार्यको कैसे निमायें? सो कुछ स्मरणके लिए सूचक कोई बात बनाई। अब और साल गुजरा, रक्षाका तो ध्यान रहा कि रक्षा होनी चाहिए। रक्षाकी थी विष्णु-कुमार मुनिने, सो सबकी रक्षा करना अपना भी कर्तव्य है। बड़े महापुरुषोंने यदि बड़ो रक्षा की थी तो अपन लोग छोटी-छोटी रक्षा करलें। सो जो साधर्मीजन हुए उस समय उनकी रक्षाका सूत्रपात हुआ। फिर और समय गुजरा तो उन ब्रवी, त्यागी, सधर्मी आदि लोगोंका भी क्याल भूल गये और सोचा कि अपने ही घरमें तो बुवा हैं, बहनें हैं, गरीब हैं, विधवा हैं, दुःखी हैं इनका ही रक्षण करें। सो उनके रक्षणपर दृष्टि हुई।

रक्षाबन्धनका रूढिरूप— फिर कैसा क्या हुआ, हम इतिहासके जानने वाले तो नहीं हैं, पर अंदाजसे बात बतला रहे हैं। घीरे-घीरे असली बातोंका लोप हुआ और अपने मन माफिक बातें आईं। खैर कुछ दिन यों ही चला। फिर यह हुआ कि चलो बहिन, बुवा, विधवायें कोई बांधें, उन्हें पैसा दें उनकी कुछ मिठाई खावें। वे मिठाई देने लगीं तो लोग उन्हें पैसे देने लगे। फिर चलते-चलते जितनी मिठाई दें उसके अनुपातसे लोग पैसे देने लगे। अगर छटांक भर मिठाई घर दी तो उसको मिल जायेगी अठन्नी और अगर २० सेर घर दी तो उसको मिल जायेगे बीस रुपये। क्यासे क्या रूप बिगड़ता चला जाता है? जो हितकी और असली बात है वह तो छिपती चली जाती है। लक्ष्मी शब्दका अर्थ भी यों वैभव हो गया। यह सब समयका काम है।

वीरकी विशेषता— प्रभु वर्द्धमान स्वामी का वीर भी नाम है। इस वीर शब्दका अर्थ है जो विशिष्ट ज्ञानलक्ष्मीको देवे। संस्कृत भाषा जानने वाले इसका स्पष्ट अर्थ जानेंगे। त्रि इं र ऐसे तीन शब्दोंसे मिलकर वीर बना है। ऐसे वीरप्रभुका इस ग्रन्थके आदिमें स्मरण किया तो विशेषण

क्या दिया है कि जो अनन्त उत्तम ज्ञानदर्शन स्वभाव वाला है, जो स्वयं ज्ञानका भण्डार हो उसही का तो ऐसा निमित्त है कि उससे दूसरेको भी ज्ञान प्राप्त हो। तो प्रभु वीर अनादि अनन्त स्वभाव वाला है।

प्रभुस्वरूपका अनुमान— इसके अंदाजके लिये जरा कुछ देर बाहरी विकल्पोंको त्यागकर अपने आपके अन्तरकी स्वभावकी परख करें—मैं किस रूप हूँ, किसके द्वारा रचा गया हूँ, मेरा क्या आकार प्रकार है। इस ओर दृष्टि दें तो क्या मिलेगा? अपने आपमें अपनी पकड़ करने के लिए एक ज्ञानदर्शनात्मक चैतन्यस्वभाव है। इसमें स्पर्श है नहीं जो छूकर समझे कि यह मैं आत्मा हूँ। रस है नहीं जो चखकर जाना जाय कि यह आत्मा तो मीठा है और यह आत्मा खट्टा है। कहते तो हैं लोकव्यवहारमें ऐसा कि इससे मत भिड़ना, नहीं तो खट्टा खावोगे। यह बड़ा कड़ुवा पुरुष है, यह बहुत मीठे मिजाजका है, पर ये सब रूपक कहे हैं अलंकारमें। आत्मामें रस नहीं है जो चखकर जान लिया जाय कि आत्मा कैसा है? आत्मामें गंध नहीं जो सूँघ लिया जाय कि कैसा गंध है, इसमें रूप नहीं जो नेत्रोंसे जान लिया जाय कि कैसा रूप है?

ज्ञानका व्यक्तरूप आनन्द— भैया! कोई लोग कहते हैं कि जब बड़े ध्यानमें बैठते हैं तो भीतरमें सफेद उजले का झककाटा दीखता है। पर है क्या सफेद? है क्या ऐसा सफेद रंगका उजाला जैसा कि बिजलीकी रोशनीमें सूर्य चाँदकी रोशनीमें सफेद उजाला है? नहीं है। पर जब यह ज्ञानकी स्वच्छता जाननेके लिए उद्यम करते हैं तब इसे पूर्व स्वच्छताके दिख जाने के नाते कुछ उजाला महसूस करते हैं किन्तु जब ज्ञानस्वरूप अनुभवमें आता है तब वहां उजाला, झककाटा नहीं होता, किन्तु अनन्त उत्तम सहज स्वाधीन आनन्दका अनुभव करते हैं। ज्ञानका यदि कुछ रूप मानें तो आनन्दरूप तो हो सकता है मगर उजाला झककाटा, सफेद आदि रूप यह नहीं हो सकता।

ज्ञानविकासकी आनन्दसहभाषिता— भैया! आनन्द उपजाता हुआ यह ज्ञान प्रकट होता है। जैसे एक जगदीशी टीका है वेदांतमें, उसमें एक दृष्टांत दिया है कि कोई नई बहू थी। उसके प्रथम बार गर्भ रह गया। बहू बोली साससे कि सासू जी, जब हमारे बच्चा पैदा हो तो हमें जगा देना, ऐसा न हो कि सोते हुएमें हो जाय। तो सास उत्तर देती है कि बेटी घबड़ावो मत जब बच्चा पैदा होगा तो तुम्हें जगाता हुआ ही पैदा होगा। तो यह ज्ञान जब प्रकट होता है तो आनन्दको विकसितकर प्रकट होता है। ऐसा वास्तविक ज्ञान कहीं न होगा जो ज्ञानकी वृत्ति भी चल रही हो और

क्लेशका अनुभव भी कर रहा हो। जहाँ क्लेश है, दुःख है, शत्य है, चिंता है, विकल्प है वहाँ ज्ञानका विलास नहीं है, वहाँ अज्ञानका विलास है। जहाँ ज्ञान अपने शुद्ध ज्ञानमें प्रकट हो रहा है वहाँ शुद्ध आनन्द है।

कुन्दकुन्दाचार्यका परिचय— भगवान् वीर जिनेन्द्र अनन्त श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन स्वभाष वाला है, विकास वाला है, ऐसे जिनेन्द्र वीरको नमस्कार करके कुन्दकुन्दाचार्य देव नियमसार ग्रन्थको कहनेका संकल्प करते हैं। ये कुन्दकुन्दाचार्य १२, १३ वर्षकी अवस्थामें मुनि हो गए थे, और फिर १०-१४ वर्षके ही बाव उनके समयके समस्त मुनिसंघने उन्हें आचार्यपद दिया। पुत्रको बचपनसे माता कैसा बना लेती है? इसका उदाहरण कुन्दकुन्ददेव है। जब कुन्दकुन्ददेव बच्चे थे, उनकी मां पालनेमें झुलाती थी तो झुलाती हुई मां क्या गीत गाया करती थी, वह गीत ज्ञान से भरा था—

शुद्धो बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि, संसारमायापरिषजितोऽसि।

संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां श्रीकुन्दकुन्दं जननीदमूचे ॥

कुन्दकुन्दकी मां कुन्दकुन्दसे कह रही हैं कि हे बालक! तू शुद्ध है, शुद्ध है, निरञ्जन है, संसारकी मायासे रहित है, तू संसारस्वप्नको मोह नींदको छोड़।

बाल्यमें शुद्धदर्शन— वैसे भी बचपन बड़ा शुद्ध होता है, ज्यों-ज्यों उमर बढ़ती जाती है और विभाव अपना घर बसाते हैं तब यह टेढ़ा बनता है, कुटिल बनता है। किन्तु बालक तो अपने बचपनमें सरल और शुद्ध होते हैं लेकिन कुन्दकुन्दकी मांका उस बचपन पर ध्यान नहीं है, किन्तु उसकी आत्माका ध्यान है। बचपनमें मनुष्यके पुण्य ज्यादा होता है क्यों कि पूर्वभवकी तपस्या करके नया नया पुण्य यहाँ आया है। जैसे-जैसे उसकी उमर बढ़ती है उसका पुण्य खराब होसा जाता है। मोह बढ़ा, राग बढ़ा, झल कपट करने लगा, धोखा देने लगा फिर धीरे-धीरे पुण्य खत्म हो जाता है। यहाँ तो कुन्दकुन्दकी मां उनके आत्मस्वरूपको देखकर बोल रही हैं कि तू शुद्ध है।

बालककी सरलता— एक बाबू साहब एक सेठके कर्जदार थे। सो बाबू जी ने देखा कि सेठ जी आ रहे हैं, हमसे रुपये मांगेंगे। सो अपने लड़के से कह दिया कि तुम चबूतरे पर खैलो—सेठ आयेगा, पूछेगा कि तुम्हारे बाबू कहाँ हैं, तो तुम कह देना कि बाबू साहब बाहर गए हैं। अब वह खेलता रहा चबूतरे पर। सेठजी ने आकर पूछा कि तुम्हारे बाबू घर हैं ना? तो बोला कि बाबू जी बाहर गए। फिर पूछा कि कितने दिनोंमें

आयेंगे ? तो बोला कि ठहरो बाबू जी से पूछकर अभी बतायेंगे । देखा ना, बच्चेकी सरलता ।

ज्ञानी माता पिताकी बालकपर हितदृष्टि—कुन्दकुन्ददेवकी मां पालने में भूलते हुए बच्चे से कह रही है कि तू शुद्ध है, ज्ञानस्वरूप है, रागद्वेष मोह आदिकसे रहित है, ज्ञानस्वरूप है, निरञ्जन है, तू कर्ममल अंजनसे परे है, विभाव तुझसे परे हैं । तू संसारके स्वप्नको, मोहकी नंद को तोड़ । हितकारिणी मां थीं वह । नहीं तो मां यों कहती कि तू बड़ा है, राजा हो, विवाह कर, ऐसे गीत गाती । पर यह तो बड़े पुरुषोंकी अलौकिक बात है । उनको जब बालक पर प्रेम उमड़ेगा तो यों उमड़ेगा कि यह सम्यग्ज्ञानी बने, सम्यग्दृष्टि हो, अपने आपका कल्याण करे । ऐसी उत्तम भावना होती है । पिता रक्षकका नाम है । पाति इति पिता, जो रक्षा करे उसे पिता कहते हैं । जीवकी रक्षा ज्ञानसे है । धन कितना ही जोड़कर रख जावो, मगर वह अज्ञानमें है तो अधीर रहेगा, विह्वल रहेगा और संकट घिर जायेंगे । इस कारण वास्तवमें वही पिताका नाता निभाता है जो अपने बालकको मोक्षमार्गकी विद्या सिखानेमें लगाता है ।

कुन्दकुन्दाचार्यका संकल्प— ऐसे कुन्दकुन्ददेव कुमार अवस्थामें साधु हुए । शास्त्रोंका उन्होंने अध्ययन किया । गुरुपरम्परासे गुरुचरणोंमें रहकर अध्यात्मविद्याका मर्म जाना । बड़ी युक्तियोंमें ये बड़े कुशल थे । ऐसे योगी कुन्दकुन्ददेव कहते हैं कि केवली भगवान् और श्रुतकेवली भगवानने जो कहा है ऐसे मोक्ष और मोक्षमार्गरूप इस नियमसारको मैं कहूंगा ।

आगमोपदेशकी परम्परा— इस नियमसार ग्रन्थमें जो कुछ तत्व बताया जायेगा वह केवली भगवान् और श्रुतकेवलीके द्वारा प्रणीत है । इसका मूलकर्ता तो केवली भगवान है अर्थात् वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी अरहंत भगवानकी जो दिव्यध्वनि खिरती है वह दिव्यध्वनि समस्त आगमों का मूल कारण है । उस दिव्यध्वनिको सुनकर गणधरदेव द्वादशांग अंग बाह्यरूप आगमकी रचना करते हैं । फिर उन श्रुतदेवताकी परम्परासे आचार्य उसका व्याख्यान करते हैं । इन आचार्योंके व्याख्यानकी परम्परा से आज जो कुछ आगम हमारे आपके सामने है वह उस मूल परम्परा से है ।

दूषित वचनोंकी अप्रतिष्ठा— यद्यपि बीचमें कुछ लोगोंने कुछ संस्कृत श्लोक भी रचकर या फिर थोड़ा मिला जुलाकर रचना भी कर दी है किन्तु आंचे रत्नोंमें जैसे खोटे रत्न कब तक चल सकेंगे ? प्रथम ही वह पारसी

उन खोटे रत्नोंको अलग बता देगा। मान लो एक पारखी न कर सका तो दूसरा पारखी उसे अलग कर दिखायेगा। रह नहीं सकता है खोटा रत्न असलीमें मिलकर, असली बनकर। इसी प्रकार जो रागपूर्ण वचन हैं, तत्त्वविरुद्ध वचन हैं वे किन्हीं पुरुषोंके द्वारा आगममें मिला भी दिये जायें तो भी टिक नहीं सकते हैं। पारखीजन उन्हें पहिचानते हैं और विनाशीक जान कर उन्हें अलग कर देते हैं।

प्रयोजनभूतविषयमें सदोष व निर्दोष वचनके परिचयकी सुगमता— प्रयोजनभूत तत्त्वके सम्बन्धमें सदोष और निर्दोष वचनका जानना बहुत कठिन नहीं है। जिन वचनोंसे र वभावपर दृष्टि जाय, रागद्वेष मोह दूर करनेकी शिक्षा मिले वे वचन प्रमाणीक हैं और जो रागद्वेष मोहको धर्म बतायें, कुपथ पर ले जानेकी प्रेरणा करें वे वचन एकदम मालूम ही पड़ जाते हैं कि ये सदोष हैं। सदोष वचन आगममें कब तक टिक सकेंगे? उन्हें पारखी अलग कर देते हैं। यह निर्दोष व्याख्यानपरम्परा केवली और श्रुतकेवलीसे चली आयी है। आचार्यदेव यहां कह रहे हैं कि हम कपोल-कल्पित बात नहीं कह रहे हैं, किन्तु जिस बातको केवलीकी दिव्यध्वनिमें बताया गया, श्रुतकेवलीके भाषणमें बताया है वही तत्त्व बताया जायेगा। कपोलकल्पित बात कदाचित् सत्य भी हो तो भी सुनने वालेको केवल कहने मात्रसे प्रमाणिकता नहीं आती। इस कारण आचार्यदेवने स्वयं ही मंगला-चरणकी गाथामें यह कह दिया कि केवली और श्रुतकेवली द्वारा कहे हुए तत्त्वको मैं कहूंगा।

जिनशासनमें मार्ग व मार्गफलके कथनकी मुख्यता— भैया! इस नियमसारमें मार्ग और मार्गफल बताया जावेगा। जिनशासनमें मार्ग और मार्गफल ये दो प्रकारके तत्त्व बताये गए हैं। कौनसा तो मार्ग चलने योग्य है और उस मार्गसे चलनेका क्या उपाय है? यह जिनैन्द्रशासनमें बताया गया है। दूसरी बात मार्गका फल बताया है—मार्ग तो है मोक्षका उपाय। इस अनादि बन्धनबद्ध वैभवदृष्टि इस आत्माका संकटोसे कैसे छुटकारा हो? उस उपायको मार्ग कहते हैं और वह मार्ग मिल जाय तो उस मार्गसे चलनेका जो फल रहता है वह है मोक्ष। तो मोक्ष और मोक्षका उपाय ये दो बातें जिनशासनमें बतायी गई हैं।

मार्ग शब्दका भाव— इस मार्ग शब्दका अर्थ है इष्ट स्थान खोजा जाता है जिसके द्वारा उसे मार्ग कहते हैं। जीवका सर्व अमीष्ट सिद्धजीवन है। यह जीव चिरकाल तक या तो निगोदमें रहता है या सिद्ध अवस्थामें तो निगोदकी कोई सीमा नहीं होती है। चिरकाल तक जीव निगोदमें

रहता है और चिरकाल तक ही यह जीव मोक्षमें रहता है। मोक्षकी सीमा नहीं है। मोक्ष होने के बाद फिर कभी संसारमें भटकना नहीं होगा। निगोदसे तो निकलना हो जाता है। निगोद और संसार—इन दो दशावर्षों को छोड़कर जीव अन्य पदमें बहुत काल तक नहीं रहता। उसका पक्षी जैसा जीवन सदा नहीं रहता। जैसे हम आप मनुष्य हुए वैसा ही जीव सदा न रहेगा।

जीवनका गुजरना—जैसे पर्वतसे गिरने वाली नदीका वेग जो बह गया वह वापिस नहीं होता, इसी तरह इस जीवनका समय जितना गुजर गया वह गुजर गया, फिर उसका कुछ भी समय वापिस नहीं आ सकता है। जैसे जिसकी अवस्था ६०-६५ वर्षकी हो गयी, शरीरमें शिथिलता आने लगी, बड़ा घनी है, बड़ा गुथी है, बड़ा उसका यश है, खूब प्रतिष्ठा है, समाजमें मान्यता भी है, पर वह चाहे कि मेरी उम्र ८ वर्षके बच्चेकी जैसी हो जाय तो नहीं हो सकती। एक साल क्या, एक दिन भी पीछे नहीं हो सकता है। जो समय गुजरा वह गुजर गया। यदि इसी समय में कोई कर्तव्य न कर पाया तो बतलावो फिर क्या हाथ रहेगा? कुछ भी हाथ न लगेगा, व्यर्थ ही यह जीवन खो दिया।

जीवनसमयका दुरुपयोग व सदुपयोग—जीवन व्यर्थ खोनेका अर्थ है जीवनको विषयोंमें, पापोंमें ही लगा देना। ज्ञानमें समय गुजरे, प्रभुके स्मरणमें समय गुजरे, अपने आत्माके एकत्वकी ओर उन्मुख हो, इस तरह से समय गुजरे तो वह है जीवनका सदुपयोग। और विषयोंके सुखमें समय गुजारा—खूब खाते हैं मौजसे, बड़ा स्वाद आता है, आनन्द लेते हैं, जो चाहे दृश्य देखते हैं, जो मनमें आया उसी रूपको देखते हैं, विषयभोगों के साधन भी सुलभ बना लिए गए हैं, मनमाना विषयोंमें सुख लूटते हैं, ऐसे अज्ञानी जीव भले ही समझें कि हम बड़ी चतुराईका काम करते हैं किन्तु जो इस प्रभुकी दशा हो रही है वह दयनीय हो रही है, वे समयका दुरुपयोग कर रहे हैं। यह मनुष्यजीवन बड़ा दुर्लभ है। उसकी दुर्लभताका वर्णन करनेमें किसीके हजारों जीम भी हों तो भी वह समर्थ नहीं है।

नरजीवनके श्रेष्ठताका अङ्कन—सारे लोकमें दृष्टि पसारकर देख लो, मच्छर फिरते हैं, मेढक मछलियां हैं, पशु पक्षी हैं, चूहा बिल्ली हैं, कुत्ता सूकर हैं, कौड़े मकौड़े हैं, इनकी जिन्दगी निहारलो क्या ऐसा बनना चाहते हो? मन तो नहीं चाहता होगा। बड़ी तुच्छ दशा है। इन जगतके जीवों की हालतको देखकर अपने आपके जीवनका मूल्या तो समझलो। क्या यह जीवन मोही जीवोंके हाथ बेचना है? जिनमें मोह और राग

बढ़ाया है ऐसे घरके लोगोंका ही क्या जाप करते रहना है ? धन सम्पदा, वैभव इज्जत क्या ये सदा रह सकते हैं ? इन असार बातोंमें कुछ भी सार न पावोगे ।

विवेक— यह मन केवल दो ही ठिकाने लगाने योग्य है । एक तो वीतराग सर्वज्ञ प्रभुके स्वरूपमें और दूसरे अपने आत्माके स्वभावमें । तीसरी जगह मन नहीं बेचना है । इन दो बातोंकी सिद्धिके लिए कुछ बोलते हैं, रहते हैं, व्यवहार करते हैं पर समर्पण तो उस चैतन्यस्वरूपको ही मन हो । जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग अवश्य होगा । यह चंद दिनोंका समागम है । यह सदा न रहेगा, और जितने दिन रहेगा उतने दिन बेहोश बेवकूफ मोही पापमय बननेका तो कारण होगा, पर पार करनेका कारण न होगा । ज्ञानीपुरुष इस संतापपूर्ण जगतके अन्दर भी अपनी सावधानी बनाए रहते हैं ।

निरन्तर विशेष सावधानी— किसीके यहां मशीन या इज्जीनियरिङ्ग का काम हो रहा हो, आप आटा पीसने वाली चक्कीके ही पास क्यों न हों ? कैसा संभलकर खड़े होते हैं । थोड़ा किसी ओर झुकाव न हो जाय अन्यथा पट्टेमें लिपटकर मृत्यु हो जायेगी । किसी बड़े कारखानेके बीच जहां पंच पुर्जे अधिक चल रहे हों, कैसी सावधानी आप वहां बर्तते हैं, कहीं खत्म न हो जायें । जगह-जगह लिखा है— खतरा । इस लौकिक खतरे से इतनी सावधानी होती है और यह इस प्रभुस्वरूपपर जो बड़ा खतरा हो रहा है, बाह्यपदार्थ रुच जायें, चिंता, विशाद, शठ्य, आकांक्षा निदान घर कर जाय, इतना बड़ा जो उपसर्ग है जिससे दुर्गति होती है, जन्ममरण की परम्परा बढ़ती है, इस खतरेसे सावधानी न चाहिए क्या ? क्या ये ही बाह्य जड़ अथवा चेतन परिकर तुम्हारे लिए सब कुछ हैं ? हां ठीक है, यदि यह मदद कर सकें तो ठीक है किन्तु ऐसा किसीके नहीं है ।

खाली हाथ— भैया ! बहुत अतीतकी बात नहीं है । जब सिकन्दर मरने लगा, इतिहासमें लिखा है, उसके देशमें बड़ा साआव्य था । इस परिचित दुनियामें इसका एकछत्र राज्य था । बहुत-बहुत सुखके साधन थे, पर मरने से बचने के लिए उसके पास कोई उपाय न था । उसके अन्तरमें यह एक हाथ भी थी कि कितना श्रम करके इतना वैभव जोड़ा और आज एकदम छूटा जा रहा है, अब विवेक भी काम कर रहा है, कुछ चिंतन भी काम कर रहा है । उस समय वह लोगोंसे कहता है कि मेरे मरने के बाद अर्थी निकाली जाय तो मेरे हाथ पसार दिये जायें ताकि लोग देखें कि मरने के बाद यह खाली हाथ जा रहा है ।

सर्वदा शून्य— भैया ! मरने पर ही क्या ? जब यह जीवित है तब भी खाली हाथ है। लाखों और करोड़ोंकी सम्पत्तिके जीव भी हो और लोक व्यवस्थामें लाखों करोड़ों रुपये बैंकमें जमा हों, दस्तखतोसे निकाले जायें लोकव्यवस्थामें बड़ा अधिकार भी हो तो भी वह पुरुष खाली हाथ है। केवल अपना स्वरूप लिए हुए है, जैसे कि अपने स्वरूपके भाव भी बनाये हों वैसे भावोंको लिए हुए है। भावोंके अतिरिक्त इसके पास और कुछ नहीं है। अपने आपकी चर्चा है यह। दूसरे पर कहीं दृष्टि नहीं देना है।

गुप्तमें गुप्त गुप्तिका यत्न— बुद्धिमान् पुरुष वह है जो चुपचाप अपने आपमें अपने आपकी ही बात सोचकर अपने हितके लिए अपना निर्णय बनाकर अपने आपके कल्याणका यत्न करते हैं। किसीको दिखानेसे क्या तत्त्व मिलेगा ? क्या दिखाना है, किन्हीं दिखाना है ? तुम जिनको दिखाना चाहते हो, सम्भव है कि वे तुमसे भी अधिक मलिन हों। किसी को दिखाने से तुम्हें कोई सिद्धि होगी क्या ? किसके लिए क्या करना है, कोई यहां पूछने वाला नहीं है। सब जीव अपनी-अपनी धुनके हैं। स्वरूप ही ऐसा है। प्रत्येक जीव अपने स्वरूप चतुष्टयसे सम्पन्न है। दूसरेकी कोई दूसरा परबाह कर ही नहीं सकता। सब अपने-अपने स्वार्थ, सुख, दुःख, हर्ष, विशाद इनमें लग रहे हैं। किसी अन्यका कोई दूसरा कुछ करनेमें समर्थ नहीं है।

प्रतिभाका एक उदाहरण— मध्य प्रान्तमें खुरईके एक बड़े श्रीमंत सेठ थे। उनका मिजाज थोड़ा कड़ा भी था। उनकी एक स्त्री गुजर गई, दूसरी शादी हुई तो उस स्त्रीको समझा दिया दासियों ने कि देखो सेठ जी बड़े कड़े मिजाजके हैं, उनकी आज्ञाका उल्लंघन करोगी तो आफतमें पड़ोगी। स्त्री ने कहा कि अच्छी बात है देखूंगी। एक बार सेठ साहबके सिरमें बहुत दर्द हुआ। उन्होंने हुक्म दिया कि सेठानीसे कहो दवा लावे। खबर पहुंची सेठानीको। अब वह सोचती है कि यह तो मंगलाचरण है अभी, यह तो पहिली बारकी बात है। इसमें यदि अपनी कला चला ली तो जीवन भर दुःखसे बची रहूंगी। ऐसी बात सुननेके अनन्तर ही वह तो पलंग पर पड़ गयी, कराहने लगी, मुझे बड़ी पीड़ा है, मेरे सिरमें दर्द हो गया और दिल धड़क रहा, है। यह खबर सेठ जीके पास पहुंची कि सेठानी के सिरमें भी बड़ा दर्द है। सेठ जी फट सेठानीके पास दौड़कर गए, पूछा कहां दर्द है, कैसे क्या हुआ ? सो बहुत देरके बादमें कहा कि आपके सिर दर्दकी बात सुनकर मुझे बड़ा क्लेश हुआ, दिल धड़क गया। अब तो सेठजीमें होश ठिकाने आगया। कला खिल चुकी।

खुदका खुदके प्रयोजनमें बन्धन— प्रयोजन यह है कि कोई सोचता हो कि किसी पर मेरा अधिकार है, कोई मेरे कहने से चलता है—ऐसा सोचना असत्य है। सब अपने-अपने परिणामनसे अपना कार्य करते हैं। कोई आपसे कितना ही बायदा करे कि हमारा तुम पर बड़ा अनुराग है, हम कभी भी तुमसे विलग नहीं हो सकते। यह उसके वर्तमान परिणामों की बौखलाहट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जीव किसी दूसरे जीवसे बेप्रयोजन ही बँध जाय। चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे घर का प्रमुख हो, चाहे देशका प्रमुख हो, प्रत्येक जीव अपने-अपने भावोंके अनुसार अपना परिणामन करते हैं। ऐसा यह जगत है। यहाँ अपने को बहुत सावधान रहना है।

बुद्धिदोषकी विपदा— भैया ! सबसे बुरी विपदा है अपनेमें बुद्धि दोषका आ जाना। इससे बढ़कर और विपदा नहीं है। बुद्धिका दोष जिनके बढ़ जाता है उन्हें ही पागल कहते हैं ना, जो कभी सबक पर भी फिरते हो कोई बड़े घरका आदमी, जो प्रतिष्ठित घरका हो, धनी हो और दिमाग खराब हो जाय तो लोग उसको कितनी दयनीय दशामें देखते हैं ? अरे बेचारा बड़ा दुःखी है। सबसे अधिक दुःखी कौन ? जिसकी बुद्धिमलिन है। जिसकी बुद्धि पूर्ण स्वच्छ है, सावधान है, वह दरिद्र हो, चाहे इष्टोंका वियोग हो, चाहे कोई दूसरा सताता हो तब भी वह गरीब नहीं है क्योंकि बुद्धिवान है। विवेक धन उसके बराबर बना हुआ है। जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, विवेक काम नहीं करता है वह चाहे कितने वैभवके बोच हो, वह गरीब ही है क्योंकि उसे वर्तमानमें शांति नहीं है और इतना ही नहीं वह भावी कालका भी अपना कुछ निर्धारण नहीं कर सकता।

उपदेशका ध्येय शिवमार्ग व शिवमार्गफल— जिनशासनमें इन दो बातोंका वर्णन है—मार्ग और मार्गफल। मार्ग तो मोक्षका उपाय है। किसे मोक्ष दिलाना है ? अपने आत्माको। जिसे मोक्ष दिलाना है उसका स्वरूप तो जानो, उसकी श्रद्धा हो और जिसे छूटना है उस रूपमें इसका अंतरङ्गमें आचरण हो तो मोक्षका मार्ग बनता है और उसका फल है निर्वाणकी प्राप्ति। मोक्षकी तो लोग बड़ी प्रार्थना करते हैं। पूजामें, पाठमें, विनतीमें बोल जाते हैं कि हमें छुटकारा मिले। काहे से छुटकारा मिले ? कर्मोंसे छुटकारा मिले, देहके बंधनसे छुटकारा मिले। छुटकारेके लिए बड़ी प्रार्थना करते हैं। और क्यों जी यदि थोड़े पैसोंसे छुटकारा हो जाय तो उसमें खेद क्यों मानते हो ? विनतीमें तो कहते हो कि छुटकारा मिले पर जरासा पैसोंसे छुटकारा हो जाय तो उसमें खेद काहेका मानते हो ? मानते

हो ना, फिर तो यह सब ढोंग ढपारेकी बात रही। जब व्यवहारके कार्योंसे छुटकारा पानेमें धैर्य नहीं रख पाते हो तो उस बड़े मोक्षकी बात तो एक स्वप्न देखनेकी जैसी बात है।

मुक्तिका आमूलचूल उपाय— इस ग्रन्थमें संकटोंसे छुटकारा पानेका उपाय कहा जाता है। नियमसार ग्रन्थ है यह। इसमें आगे जो वर्णन आयेगा वह बड़ा ही कलापूर्ण वर्णन है, जिसमें आत्माके भीतरकी बात बतायी जायेगी। तो उसे ग्रहण करके जो आनन्द प्राप्त होगा वह आनन्द असीम आनन्द होगा। जैसे मिठाई-मिठाई सब एक होती हैं पर रसगुल्ला, इमरती, जलेबी बरफी इन सबमें कुछ अन्तर है ना। इसी तरह ये चार ग्रन्थ—समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचारस्तिकाय एक ही तरहके आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, फिर भी शैली और पद्धतिसे इनमें अंतर है। जो नियमसारका वर्णन आगे आयेगा उससे सब बातें स्पष्ट होंगी। नियमसार शब्दका भाव है शुद्ध रत्नत्रयस्वरूप। नियम अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र और सार कहने से अर्थ निकला निश्चयस्वरूप विपरीततारहित। निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चय सम्यक् चारित्र, इसका और इससे सम्बन्धित समस्त अंतःक्रियाओंका इस ग्रन्थमें वर्णन होगा।

रागद्वेषके विजेताके नमस्करणीयता— ग्रन्थके आदिमें कुन्दकुन्ददेव ने अंतिम तीर्थकर श्री वीरनाथको नमस्कार किया है, जिसका तीर्थ आज चल रहा है वे वीर जिन हैं, जिनका अर्थ है कि अनेक जन्मोंरूपी अटवियों में बनियोंमें प्राप्त करानेका कारणभूत जो सर्व मोह रागद्वेषादिक हैं उन सबको जो जीतता है उसको जिन कहते हैं। जैसे यह कहना है कि श्री जिनवरको हमारा नमस्कार हो तो जिनवर कहनेसे अन्य लोग चौंक जायेंगे कि यह हमारे प्रभुको नहीं कह रहे हैं और इसही को इन शब्दोंमें कहा जाय कि मोह रागद्वेषको जीतने वाले को हमारा नमस्कार हो तो यह सुन कर अन्य लोग न चौंकेंगे। जिनको नमस्कार कहनेमें इस जैबका अभिप्राय यह है कि इसे किसीके शरीरसे, माता पितासे- या कुल जातिसे वा उनके जीवन चरित्रसे यहां जैनका हठ नहीं है किन्तु केवल यह ही आशय है कि जिसने मोह रागद्वेष शत्रुओंको जीता है उनको नमस्कार हो। शब्द भी वही कहते हैं जिन भगवान् और आशय भी उनका ऐसा ही है।

व्यक्तिकी दृष्टिसे परे शुद्ध ज्ञानभावकी पूजा— भैया ! जो त्रिशला के नन्दन हुए, सिद्धार्थके पुत्र हुए, कुण्डलपुरमें जन्म लिखा ऐसे प्रभुको देखना हम आपकी मंशा नहीं है, किन्तु अपने आपके शुद्ध आत्मस्वरूपका

परिचय करके जिसने विषय-कषाय को जीता, निर्मोह हुए, रागद्वेष रहित हुए और रागद्वेष रहित होनेके कारण सर्वज्ञ भी जिन्हें होना पड़ा ऐसे आत्माकी ओर दृष्टि है किन्तु त्रिशलानन्दन, सिद्धार्थसुत इक्ष्वाकुवंशमें जन्में, इस बात पर दृष्टि नहीं है। जैन सिद्धान्तका लक्ष्य कितना पवित्र है ? केवल परमात्मतत्त्व इस दृष्टिमें लिया जा रहा है कि जो शुद्ध निर्दोष परिपूर्ण परमात्मत्व है उसकी ही मेरेमें भक्ति है।

कल्याणार्थीकी गुणदृष्टि— भैया ! ज्ञानीके रंच हठ नहीं है किसी व्यक्तिका, किसी नामका, पर जिस शुद्ध तत्त्वको, निर्दोष परमात्मत्वको वे बताना चाहेंगे तो कोई शब्द ही तो कहेंगे। उन शब्दोंका मतलब व्यक्तिसे नहीं लिया जायेगा, किन्तु जो निर्दोष और सर्वज्ञ हुए हैं उनका आशय लेना चाहिए। मुख्य मंत्र णमोकार मंत्र है। उसमें किसी व्यक्तिका नाम ही नहीं, किन्तु गुणोंका नाम है। अरहंत—जिसने स्वभावको घात करने वाले कषाय और कर्मोंको जीत लिया है उनको अरहंत कहते हैं। अब कोई अरहंत नामका भ्रम करके सोचे कि ये तो अरहंत राजाको मानते हैं और ऐसी कथाको गढ़ भी देते हैं। कोई अरहंत राजा हुए थे, उनसे यह जिन-धर्म चला था। तो किसी पदको बतानेके लिए जो शब्द कहे जायें उन शब्दोंके अक्षरोंपर दृष्टि नहीं देना है, किन्तु जिस लक्ष्यके लिए शब्द कहा गया उस पर दृष्टि देना है। जो रागद्वेष मोहको जीत चुके हैं उनको नमस्कार हो, केवल यह ही अभिप्राय है अरहंतके नमस्कारमें।

परमेष्ठित्वकी व्यक्ति— अरहंत पदके पश्चात् जब शुद्ध, बाह्य रूप रहित रहनेकी जो अवस्था होती है उसे सिद्ध कहते हैं। सिद्ध किसी व्यक्तिका नाम नहीं है किन्तु जो अपने विकासमें पूर्ण हो चुके हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। मंत्रमें आराधनीय दो हैं— (१) जो पूर्ण शुद्ध हो चुके हैं ये हैं अरहंत और सिद्ध और (२) जो शुद्ध होने के प्रयत्नमें लगे हैं वे हैं आचार्य उपाध्याय और साधु। कोई भी गृहवासी ज्ञानसे जगकर, वैराग्यसे सम्पन्न होकर आरम्भ और परिग्रहको छोड़ देते हैं तो वे साधु होते हैं। जो भी साधु हुए हैं वे गृहवासी लोग ही हुए हैं। ऐसा भी कोई हुआ है कि जो घरमें न पैदा हुआ हो, घरमें न रहा हो, घरमें न पला हो और हो गया हो साधु। ऐसा कोई सुना ही तो बतलावो। चाहे कोई ८ वर्षकी उम्र वाला बालक ही साधु क्यों न हो जाय; पर रहा तो वह घरमें ही था।

अद्भुतपराक्रमी साधु— भैया ! एक आचार्य ऐसे भी हुए हैं कि उन्होंने पैदा होने के बाद कभी वस्त्र धारण नहीं किये और साधु हुए। पहिले बहुत बड़ी अवस्था तक बच्चे नग्न फिरा करते थे। बड़े आदमी

जानते होंगे इस बातको। आज तो ६ महीनेके बच्चेको भी अन्डरवीयर पहिना देते हैं और ऐसा पहिना देते हैं कि सारा दरवाजा नीचे से खुला रहे; नहीं तो कहां तक मूत धो-धोकर परेशान हों। तो पूर्व समयमें नग्न रहा करते थे बालक; सो नग्न रहा बहुत दिनों तक वह बालक और नग्न ही अवस्थामें मुनियोंके संघमें रहा। ज्ञान और वैराग्य जगा तो कहा कि महाराज अब दीक्षा दीजिए। दीक्षा ले ली सो पैदा होनेके बाद वस्त्र नहीं पहिना, और साधु हो गये। ऐसी नजीरें बहुत कम होती हैं। जैसे साधु होने के बाद महान् तपस्या करे और पानी आहार बुद्ध भी न खाये पिये और मोक्ष चला जाय; ऐसा भी नजीर है ना कोई? बाहुबलि स्वामीकी है ना और भी अनेक हैं।

साधुवोंकी वर्तमानता— तो ये आचार्य, उपाध्याय, साधु ये शुद्ध होने के प्रयत्नमें लग रहे आश्मा हैं। उन साधुवोंमें जो नायक होता है वह आचार्य कहलाता है। जो अन्य मुनियोंको दीक्षा दे, खुद आचरण पाले दूसरोंको पालन कराये वह आचार्य है, सो मुनि और आचार्य तो आजकल दर्शन करनेको मिल जाते हैं, परन्तु उपाध्याय नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उपाध्यायके लिए ज्ञान चाहिए। सो ज्ञानयोग होना बड़ा कठिन है कि जो उपाध्याय पदके लायक कहलाये। लेकिन होते थे ऐसे पहिले। ये दोनों ही साधु शुद्ध आत्मा होनेके प्रयत्नमें लग रहे हैं।

भक्तों द्वारा शक्तिदेवताकी आराधना— इन ५ पदोंमें किसी व्यक्तिको नमस्कार नहीं किया गया है। जैनसिद्धान्त नमस्कार किए जाने वालोंमें व्यक्तित्व देखता ही नहीं है किन्तु गुण देखता है। गुणोंको नमस्कार है नामको नमस्कार नहीं है, और बात भी ऐसी ही है। कोई किसी त्यागीको नहीं पूजता, और कोई त्यागी यह सोचे कि हमसे तो बहुत लोग बड़ा स्नेह रखते हैं, मुझसे लोगोंका बड़ा अनुराग है; तो उसका सोचना भूठ है। किसी नामधारी त्यागीको समाज नहीं पूजता है। वही त्यागी यदि पागल हो जाय, गड़बड़ हो जाय, भ्रष्ट हो जाय तो फिर क्यों नहीं पूजते? तो लोगोंकी दृष्टि गुणोंकी ओर होती है, नाम और व्यक्तिकी ओर नहीं होती।

नामकी पूज्यताकी अहेतुभूता— यहां २४वें तीर्थंकरको नमस्कार किया है, इसमें वीरत्वको और जिनत्वको नमस्कार है। सिद्धार्थनन्दनको नमस्कार नहीं है। यदि सिद्धार्थ कोई अपना नाम रखले और उसका लड़का हो जाय तो वह भी तो सिद्धार्थनन्दन है। जैसे आजकल तीर्थंकरोंके नाम पर जो नाम चलते हैं उनकी क्या कमी है? विहार प्रान्तमें सराक जाति

में आदिनाथ नेमिनाथ ऐसे नाम होते हैं, और उनके कुलमें भी ऐसे ही नाम चलते हैं। तो नाम रख लेनेसे कहीं पूज्यता नहीं होती। ऐसे ही उन का नाम था सिद्धार्थनन्दन, त्रिशलानन्दन। इस नाते से वे पूज्य नहीं थे किन्तु उनमें जिनत्व था, जन्म-जन्मातर अनेक जन्मोंरूप जंगलमें भ्रमणके कारणभूत जो रागद्वेषादिक भाव हैं उन पर उन्होंने विजय प्राप्त की। ऐसे जिन वीरको नमस्कार किया जा रहा है।

वीरका वाच्य— वीर शब्दके कहने से ७ हाथकी अवगाहना वाले कुण्डलपुरके जन्मे हुए थे। ऐसी दृष्टि नहीं लेना है, किन्तु जिनमें वीरत्व प्रकट हुआ है उन्हें दृष्टिमें लेना है। यद्यपि यह वर्द्धमान वीरप्रभु प्रभु हुए हैं, इसलिए पूर्ण नाम लेकर नमस्कार किया जाता है, पर लक्ष्यमें लेना है वीरत्व। वीरका अर्थ है जो विक्रान्त हो, विक्रम करे, कर्मशत्रुओंको जीते, शूरता रखे उसे वीर कहते हैं। अब तो बहुतसे वीर हैं चन्दनपुरके वीर, कुण्डलपुरके वीर। और हों कोई आसपासके पुराने गांवके जो उजाड़ हो गए हों, उस क्षेत्रमें कोई वीर नामका हो। तो ऐसे तो अनेक वीर हैं। अरे जहां पर्यायको भी दृष्टिमें न लेकर वीरत्व और जिनत्वको देखकर भक्ति की जा रही हो, उनके चंदनपुर और कुण्डलपुरकी तो कहानी ही छोड़ो।

नाम व चरित्रकी पकड़ विडम्बनाकी जड़— वीरप्रभु जो कि चार नामोंसे प्रसिद्ध हैं—वर्द्धमान, सन्मति, महावीर और अतिवीर। ये सब चरित्रोंसे सम्बन्धित हैं। पर बात यह बतायी जा रही है कि किसी जीवन चरित्रसे हम भक्ति नहीं करते हैं किन्तु गुणविकासके कारण भक्ति करते हैं। आज जो परमात्माके नाम पर ही इतने विवाद खड़े हो गए देशमें उसका कारण है नाम और चरित्रकी पकड़। जिसने ईसा प्रभुको माना है, बस उनका ख्याल है कि जो ईसा हुए हैं, जो यों जंगलमें रहते थे, यों लोगोंसे बोलते थे, अमुक जातिके थे, भेड़े साथमें रखते थे, लोगोंके संकट दूर करते थे वे प्रभु हैं। चरित्रसे प्रभुता मान ली। इसी प्रकार जो जिन को देवता कहते हैं उनके जो चरित्र लगा है बस उस चरित्रके रूपके कारण ही भगवत्ता मानते हैं। तब इसमें विवाद हो गए, विसम्बाद हो गए।

हितभावरूप दर्शनकी अभीष्टता— रागद्वेष मोह न होना और सारे विश्वका ज्ञाता बनना, यह बात तो सबको पूज्यताके लिए इष्ट होगी। चारित्र छोड़कर, जो मन, वचन, कायकी क्रिया हो, भली भी हुई हो तो भी उसे दृष्टिमें न लेकर केवल इस दृष्टिको भावमें लिया जाय कि जिसने रागद्वेष मोहको दूर किया है ऐसा शुद्ध ज्ञानपुञ्ज हमारा प्रभु है। तो सब एक छाया

में उपस्थित हो जायेंगे।

हितमार्गके अतिरुद्ध चरित्रकी श्रोतव्यता— भैया ! प्रभुताके मर्मसे अविदित जैन नामधारी भी नाम, व्यक्ति और चरित्रकी ही हठ करके और उसमें ही परमात्मत्व देखकर, तत्त्वसे च्युत होकर विसम्बद्धमें पड़ जाते हैं। अब इस मूल बातको न भूलें और फिर व्यक्ति और चरित्रकी ओर भी दृष्टि रखें तो वह व्यवहारभक्ति बन सकेगी। प्रभु वीरका वर्द्धमान तो पहिला नाम था और जब दो मुनिराज कुछ मनमें तत्त्वशंका रखते हुए जा रहे थे और यह बालक वर्द्धमान उन दोनों को दिख गया तो देखते ही उनकी शंका दूर हो गयी। ऐसे कथानकके आधारसे उनका नाम सन्मतिनाथ पड़ा और बचपनमें जब वे खेल रहे थे तो एक देव परीक्षा करने आया सांपका रूप बनाकर, तो खेलने वाले सभी साथी खेल छोड़-छोड़कर भाग गए और वह साहसी बालक सर्पसे खेलने लगा। उसके फन पर ही पैर रखकर लीला करने लगा उस समयसे उनका नाम महावीर है। इस तरहकी घटनाओंके आधार पर चार नाम पड़े हैं। इन नामों करके सहित परमेश्वर महादेवाधिदेव, अंतिम तीर्थंकर उनको प्रणाम करके इस नियमसारको कहेंगे।

महंतोंकी महंतोंके प्रति महती कृतज्ञता— भैया ! जिससे उपकार हुआ उसको जो छिपाये उसके गुणोंके विकासमें बाधा रहती है। इस कारण कृतज्ञता प्रकट कर देना यह संतोंका स्वाभाविक गुण है। यदि वीर प्रभु की वाणी न होती तो आज पदार्थका स्वरूप हम कहाँसे पाते और शांति कैसे मिलती ? शांति जो हम आपको जब कभी मिलती है वह भेदविज्ञान का प्रताप है। परकी ओर लगनेमें भिड़नेमें शांति कभी हो ही नहीं सकती। जितना हम परसे हटते हैं, ज्ञानद्वारा हम अपने आपके अकेले स्वरूपमें विचरते हैं उतनी ही तो शांति है और बाकी शांतिकी आशा न रखिए। चाहे लखपति हो जावें, करोड़पति हो जावें, कितना ही परिवार हो जावे पर शांति नहीं मिलती। बड़े आदमियोंके ठाठबाट देख लो—एन्हें शांति उससे नहीं प्राप्त हो सकती। शांति ज्ञानपर ही निर्भर है।

महान् लाभके प्रोग्राममें तुच्छ हानिकी उपेक्षा— भैया ! चाहिए क्या ? सुख, शांति, आनन्द। उसका उपाय है—सम्यग्ज्ञान। तो बस्तु-स्वरूपका बोध करना कितना बड़ा काम है ? दुकानसे बड़ा है या नहीं ? दुकानसे तो बड़ा है और घरके लोगोंके स्नेहसे बड़ा है कि नहीं ? उससे भी बड़ा है। यह सबसे बड़ा काम है और जो बड़ा काम होता है उसको करते हुएमें अगर छोटी बातोंका नुकसान भी हो जाय तो उसमें रंज न

होनी चाहिए। धनमें कुछ कमी हो जाय, परिवारमें कोई क्षति हो जाय तो उसके ज्ञाता द्रष्टा रहना चाहिए। यदि ऐसा न कर सके तो अशांति होगी। एक ही उपाय है शांतिका, सम्यग्ज्ञान होना। ये वीरदेव निर्मल ज्ञानदर्शनसे युक्त हैं। जो समस्त पदार्थोंके जाननेमें समर्थ हैं। तीन लोक तीन कालके चर और अचर द्रव्यगुण पर्याय सर्वको यथावत् एक साथ जाननेका जिनके जौहर प्रकट हुआ है, उस वीरजिनको नमस्कार करके इस नियमसारको कहेंगे, ऐसा कुन्दकुन्दाचार्य देव सकल्प कर रहे हैं।

वर्णनीय नियमसार— भैया ! इस ग्रन्थमें किसको कहेंगे ? नियमसार को। नियम अर्थात् सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र उसका सार मायने शुद्ध निश्चयरूप परमार्थरूप रत्नत्रय। इसका विरूपण इस ग्रन्थमें किया जायेगा। ऐसा विरूपण अपनी बुद्धिसे ही नहीं प्रकट किया, किन्तु समस्त पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानने वाले वैवलियोंने बताया और समस्त द्रव्य अतके जानने वाले अतवैवलियोंने बताया, वही तत्त्व जो अनन्त तीर्थकरों ने अपने-अपने समयमें बताया अथवा जो आत्मामें स्वरूप बसा हुआ है, सहजभाव है उसका विरूपण जो चला आ रहा है उस ही अनन्त संतोंके द्वारा विरूपित तत्त्वको यहां कुन्दकुन्दाचार्य कहेंगे। अपनी रुचिसे जो शास्त्र बनाया जाय उसमें प्रामाणिकता नहीं आती। रुचि भी काम देती है पर साथ ही उन अनन्त ज्ञानियोंके ज्ञानसे मेल खाता हो तब तो समझो कि वह समीचीन है, ऐसे प्रवाहरूपमें चले आए हुए इस नियमसार अर्थात् शुद्ध रत्नत्रय स्वरूपका इसमें वर्णन चलेगा।

महनीयके ही महनीयता— कुन्दकुन्दाचार्य देव यहां वीर जिनेन्द्रको नमस्कार कर रहे हैं। सो मानों ऐसी उस्तुकतासे नमस्कार कर रहे हैं कि हे वीर जिनेन्द्र ! तुम्हारे जैसे वीतराग सर्वज्ञ प्रभुके रहते हुए मैं किस अपने समान महा मुग्धचारित्र वाले अन्य देवताओंको नमस्कार कर सकता हूँ ? कोई किसीका चारित्र यों बताए कि एक पुरुष है और वह जहां चाहे, जो चाहे चुरा लेता है और खा लेता है, हलवाईकी दुकानमें अब लेमें घुस जाय तो मिठाई खा लेता है, दूध वालेकी दुकानमें घुस जाय तो दूध दही खा लेता है और जहां जाता है वहां स्त्रियोंमें रम जाता है, तो इस चरित्रको सुनकर क्या आपमें भक्ति उमड़ेगी या जो गृहस्थकी भांति स्त्री रखे हो, पुत्र रखे हो, ऐसा कोई हो तो क्या उसके प्रति आपकी भक्ति जगेगी ? ऐसे देव तो हमारी ही तरह मोहमुग्ध है। संसारकी ऐसी रीति है कि कोई बिलक्षण बेढंगा काम करने लगे तो उसमें प्रभुता मानने लगते हैं, किन्तु मेरी ही तरह मोह मुग्ध जो हैं उनको मैं कैसे पूजूँ ?

धर्माश्रयका परमार्थ आश्रय— हे प्रभु ! जो रागद्वेष कषायसे परे है, ज्ञानकी अत्यन्त स्वच्छ महिमा जिसके प्रकट हुई है ऐसा स्वरूप ही मेरा आराध्य है, मैं कहाँ जाऊँ ? ये रागद्वेष शिष्यगण, परिवारजन, भक्तजन क्या मेरे कोई शरणभूत हैं ? सब मेरे उपयोगको यत्रतत्र भटकानेमें ये आश्रय बनते हैं । मैं किसकी शरण जाऊँ जो मेरे लिए एक मात्र हो । आप अभी देख लो—धर्मके नाम पर भगवान् जिनेन्द्र या प्रभुमूर्ति, मंदिर इनके लिए सब लोग कितने न्यौछावर रहते हैं ? घरका काम बिगड़े तो एकको ही चिंता है अन्यको, परवाह ही नहीं और मंदिरका या संस्थाका कोई काम आ जाय तो सबको चिंता और सबको परवाह है । कोई बात बिगड़ने लगे तो सबको चिंता हो जाय । चाहे उन सबने उस धर्मका यथार्थस्वरूप न भी जाना हो, पर नाम तो है धर्मका । जिसके नाम पर इतना लट्टू होते हैं उसका यदि स्वरूप समझमें आ जाय तब तो फिर कहना ही क्या है ?

प्रभु वीरका उपकार— हे प्रभु ! तेरा जैसा विजयी निर्दोष गुणकी खान आनन्दनिधान केवल उधोतिपुञ्ज है, उसको छोड़कर मैं किस जगह अपना सिर भुकाऊँ ? मानो इस उत्सुकताके साथ सर्वप्रथम जिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया गया है । दूसरी बात यह है कि लोग सिद्धकी अपेक्षा अरहंतकी याद ज्यादा करते और अरहंतोंकी अपेक्षा उन्हींमें तीर्थकरकी याद ज्यादा करते और उनमें अंतिम तीर्थकरकी अधिक याद करते हैं तो ये प्रभु साक्षात् उपकारके जो कारण हुए हैं सो उनकी स्मृतिमें कृतज्ञता ही कारण है । यह तो देवका प्रकरण है ना । कदाचित् कोई गुस्को भी पहिले नमस्कार और भगवानको पीछे नमस्कार करे, किसी की ऐसी कृतज्ञता बन जाय तो किसी की बन भी जाती है ।

गुरुका गौरव— भैया ! एक कथानकमें सुना होगा कि एक सेठ ने किसी पशुको मरण समय एमोकार मंत्र दिया । सो वह पशु मरकर देव बन गया । जब अवधिज्ञान से उसने जाना कि अमुक श्रावकने मेरी गति सुधारी तो मध्यलोकमें आया । एक जगह मुनिराज भी बैठे थे और वह सेठ भी बैठा था तो उसने पहिले सेठको नमस्कार किया, परचात् मुनिको नमस्कार किया । तो कृतज्ञताकी लहर जिसमें जैसी दौड़ जाय उस तरहसे प्रवृत्ति होती है । आप कहें कि यह तो ठीक नहीं, हां मुनिकी भक्ति रखने वाला हो सेठ और सेठको अग्र पहिले ही नमस्कार करले तो वह मुनिको ही तो नमस्कार हुआ । जैसे मानों कोई जिनभक्त ब्रह्मचारी शुक्लक या मुनि इनका आप यथायोग्य विनय करते हैं तो किस नातेसे करते हैं ? मंदिरमें भी बैठे हो शुक्लक या मुनि तो आप वहां पर भी पहिले उनको

नमस्कार कर डालते हैं ना, तो चूँकि ये जिनेन्द्रके भक्त हैं सो भक्तके नाते से ही विनय किया गया है ना। तो वह जिनेन्द्रका विनय समझिए। न जिनेन्द्रके भक्त हों तो कोई पूछले तो जानें।

वीरभक्ति, वीरभक्त व वीरशक्तिकी विशेषता— गुरुके नमस्कार में भी प्रभुभक्ति ही तो अन्तरमें बसी है ना, यह कृतज्ञताकी कुछ पद्धति होती है पर आशय विपरीत हो जाय तो उसमें दोष आता है। चूँकि यह आप्तका प्रकरण है इसलिए वीर जिनेन्द्रको नमस्कार किया है और साथ ही यह भी ध्वनित है कि वीरको ही क्यों नमस्कार किया तो उनकी वाणी दिव्यध्वनिकी परम्परासे आज तीर्थ चल रहा है। जिस परम्परासे आए हुए तत्त्वको हम शब्दोंमें बांध रहे हैं यह भी साथ ध्वनित है। जिस प्रकार स्वच्छ वीर जिनेन्द्र हुए उस ही प्रकारका स्वच्छ हमें भी होना है। उस वर्गरहित मोक्षकी प्राप्तिके लिए हम यह उद्यम कर रहे हैं। यह तो शुद्ध लक्ष्य हो जानेकी विशेषता है।

शास्त्ररचनाका प्रयोजन निज परम विशुद्धि— आचार्य देव कुल्ल नहीं चाहते हैं, न यश, न नाम न अन्य कुछ, किन्तु मेरा उपयोग रागद्वेषकी वृत्तिसे दूर रहे इसके लिए यह उपक्रम है शास्त्र रचना और फिर इसको बढ़कर अन्य लोगोंका उपयोग भला होना, यह तो भुसा की तरह एक गैण प्रयोजन और फल है। हम लोग उनके मुख्य प्रयोजनको चाहे न आंक सके और उपकार हम लोगोंका होता है आधिक, इसलिए यही गुण गाये कि कुन्दकुन्दाचार्य प्रभुने हम जैसे पामरोंके उपकारके लिए अध्यात्मग्रन्थों की रचना की है। हम यह बोलते हैं पर कुन्दकुन्दाचार्य प्रभु ने हम लोगों का ख्याल रखकर कि भिन्डके फलाने-फलाने लोग होंगे या इटावामें कोई नियमसार पढ़ेंगे, उनका उपकार होगा इसलिए बनाया या अन्य किसीके ख्यालसे शास्त्ररचना की ऐसा नहीं है, किन्तु अपने उपयोगको शुद्ध रखने के लिए और मोक्षमार्गसे उपकार होता है। सो उस मोक्षमार्गकी मूर्ति खोची है।

भक्तिपद्धति— भैया ! जो जिस पर लट्टू हो जाता है उसके मनमें वही समाया रहता है। सबको भूलकर उसकी शकल बनाए, उसके गीत गाए, उसके भजन बनाए, गद्गद् स्वरोंमें एकांतमें बिनती करे—ये सब बातें होने लगती हैं। किसीको दिखानका प्रयोजन नहीं है। यहां जिनकी पूजा कर रहे हैं, जल्दी जाना है अथवा नहीं जाना है, आदत है, जल्दी जल्दी बांध रहे हैं और कोई चार आदमी बड़े दर्शन करने आ जायें तो उनकी देख करके फिर रागसे गायेंगे। क्योंकि उद्देश्य ही पुष्ट नहीं है कि

इतने समय सबको भूलकर मैं क्या हूँ, किस परिवारका हूँ, मेरेमें कोई भार है क्या, सर्व बातोंको भूलकर अपने को निर्भर अनुभवकर चिदानन्द स्वरूपको निरखकर उस ही ज्ञानपुञ्जकी ओर हमें भुवना चाहिए था, यह उद्देश्य तो न रहा, इसलिए मन यत्र तत्र भटकता है। बड़ी बातें करते हैं और करते कुछ नहीं हैं।

परमपूजाके लिये कमर कस कर भक्तकी तैयारी— पूजाकी प्रस्तावनामें पढ़ते हैं ना—अर्हन् पुराणपुरुषोत्तमपावनानि वस्तूनि नूनमास्तुलान्ययमेक एव। अस्मिन् ज्वलाद्द्विमलवेवलबोधवह्नौ पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि। बड़ी लयसे आप पढ़ते हैं ना, भगवानको रिझानेके लिए कि हे अरहंत ! हे पुराण ! हे पुरुषोत्तम ये जो नाना पवित्र चीजें रखी हैं ना, जल चंदन, अक्षत आदि द्रव्य और इतने बड़े हम और धोती दुपट्टा और यह वेदी और यह विराजे भगवान् कितनी चीजें हैं वहां उस जगह ? कहते हैं कि नाथ मुझे अन्य कुछ दिखता ही नहीं है। हमें ये अक्षत, पुष्प कुछ नहीं दिखते। हमें तो केवल एक ही चीज दिख रही है, अयं एक एव। यह जाज्वल्यमान् तेजस्वी ज्ञानस्वरूपी ही हमें दिख रहा है, सो इस जाज्वल्यमान् निर्मल केवल ज्ञानरूपी अग्निमें समस्त पुण्यको एक मन होकर मैं स्वाहा करता हूँ। जो आप रोज-रोज पूजनमें कहते हो, उसका ही यह अर्थ किया जा रहा है। चाहे करते कुछ हो हमें पता नहीं है।

पूजासे प्रथम महान् संकल्प— आप रोज पूजा करने से पहिले यह कहते हो कि इस जाज्वल्यमान् ज्ञानाग्निमें सारे पुण्यको मैं स्वाहा करता हूँ। कितना निर्मल चित्त होकर यह भक्त पेश होता है प्रभुके दरबार में। केवल ज्ञानपुञ्ज ही उसे दिख रहा है और जो चार पांच लड्के हैं उनकी रंच खबर नहीं है क्योंकि सर्वत्र सब द्रव्योंको जानता है, उनका भार उन पर है, मेरेसे कुछ उनका बनता ही नहीं है। यहां तो केवल आत्मस्वरूपके दर्शन को वह आया है। इस जाज्वल्यमान् ज्ञानमें सारी पुण्य चीजोंको मैं जलाता हूँ।

पुण्य वैभवका स्वाहा— कितनी पुण्य चीजें हैं अभी उसके पास ? १। आनेका कुछ द्रव्य है। पतली चिटक धर लिया, बादाम न मिलता हो तो कमलगट्टा हो गए, चिरमट्टी भी आ गयी हैं। सारी चीजें मिलकर सबा नौ आनेकी चीजें धरी हैं और कहते हैं सारा पुण्य स्वाहा कर रहा हूँ, यह उसपर नखरे बगरा रहे हैं। प्रभुकी ओरसे पूछ दें, कोई ऐसा तो भक्त कहता है कि नहीं महाराज मैं इतने ही द्रव्यको स्वाहा नहीं करता हूँ, किन्तु इसके अतिरिक्त जितना भी वैभव है लाखोंका, हजारोंका, करोड़ोंका उस सारे

वैभवको मैं न्यौछावर करता हूँ। हेय चीजें हैं ये सब। उनको मैं क्या दिला में रखूँ ? उन सबको मैं स्वाहा करता हूँ।

द्रव्यपुण्यका स्वाहा— तब फिर मानो भगवान् बोले कि ऐ भक्त तुम चतुराई पर चतुराई बगरा रहे हो, तुम जानते हो कि धन वैभव तो मेरा है नहीं, सो जरा कहकर तो मियामिट्टू बनलें, भगवान् के प्यारे बनलें, मैं खववैभवको त्यागता हूँ, क्योंकि यह सब तो मरने पर भी न जायेगा, ये सारी चीजें मेरेसे भिन्न हैं तो इन चीजों को स्वाहा कहकर भगवान् के मियामिट्टू बन लें, क्या यह बात है भक्त !

भावपुण्यका स्वाहा— भक्त कहता है कि नहीं महाराज इतनी ही बात नहीं है। जिस पुण्यकर्मके उदयसे यह वैभव मिला हो उस पुण्यकर्म को भी मैं स्वाहा करता हूँ, मुझे कुछ न चाहिए, ये सब हेय हैं। प्रभुका वाककील बोला—अच्छा, जानते हो कि ये भी पौद्गलिक हैं, मेरे आत्मा से अत्यन्त भिन्न हैं, सो कह लो प्रभुसे। भक्त कहता है कि महाराज यह बात नहीं है। वे द्रव्य पुण्यकर्म जिसके परिणामके कारण बद्ध हुए ऐसे शुभोपयोगरूप भावोंको भी मैं स्वाहा करता हूँ। मायने क्या करता हूँ कि आपकी जो वर्तमानमें भक्ति कर रहा हूँ इस परिणामको भी मैं स्वाहा कर रहा हूँ। अब क्या रह गया ? जिस ज्ञानपुञ्जकी पूजा कर रहे हैं वह ज्ञानपुञ्ज ही मेरे ध्यानमें रह गया, ऐसी तैयारीके साथ बड़ी भक्तिसे आप भगवान् से रोज कह जाते हैं। तो अब सोचना चाहिए कि भगवान् के आगे हम सरासर फूट तो न बोलें। न इतना न कर सकें तो लक्ष्य तो रहे कि हमने ऐसा कहा है और हमारे करने को इतना काम पड़ा है।

महान् कार्यके लिये महान् यत्न— यहाँ कुन्दकुन्दाचार्य देव एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं ना, तो उसके लिए पहिले अपने मनको बहुत निर्मल स्वच्छ हृद्द बना लें। कौनसा काम करने जा रहे हैं ? जो बड़े-बड़े गणधर देवोंने जिस मर्मको शब्दोंसे रचा है, उन गणधरोंकी साक्षात् वचनावली भी जिस प्रभुताकी बतानेमें समर्थ न हो सका तो हम लोग फिर क्या रहे ? भैया ! यद्यपि सम्भव है कि इसमें प्रवचनसार, समयसार नियमसार इनमें कोई कोई दोहा कोई-कोई गाथा शायद वह ही हो जो गणधरदेव अपने मुखसे बोल गए हों। हो सकता है मगर पूरी उनकी वचनावली परम्परामें आज नहीं रही। उस मर्मको व्यक्त करते हैं। तो जिस मर्मको बड़े-बड़े गणधर देव भी अपनी वाणीसे पूरा-पूरा व्यक्त न कर सके हों, जिससे सर्वजन समझ सकें तो हम मंदपुरुष उनके समक्ष क्या हैं ? इतने बड़े कामको करनेकी तैयारीमें कुन्दकुन्दाचार्य देव

पहिले प्रभुस्मरण करके अपने मनको गम्भीर बना रहे हैं ।

पुनः पुनः वीरश्रुति— यह नियमसार ग्रन्थ है जिसे प्रत्यक्ष ज्ञान धारियों ने बनाया है, श्रुत केवलियोंने विरूपा है। समस्त भव्य जीवोंके हितके करने वाले ऐसे नियमसार नामक परमागमको कहेंगे। इस प्रकार कुन्दकुन्दाचार्यदेव एक विशिष्ट देवताको नमस्कार करनेके बाद अब इस ग्रन्थको कहेंगे। अभी ग्रन्थ बनानेके प्रारम्भिक प्रक्रममें फिर भी प्रभुकी याद बारबार आती ही है। ये प्रभुबाल ब्रह्मचारी थे। भजनोंमें लोग गाया करते हैं, 'छोड़ दिया सकल परिवार चला वीरा, माता समभावति है।' अरे मेरे वीर क्यों जाते हो, माता रुदन मचाती है, पिता भी एक कोनेमें बैठा शोक कर रहा है। वह मानता ही नहीं है। बाल्यकालमें ही ब्रह्मचर्य जैसा दुर्धरव्रत धारण करके निष्परिग्रह रहकर यह प्रभु मौन रहे, जब तक केवलज्ञान नहीं हुआ। बड़े आदमी या तो सच बोलेंगे नहीं तो मौन रहेंगे। मुनि अवस्थासे ये प्रभु मौन रहे हैं।

वीर प्रभुकी त्रिलोक पूज्यता— वीर प्रभुको केवलज्ञान हुआ, तीनों लोकके जीवोंने उन्हें पूजा, मनुष्योंने भी, देवोंने भी, अधोलोकके जीवोंने भी। तीन लोकके सारे जीव उनके चरणोंमें आए। सब तो नहीं आ सकते पर ऊर्ध्वलोकके इन्द्र, मध्यलोकके इन्द्र और अधोलोकके इन्द्र आ गये तो समझो सभी आ गए। मेरुकी जड़से नीचे अधोलोक माना जाता है। भवनवासी और व्यंतरके आवास मेरुसे नीचे जाकर हैं। उनमें रहने वाले वे अधोवासी कहलाते हैं। तो जब सभी लोकोंके इन्द्र उनके चरणोंमें आ गए तो सभी आ गए समझिए। यह तो बात आजकल काश्मीरके विषय में है कि काश्मीरको चुनने वाली उनकी जो समिति है उसने एक मतसे भारतमें मिलना स्वीकार कर लिया। तो इसका अर्थ है कि समस्त काश्मीर ने स्वीकार कर लिया। जब ऊर्ध्वलोकके इन्द्र चरणोंमें आए तो सबही ने नमस्कार किया समझिये। सारे कहां आ सकते हैं? किसी-किसीके तो भाव ही नहीं आता होगा। मगर जब इन्द्र आ गए तो सबका आना समझ लीजिए।

वीतरागताका प्रताप— इस तरह तीन लोकके सकल जीवोंके द्वारा यह प्रभु पूज्य हैं। इनका एकछत्र तीन लोकमें राज्य फैला है। क्या फैला है, ज्ञानसाम्राज्य। वे राज्यको ठुकरा कर आये थे। अब तीन लोकका राज्य मिला है। अब इस संसारमें नहीं भटकते हैं, अब जन्म नहीं लेते हैं, अनन्त कालके लिए निर्दोष जन्ममरणरहित अनन्त आनन्दमय हो गए। वे वीर नाथ जिसकी भी दृष्टिमें आते हैं तो इसी प्रकार आया करते हैं कि संभव-

शरण है, उस समवशरणके बीचमें गंधकुटी है, वहां जिनका निवास है। चारों ओरसे देवी देवता देवांगनाएँ गायन करते हुए, बड़े-बड़े बाजा बजाते हुए जहां नाच कर रहे हों और तीन लोकके समस्त जीव जिनके चरणोंमें झुक रहे हों, यह सब किसका प्रताप है? एक वीतरागताका प्रताप है। वीतरागताके कारण यह सारा सकल समाज नृत्य, गान करते हुए उनके चरणोंमें पहुंच रहा है। ऐसे शरीरसे तो वे समवशरणमें विराजमान हैं और अन्तरसे वे केवलज्ञान लक्ष्मी सहित विराजमान हैं। ऐसे वीरदेवको प्रणाम करके अब कुन्दकुन्दाचार्यदेव द्वितीया गाथाका अवतरण करते हैं।

मगं मगफलं ति य दुषिहं जिणसासणे समक्खदं ।

मगं मोक्ख उवायो तस्स फलं होइ णिच्चाणं ॥२॥

जिनशासनके दो उपदेश— मार्ग और मार्गफल, मोक्षका मार्ग और मोक्षके मार्गका फल, छुटकारेका उपाय और छुटकारेके उपायका फल, संकटोंसे दूर होनेका उपाय और संकटोंके दूर दूर होनेके उपायका फल, शांति पानेका उपाय और शांति पाने के उपायका फल। जिन शासनके उपदेशमें दो बातों पर विशेष जोर दिया गया है, ऐसा इस ग्रन्थमें जो कुछ वर्णन होगा, जिस किसी भी पद्धतिसे वर्णन होगा, मार्ग-मार्गफलका वर्णन चलेगा।

मार्ग और मार्गफल— इस गाथामें मोक्षमार्ग और मोक्षमार्गके फलका स्वरूप वर्णित किया गया है। मोक्षमार्ग क्या है? सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र। तीनोंका एक स्वरूप होना, सो मोक्षमार्ग है। मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शनसे प्रारम्भ होता है यह भी कह सकते हैं और सम्यक्चारित्रसे प्रारम्भ होता है यह भी कह सकते हैं। जहां परद्रव्योंसे भिन्न आत्मतत्त्वका अवलोकन हुआ, कर्मोंसे छूटनेका उपाय मिला वहां मोक्षमार्गका प्रारम्भ सम्यग्दर्शनसे हुआ समझिये और एक दृष्टिसे सम्यग्दर्शन ने वस्तुस्वरूप दिखाया और यह मार्ग है शांतिका यह दिखाया, पर चलते चले तो मार्गका चलना कहलाता है। सो सम्यक्चारित्रसे मोक्षमार्ग चला। जैसे सूर्यका काम है मार्ग दिखा देना। व्यवहार भाषामें कह रहे हैं—उजैला हो गया, मार्ग दिख गया, पर चलाना काम सूर्यका नहीं है। इस प्रकार सम्यग्दर्शनने मोक्षमार्ग दिखाया पर मोक्षमार्ग पर चलना सम्यक्चारित्रसे हुआ।

त्रिरत्नोंका प्रादुर्भाव— यह सम्यक्चारित्र शुरू हो जाता है सम्यग्दर्शनके होते ही, पर उसकी विशेषतासे बढ़-बढ़कर सम्यक्चारित्र बढ़ता रहता है। सम्यग्दर्शनके साथ स्वरूपाचरण चारित्र होता है। स्वरूपाचरण

ही परमार्थ चारित्र्य है और आगे भी ऊँचेके गुणस्थानोंमें स्वरूपाचरणकी वृद्धिकी ही महिमामें स्वरूपाचरण की कितनी वृद्धि हुई, उसकी माप है अणुव्रत महाव्रत आदि । तो सम्यग्दर्शनके होते ही सम्यक्ज्ञान हो जाता है और सम्यक्चारित्र्य हो जाता है । परन्तु जैसे ज्ञानकी पूर्णता बादमें हुई है इसी प्रकार सम्यक्चारित्र्यकी परिपूर्णता बादमें हुई है, पर किसी न किसी रूपमें सम्यग्दर्शनके होते ही सम्यक्चारित्र्य हो जाता है और साक्षात् मोक्षमार्ग जिसके बाद मोक्षकी प्राप्ति होती है । वह है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका एक अभेदरूप हो जाना । इस गाथामें मार्ग और मार्गफल बताया जा रहा है । मार्ग तो है शुद्धरत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, आत्मतत्त्वका श्रद्धान ज्ञान और आचरणरूप निश्चयरत्नत्रय और मार्गका फल है मोक्षकी प्राप्ति, अपुनर्भव अर्थात् फिरसे संसार न होना ।

प्रमादकी अकर्तव्यता— भैया ! निर्वाण हुआ तो निर्वाण ही है, फिर संसार नहीं होता । जब तक निर्वाणकी प्राप्ति नहीं होती अर्थात् क्षपक श्रेणी पर चढ़ना नहीं होता तब तक शंका ही शंका है । जब तक क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता तब तक सम्यक्त्वकी भी शंका है । हो गया और फिर भिट जाय ऐसी स्थिति हो जाती है और जो कुछ थोड़ा बहुत ऊँचा भव पा लिया, ऊँचा कुल आदि प्राप्त कर लिया, इसका तो कुछ भरोसा भी नहीं है । आज उच्च कुल पाया कलके दिन क्या पायें ?

कृतघ्नताका एक दृष्टान्त और कुफल— एक साधु महाराज बैठे थे तो उनके सामने एक चूहा निकला । वह चूहा साधु महाराजके निकटमें ही रहता था । सो चूहेके आने पर एक बिलाव भी आ गया । बिलावको देख कर चूहा डर गया, सो साधु महाराजने दयाभाव करके चूहे को आशीर्वाद दिया कि बिडालो भव, तू बिलाव हो जा । वह बिलाव हो गया । अब बिलावसे बिलाव क्या डरे ? अब आया कुत्ता सो उस बिलावको आशीर्वाद दिया कि श्वानभव । तू कुत्ता हो जा । सो वह कुत्ता हो गया । फिर निकला व्याघ्र, सो साधु ने उस कुत्तेको आशीर्वाद दिया कि व्याघ्रो भव । व्याघ्र हो गया, तेंदुवा हो गया । उस पर भूपटा सिंह तो आशीर्वाद दिया कि सिंहो भव । अब सिंह सिंहसे क्यों डरे ? उसे लगे भूख । सो सोचा कि अब क्या खायें, यही महाराज तो अच्छे पवित्र बैठे हैं, इनसे बढ़कर अच्छा मांस और कहां मिलेगा ? सो सिंहके मनमें आया कि इन साधु महाराजको खा जाऊँ । ज्यों ही भूपटा भट साधु ने कहा कि पुनः मूषको भव, तू फिर चूहा बन जा । वह फिर चूहा बन गया ।

आत्मदेवकी अकृतज्ञताका फल— इसी तरह यह जीव कुछ आत्मदेव

के प्रसादको पाकर निगोदसे निकला, विकलत्रय हुआ, पंचइन्द्रिय हुआ, मनुष्य हुआ, पुण्यवान् हुआ, समर्थ हुआ। अब इतना समर्थ होकर यह मनुष्य इस ही आत्मदेव पर हमला कर रहा है। खोटा परिणाम किया, विषय-कषाय किया, कुबुद्धि जगी, रागद्वेष मोह किया, किसी को अपना माना, किसीको पराया मान लिया, यह सब इस आत्मदेव पर हमला किया जा रहा है। सो आत्मदेवको जरा ही तो आशीर्वाद देना है कि पुनर्निगोदो भव। फिर निगोद हो जावो। इतने ऊँचे उठकर फिर निगोदमें चला गया, तो अब क्या हाल होगा? किसी चीजका भरोसा नहीं है। पूरा भरोसा तो अपने आत्मदेवकी एक बार झलक हो जाय उसका भी नहीं है। बार-बार उसकी भावना हो, उसके ही भीतर रुचि हो, उसका ही पुरुषार्थ हो, तब जाकर सिद्धि होती है।

मार्गफल निर्वाण— मार्गका फल है अपुनर्भव। फिरसे भव न मिलना, इसका नाम है अपुनर्भव। इस अपुनर्भवका ही नाम निर्वाण है, अर्थात् वह सब ऊधम शांत हो जाना जो संसारमें तरंग उठाकर हो जाया करते थे। इसीका नाम अपुनर्भव है। धर्म, अर्थ, काम ये तीन बर्ग जहां अपगत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं उसका नाम है अपवर्ग। इस ही मार्ग फलका नाम है सुक्ति, छूट जाना। संसारके संकट और संकट नामकरण में जो द्रव्यकर्म और भावकर्म हैं उनका छूट जाना, इसका नाम है सुक्ति अथवा मोक्ष। तो यह है मार्गका फल। ये दो प्रकारके मार्ग और मार्गफल हैं। ये परमवीतराग सर्वज्ञदेवके शासनमें चार ज्ञानोंके ध्यानी आचार्योंने गणधरोंसे बनाया है।

मार्गका अर्थ— मार्ग किसे कहते हैं? जो खोजा जाय वह मार्ग है या जिस पर गमन करके इष्ट स्थान पर पहुंचा जाय उसे मार्ग कहते हैं। इस मार्गका नाम आजकल क्या रखा? सड़क। शब्द अशुद्ध है। सड़क नहीं बल्कि सरक। अब देखो कि सरकता तो आदमी है और उस रास्तेका नाम सरक रखा। जहां आदमी सरकते हैं उसका नाम सरक है। तो जिसके आधारसे पथिक सरकते हैं उसका नाम है सरक। जिसके आधारसे यह संसारी जीव इस बनसे सरककर ऊपर पहुंचे उसका नाम है सरक। तो यह है मार्ग, पथ अपने आपके विशुद्ध ज्ञानदर्शहस्वरूपी आत्मतत्त्वका यथार्थ श्रद्धान् होना और ऐसा ही उपयोग बनाए रहना, उसमें ही रत रहना यही अभेदरत्नत्रय है। सत्य और इसका फल है मोक्ष। एक शब्दमें मोक्षका उपाय कहें तो कह लीजिए परम निरपेक्ष होकर एक निज सहज स्वभावका उपयोगमें तन्मय होना यही है मोक्षमार्ग।

शान्तिका ज्ञानसे मेल— निजपरमात्मतत्त्वका सम्यक, श्रद्धान्, परि-
ज्ञान और उसका ही अनुष्ठान होना ही निश्चय रत्नत्रयरूप मोक्षका उपाय
और उस शुद्ध रत्नत्रयका फल स्वात्माकी प्राप्ति होना है। बात बड़ी सीधी
है, मगर लग रही है बड़ी कठिन। इतना सीधा काम कुटुम्बका पालन नहीं
है। आप दूकानको चलाते नहीं हैं, वहां अपना अधिकार ही कुछ नहीं है।
कोई आए या न आए। परिवारके लोग आज्ञा मानें, न मानें, फिर ये समग्र
परवस्तु है। उन परवस्तुओंका कुछ भी परिणामन हो, कदाचित् तुम्हारे
मनके द्वारा भी परिणामन हो तो भी शान्ति तो मिल ही नहीं सकती,
क्योंकि शान्तिका मेल परपदार्थकी दृष्टिके साथ नहीं है, किन्तु इस ज्ञान
तो ज्ञानस्वरूप ही बसे तो उस ज्ञानवृत्तिके साथ ही शान्तिका मेल हो सकता
है।

विशुद्ध ज्ञानार्जनका पुरुषार्थ— भैया ! अब क्या काम करना है ?
ऐसा काम करो कि जिस पर सारी दुनिया पागल कहेगी। लोगोंकी समझ
में चाहे आए नहीं। लो घर छोड़ दिया, चल दिया, इतना कमाया,
मकान बनवाया, दूकान बनवाई और अब आरामके दिन थे, सो कैसे
कुबुद्धि हुई कि सब कुछ त्याग दिया। अब आए थे आरामके दिन और
आरामके दिनोंमें लात मारकर घर छोड़कर चल दिया—ऐसी भावनाएं
मोही पुरुषोंकी हैं, पर इस एक ज्ञानीको तो सारा जगत् पागल दिख रहा
है और सारे जगत्को यह ज्ञानी पागल दिख रहा है। अब निर्णय यह हुआ
कि जिसमें अपना नपयोग शान्तिमें फिट बैठे वही अपना काम करना है
और उसका उपाय है ज्ञानार्जन। स्वाध्याय करके, विद्याध्ययन करके तत्त्व-
वर्चा करके, ध्यान करके एक इस ज्ञानका अर्जन करना, शुद्धज्ञानवृत्ति को
जगाना ये एक काम है, इसे करते जाइए।

पुरुषार्थका आवश्यक कर्तव्य— भैया ! ऐसा लगेगा बहुत दिन तक
कि सफलता नहीं मिली, पर सफलता मिलनेका बुद्धिपूर्वक उपाय तो यही
है। अब और क्या करें, यह बतलाओ ? यहां कुछ ऐसा नहीं है कि इस
रोजगारमें फायदा नहीं दिखता है तो दूसरा रोजगार करो। अब सर्राफा
में दम नहीं रहा तो बजाजा करें। अब बजाजामें दम नहीं रहा तो आदत
का काम करें। सो अदल बदलकर रोजगार करें। जिस आत्मामें मोक्ष-
मार्गका काम नहीं है कि अरे ज्ञानार्जनसे कुछ लाभ नहीं होता है, अब
मनभर लड़कोंसे मिल लें, अब खूब धन सम्पत्तिके ही बीचमें बैठ लें।
उसका तो एक ही फैसला है, उसको तो दूसरा कोई रोजगार है ही नहीं।
चाहे सफलता मिलती हो अथवा न मिलनी हो, कार्य करते जाओ, यह

फिट बैठेगा ।

उद्यम— एक बाबू साहबने एक कुम्हारको पायजामा दिया, किन्तु पहिना हुआ होने पर भी नयासा था । कुम्हार उस पायजामेको पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ । सो कुम्हार उस पायजामेका उपयोग करने लगा तो सिर पर बांधे तो फिट न बैठे, क्योंकि उसकी सियन ही ऐसी थी । कोई सीघासा कपड़ा हो तो सिरमें बांधने पर बंध जाए । सिरमें न फिट बैठा तो कमर में बांधे, वहां भी फिट न बैठे, क्योंकि ऊपरका जो पोर्सन था वह ढीला-ढाला रहता है । वहां ठीक न बैठा तो हाथोंमें डाले, जब हाथमें भी फिट न बैठा तो उसने एक पायचेमें एक पैर डाल दिया और दूसरे पायचेमें दूसरा पैर डाल दिया तो फिट बैठ गया । अब वह कहता है कि ओह, अब फिट हो गया । यह पायजामा यहीं पहिननेकी चीज है । जानते हो पायजामा किसे कहते हैं ? जिसमें पांव जम जाए, वह पायजामा है । जिसमें पांव लात जम जाए, उसका नाम है पायजामा । सो इसी तरहसे ज्ञानार्जन के काममें बैठे रहें । अगर आज फिट न होंगे तो कभी तो फिट हो ही जायेंगे ।

प्रतिभाशून्यतामें विडम्बना— अपने आपमें फिट न होनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसके लिये बड़े मित्रकी आवश्यकता है । भाई कुछ भी चीज नहीं है, पर जो धर्ममें लगाये, वह मित्र सब कुछ है । मित्र योग्य हो तो ठीक है । ऐसी दशा न हो जाये कि एक गुरु महाराज थे । उन्होंने एक शिष्यको पढ़ाया । शिष्य पढ़नेमें चतुर था, मगर प्रतिभा कुछ न थी, विद्या रटंत थी । शिष्य पर गुरुजी प्रसन्न हो गये तो उसी शिष्यको अपनी ही लड़की ब्याह दी । अब वह शिष्य दामाद बन गया । वह लड़की बहुत ही रूपवती थी, सो शिष्य एक दिन सोचता है कि “भार्या रूपवती शत्रुः” स्त्री रूपवान् हो तो वह शत्रु होती है । सो उसने दोष मिटानेके लिए चक्कू से उसकी नाक काट डाली । अब शत्रु न रहेगी, मित्र बन जायेगी । उसकी बेचकूपी पर गुरुजीको नाराजगी हो गयी और दामादको घरसे निकाल दिया ।

यह शिष्य जब घरसे चला तो साथमें कलेवा ले लिया । कलेवा जानते हो किसे कहते हैं ? क मायने शरीर और वह जिसे लेवे, उसे कलेवा कहते हैं अर्थात् जिसे खाया जाये । अब सोचा कि किस दिशामें जाऊं ? उसे जल्दी ही स्मरण हो आया कि “महाजनो येन गतः स पन्थाः ।” जिस रास्तेसे बड़े बड़े आदमी जा रहे हों, वही रास्ता चलना चाहिए । सो किसीके घरका कोई आदमी मर गया था, उसके संगमें बहुतसे आदमी

मरघट जा रहे थे। सो वह उन्हींके पीछे पीछे चला गया। सो वे तो वहां से फूँक फाँककर चले आए, अब उसने सोचा कि साथमें बलेबा है उसे खा लें, पर ख्याल आया कि अकेले कलेबा न खाना चाहिए, बंधुवोंके संगमें खाना चाहिए। 'बंधुभिः सह भोक्तव्यम्।' बंधु कौन, 'राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति स बान्धवः।' सोचा कि कचेहरा में और मरघटमें जो साथ दे वही बंधु होता है। सो मरघटमें एक गधा बैठा था। कहा कि यही मेरा भाई है, सो कलेबा खोत्कर बठ गया, गधेको भी पासमें बिठा लिया। सो गधा भी खाता जाय और वह भी खाता जाय। सोचा कि ग्रन्थमें लिखा है कि बंधु धर्मेण योजयेत्। बंधुको धर्मके साथ जोड़ देना चाहिए। यह हमारा बंधु है गधा, सो इसे धर्मके साथ जोड़े। अब धर्म क्या है? हूँदा तो मिल गया श्लोक—'धर्मस्य त्वरिता गतिः।' धर्मकी गति बड़ी तेज होती है। सो वहां बड़ी तेजीसे ऊँट जा रहा था, जिसकी तेजगति हो, जल्दी-जल्दी जाय उसका नाम धर्म है। मिल गया धर्म। अब बंधुको उस धर्मसे जोड़ना चाहिए। से रस्सी से गधेको ऊँट के गले में जोड़ दिया। धर्ममें लगा दिया बंधु को। सो ऐसी अटपट विद्या सीख लेने से ज्ञान आत्मामें फिट तो नहीं बैठता।

ज्ञानकलाका जागरण— भैया ! कितना ही अध्ययन करलें सबकी प्रायोजनिक जाननकी पद्धति भूतार्थ पद्धति है। सब पर्यायोंको जानें, किन्तु इस पर्यायका स्रोत क्या है? इसे भी जानें। वह स्रोत है शक्ति। कोई शक्ति है तो उस शक्तिका मूल क्या है, जहां ये सब अभेदरूप एक हो जाते हैं। वह है द्रव्य और वह द्रव्य क्या है, वस्तु क्या है? स्वभाव और स्वभावका मतलब क्या है? स्वस्य भवनं, स्व का होना। बस इस प्रकार सहज स्वभाव पर पहुंच बने वही है ज्ञान, वही है धर्म और उसमें अपने को जोड़ना चाहिए, फिट बैठालना चाहिए। बस यही हुआ शुद्ध रत्नत्रय और शुद्ध रत्नत्रयका फल है निज आत्माका आलम्बन अर्थात् जैसा सहज ज्ञायकस्वरूप यह भगवान् आत्मा है वैसा स्वरूप उपयोग में और परिणामनमें यथार्थ प्रकट हो गया है, यही है मार्गका फल। इस प्रकार इस गाथामें मार्ग और मार्गके फलका निरूपण किया जा रहा है।

जीवोंका खोजयत्न— जगतके जीव कोई स्त्रीके प्रेमजन्य सुखकी तलाशमें डोलते हैं तो कोई धनके अर्जन और रक्षणमें अपनी बुद्धिको भ्रमाते हैं, तो कोई जिनेन्द्रदेवके प्रणीत मार्गको पाकर अपने आत्मामें रत होनेका यत्न करते हैं। जो आत्मरतिका यत्न करते हैं वे ही पंडित हैं। पंडित अर्थात् विवेक बुद्धिको जो इत हों, अर्थात् प्राप्त हों उन्हें पंडित

कहते हैं। जगतमें खूब छानकर देख लो—जैसे कि कहते हैं संसारभावना में कि “दाम बिना निर्धन दुःखी तृष्णावश धनवान, कहां न सुख संसारमें सब जग देख्यो छान ॥”

जगतकी छान—जैसे कहीं सूई अंधेरेमें गिर जाय तो खूब छान-छान कर देख लो रत्ती-रत्ती जगह को टटोलकर देख लो पर पता नहीं चलता कि सूई कहां गिरी है? इसी तरह संसारमें खूब छान कर देख लो कहीं सुख नहीं दिखता। जो निर्धन है या जिसके पास दाम कम है वह निर्धनताका ख्याल कर करके दुःखी हो रहा है और जिसके पास धन है वह तृष्णा बढ़ाकर और अधिक धन हो, इस विकल्पसे दुःखी हो रहा है। जिसके पुत्र नहीं हुए वह पुत्रोंका ध्यान बनाकर दुःखी हो रहा है और जिसके पुत्र हैं उसे वही तमाम आपत्तियां नजर आ रही हैं। जिसकी इज्जत नहीं हुई वह इसी बातसे दुःखी रहता है कि मेरी इज्जत नहीं है। मेरी कोई पूछ नहीं है और जिसकी इज्जत है वह उस स्थितिके विकल्प बनाकर दुःखी हो रहा है।

विकल्पसे क्लेशजाल—एक सहपाठी ने चर्चा करते हुए कहा कि देखो हम बताएँ अपने त्यागी महाराजों को गुस्सा क्यों आ जाता है? कहा अच्छा बतावो। तो उन्होंने कहा कि कोई त्यागी महाराज अपने आपमें ऐसा निर्णय करलें कि मैं इतनी ऊंची पोजीशन का हूँ और मेरा इतना अधिक सम्मान हो ऐसा मेरा पद है, यह तो निर्णय कर चुके अपने दिलमें। अब दूसरेकी परिणति तो उनके आधीन है नहीं। कोई चाहेगा, कोई न चाहेगा; कोई कहना मानेगा, कोई न मानेगा, तब अपनेमें किए हुए निर्णयमें कुछ कमी रह जाय तो ये गुस्सा होते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ इसने विनयपूर्वक क्यों नहीं बैठाया, नमस्कार क्यों नहीं किया? अरे ये जगत्के जीव हैं, उनकी परिणति उनके आश्रित है।

शान्तिका कारण यथार्थ ज्ञान—भैया! शांति तब मिलेगी जब त्यागी महाराज यह जान जायें कि यह पर्याय तो मेरी आफत लगी है। मैं तो एक शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ। यहां तो सारा बखेड़ा लगा है। हमारा काम तो जंगलमें रहने का था, कंकरीली जमीन पर लोटनेका था। कोई शत्रु आए, दुःख दे तो वहां समता भाव करने का था। यहां तो बारी सुविधाएँ हैं। किस बात पर इतराना? यह बात नहीं समाती है जब और अपनी पोजीशन का ख्याल रहता है—मैं इतना ऊंचा उठा हुआ पुरुष हूँ, बस इसीसे दुःखी हो जाता है। तो कौन है इस संसारमें सुखी? सब जग छानकर देखलो अथवा जैसे छलनीसे राख छानकर उसमें से कुछ छान

लिया जाता है इसी तरह अपनी विवेकछलनीमें सारे जगत्को छान लो और देख लो कि इसमें कोई सुख है ? कहीं सुख न मिलेगा । केवल कल्पना करके विकल्प बनाकर समय काट रहे हैं ।

परसे अनुरागकी आशाकी व्यर्थता— भैया ! मनुष्यभवका इतना अमूल्य भव छोड़कर फिर कल्याण करनेका मौका कहां मिलेगा ? अनन्त कालके समयोंमें ४०-५० वर्षका यह समय कुछ गिनती भी रखता है क्या ? नरजीवनके ये क्षण यों ही विकल्पोंमें व्यतीत हुए जा रहे हैं । इस जिन्दगी का क्या भरोसा ? सारे जीवन परकी सेवा करें, पर विघटना होता है तो एक क्षणमें ही सब बिगड़ जाता है । कई वर्षों तक किये हुए प्रयत्नकी कृतज्ञता कोई नहीं मान सकता क्योंकि कषाय है ना । एक बात बिगड़ जाय तो चाहे कितना ही उपकार किया हो, दूसरेका वह सब भूल जाता है । और फिर यह कह देते हैं कि देखो हमें पिता ने कहां पाला, अजी पिताने हमें कहां पैदा किया ? उसने तो कषाय करके अपने विषयको पुष्ट किया और पाला पोषा भी हमें कहां ? विकल्प ही बनाया । यह तो उदयकी बात है । खैर कुछ हो ।

इस जगतमें कितना ही किसीके लिए श्रम करें, पर वस्तुस्वभाव तो न बदल देंगे प्रत्येक द्रव्य केवल वह खुदमें ही रहता है, परिणामता है । क्या उनका स्वरूप बदला जा सकेगा ? जीवकी खोज अनेक प्रकारके विषयोंमें सुखके लिए होती रहती है, पर पंडित चतुर वही है जो जिनवरके मार्गको प्राप्त करके अपने आत्मामें रत होता है । मुक्तिको प्राप्त वही होगा । अब नियमसार शब्दका अर्थ बताते हुए नियमसारमें क्या बात वर्णनमें आयेगी, इसका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराते हैं ।

श्लिष्यमेण हि जं कज्जं तंश्लियमं णाणदंसणचरित्तं ।

विवरीयपरिहरत्थं वयणं सारमिदि भणिमं ॥३॥

नियमसार— जो नियमसे करने योग्य है उसको नियम कहते हैं । वह नियम है ज्ञान दर्शन और चारित्र । नियम शब्दका अर्थ है विशेषरूप से जहां यम हो, फिट बैठता हो, स्थिरता हो उसको नियम कहते हैं । तो इस जीवका परम कल्याण रूप एक यही स्थिरता का पद है कि अपने उपयोग द्वारा उपयोग स्वरूपको ग्रहण करे और ऐसा ही ग्रहण करता हुआ निरन्तर बर्तें । यही नियम है । नियम और नियमसार, इनमें कुछ अन्तर तो नहीं है । उसीका ही नाम नियम है, उसीका नाम नियमसार है, पर थोड़ी और विशेष दृष्टि ऐसी डाल ली गयी कि उस नियममें सार तत्त्व होना है । परमार्थ होना, विपरीत नहीं होना, विषय-कषाय रूप नहीं होना

मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्या चारित्र्य रूप नहीं होना और व्यवहारधर्म क्रियाकी अटक करके उस ही में अपने कर्तव्यकी इतिश्री न जाना जाय, इन सब बातोंसे अपनेको सुरक्षित रखने के लिए सार शब्द दिया है।

नियमसार शब्दका वाच्य स्वभावरत्नत्रय— जैसे समय और समय-सार। वही समय है जो शुद्ध आत्मतत्त्व है, सहजस्वरूप है। अब समयको सामान्य कहकर कि सभी आत्मा हैं, उसमें सार जो ध्रुव तत्त्वभूत है सो समयसार है। नियम शब्दका अर्थ हुआ रत्नत्रय और उसमें सारभूत लगने से अर्थ हुआ स्वभावरत्नत्रय स्वरूप। जैसे सिद्धकी पूजामें पढ़ते हैं ना 'समयसार सुपुष्प सुभातया सहजकर्म करेण विशोधया। परमयोग बलेन वशीकृतं सहज सिद्धमहं परिपूजये ॥' मैं इस सहजसिद्धको पूजता हूँ। पूजता हूँ इतना ही नहीं, परिपूजता हूँ, अर्थात् सर्व ओरसे अभिसमन्तात्में इसे पूजता हूँ। पूजना, भजना, अर्चना, चर्चना—ये सब एकार्थक शब्द हैं। मैं इस सहजशुद्धको पूजता हूँ। वह सहजशुद्ध कौन है? तो इसमें दोनों ओर दृष्टि जाती है, सिद्धभगवान् अथवा शुद्ध ज्ञायकस्वरूप।

सहजसिद्ध स्वरूप— यह सिद्ध है, अर्थात् पूरा बना हुआ है और सहज सिद्ध है, सहज पूर्ण है, उस शुद्ध ज्ञायकस्वरूपको मैं पूजता हूँ। काहे के द्वारा? समयसाररूपी पुष्पमालाके द्वारा किसको पूजता हूँ? समयसारको। किसके द्वारा पूजूँ? समयसारके ही द्वारा। यह पुष्पमाला कैसे बनायी जाय? माला तो लोग हाथसे गूँथ लेते हैं। तो यह माला किस तरह गूँथें? तो सहज जो कर्म है, परिणामन है, सहज क्रिया है वही हुआ हाथ। उन हाथोंके द्वारा बनायी गयी है। ऐसे मालाके द्वारा परमयोग बलसे वशीभूत इस सहज सिद्धको मैं पूजता हूँ। ऐसा स्वभाव रत्नत्रय अथवा निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप इस नियमसारमें बताया गया है।

सहज परमपारिणामिक भाव— जो सहज परमपारिणामिक भाव में स्थिति है, स्वभाव अनन्त चतुष्टय स्वरूप है। ऐसा जो शुद्ध ज्ञान चेतना का परिणाम है उसे नियम कहते हैं। प्रत्येक पदार्थमें सहज पारिणामिक स्वरूप होता है। जिसमें स्वरूप तो वही शाश्वत रहता है और जो स्वरूप की रक्षा के लिए उसके अनुरूप उसमें निरन्तर परिणामन चलता रहता है उन सब परिणामनोंकी स्रोतभूत जो शक्ति है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। यह शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम परमपारिणामिक भाव स्वरूप है। सर्वसे विविक्त केवल स्वरूप मात्र भावको शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम कहते हैं। यह स्वभाव अनन्तचतुष्टय रूप है, प्रभु सिद्ध भगवान् व्यक्त अनन्त चतुष्टय रूप है और यह सहज सिद्ध आत्मतत्त्व स्वभाव अनन्तचतुष्टय-

रूप है।

स्वभाव और शुद्ध परिणामनके वर्णनकी एकता— भैया ! शुद्ध विकास और सहज स्वभाव इन दोनोंका स्वरूप एक होता है। जैसे निर्मल जल और जलका स्वभाव इन दोनोंका वर्णन तो करिये। जितना वर्णन आप निर्मल जलका कर सकेंगे उतना ही वर्णन आप जलका कर सकेंगे। सिद्ध भगवान्का जो व्यक्त स्वरूप है उसका जो कुछ वर्णन है वही वर्णन आत्माके सहज स्वभावका है। उनमें व्यक्त अनन्त चतुष्टय है तो सर्वजीवों का स्वभाव अनन्त चतुष्टय है। न हो तो प्रकट कैसे हो ? सिद्ध प्रभु कुछ नई चीज नहीं बने हैं किन्तु जो थे वही केवल रह गये हैं। इसीको सिद्ध भगवान् कहते हैं। केवल रह जाना इसीके मायने प्रभुता है।

प्रभुकी प्रभुता— देखो भैया ! इस प्रभुकी प्रभुता जैसे कोई बड़ा आदमी प्रसन्न हो तो बड़ी बात कर सकता है और अगर बिगड़ जाय तो बिगाड़ करनेमें भी सामर्थ्य चाहिए ना, सो बिगाड़ कर देता है। यह प्रभु जब प्रसन्न होता है निर्मल होता है तो सर्वज्ञताका व्यवहार करता है। यही प्रभु जब बिगड़ता है तो यह भी क्या कम प्रभुता है कि पेड़ बन जाय, डाली-डाली, पत्ते-पत्ते बन कर फैल जाय, पतले-पतले तनोंमें प्रदेश फैल जाय, हरा भरा बना रहे, यह इस बिगड़े हुए प्रभुकी प्रभुता है। जो कुछ संसारमें गुजर रहा है, कोई पशु है, कोई कीड़ा है, कोई पेड़ है, ये सब बिगड़े हुए इस प्रभुकी प्रभुता है। उसमें भी बड़ी सामर्थ्य चाहिए ना। कर दे कोई वैज्ञानिक ऐसी प्रभुताका काम तो हम भी समझें। बना तो दे कोई वैज्ञानिक इस चेतना को।

हितकारिणी प्रभुता— यह ज्ञायकस्वरूप भगवान् आत्मा इस संसार में अपनी प्रभुता विकाररूपमें बना रहा है पर इसमें क्लेश ही है, इसमें सार नहीं है। जब इसे ज्ञान होता है कि मैं अपनी प्रभुताका दुरुपयोग कर रहा हूँ, प्रभुता तो अपूर्व है, अपने स्वरूपचतुष्टयको पहिचाने तो फिर उन विषयकषायादिक परिणामोंसे उपेक्षा करके अपने स्वरूपका श्रद्धान् करना, ज्ञान करना और आचरण करना, इससे रत्नत्रयस्वरूप प्रकट होता है। यही है मार्ग, यही है नियम, यही है नियमसार। इस नियमके द्वारा नियमके आश्रयसे नियमसे जो कार्य किया जाय, वही प्रयोजन स्वरूप है, वही नियमसार है, अर्थात् ज्ञानदर्शन और चारित्र है।

निजपरमात्मत्वका परिज्ञान— ज्ञान किसे कहते हैं {—परद्रव्योंका आलम्बन न करके सर्व प्रकार अन्तर्मुख अपनी योगशक्ति लगाकर, अन्तर्मुख उपयोगी होकर जो निज-परमात्मत्व का परिज्ञान होता है, जो

कि उपादेयभूत है वही है ज्ञान। इस लक्षणमें ज्ञान पानेकी तरकीब भी बता दी गयी है। इसको दो बातोंमें जान लीजिए। एक तो परद्रव्योंका आलम्बन छूटे और दूसरे अन्तर्मुख अपना उपयोग जाय, दो ही तो ये बातें हैं।

आत्मत्वपरिज्ञानके दो मुख्य उपायोंका विवरण— इन दोनों बातों को और सरल भाषामें यों समझियेगा कि एक काम तो यह है कि समस्त परद्रव्योंको भिन्न जानकर, असार जानकर, अपना दुर्लभ अवसर बिगाड़ने ही वाला जानकर उन समस्त परद्रव्योंको अपने उपयोगसे हटा दो। तुम्हारे उपयोगमें जो आता हो, कोई विकल्प आता हो, कोई धन प्राप्त करनेका उपायरूप विकल्प आता हो उन सबके प्रति यह तो ध्यान करिये कि ये सब असार बातें हैं, भिन्न हैं, अहितकी बातें हैं। कुछ न रहेगा अंतमें, खाली विकल्प करके जैसा यह पातकी बना वही रह जायेगा। कैसा भी विचार बनाओ वहां नियत स्वलक्षण देखो, स्वरूपास्तित्व देखो, सबको भिन्न जानो, असार जानो, अहितरूप जानो। किसी भी परद्रव्यमें उपयोग न दो। कोई कहेगा कि परद्रव्यमें उपयोग न देनेकी बात तो साहब कठिन है। इतना करा दो फिर हम आगे तो बढ़ लेंगे। अरे इसे खुद कर लो, कोई दूसरा आकर न करायेगा।

निज परमात्मत्वपरिज्ञानका द्वितीय मुख्य उपाय— दूसरा काम करना यह है कि जो अपने में जानता हुआ रहता है ना सदैव वह जानना क्या है? किस स्वरूपका है, जाननेकी शकल क्या है, जाननेका रूपक क्या है? उस जाननेके स्वरूपके ही जाननेमें लग जायें, चीजोंके पीछे न पड़ें, परचीजोंको जानते हैं तो परके पीछे न पड़कर उसका जो जानन हो रहा है वह जानन किस ढंगका है, उसका क्या स्वरूप है? इसके जानने में लग जायें। और आप आत्माका भी जानन कर रहे हों तो वहां भी आप आत्माके पीछे न लगें किन्तु वहां भी वह जानन किस तरहका हो रहा है? उस शुद्ध जाननका क्या स्वरूप है? जहां मात्र जानन ही जानन की बात हो उस जाननके स्वरूपको ही जाननेमें लग जायें, ये ही दो बातें यहां कही गयी हैं। तो इस उपायके द्वारा निज परमतत्त्वका परिज्ञान होता है।

निजपरमात्मत्वके परिज्ञानमें अन्तःपुरुषार्थकी आवश्यकता— इस निजतत्त्वके परिज्ञानमें अंतःपुरुषार्थ करना होता है। मात्र उपरी दृष्टि रखकर दूसरोंको समझाना दूसरोंको उपदेश आदिकी कोई दृष्टि रखकर जो जाननका यत्न होता है उससे निज परमतत्त्वका परिज्ञान नहीं होता।

है, किन्तु परद्रव्योंका परिहार करके सर्वयत्नसे अपने आपके अन्तर्मुख होकर ज्ञान परिणामन करने से निज परमतत्त्वका ज्ञान होता है। उस ही ज्ञानको यहां नियमसारमें कहा गया है।

सम्यक्त्वका आधार स्थान— नियमसार सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्रिको कहते हैं। जिसमें सम्यग्ज्ञानका स्वरूप तो संक्षेपमें बना दिया गया था। अब सम्यग्दर्शनका स्वरूप कह रहे हैं। निज शुद्ध जीवास्तिकायमें जो निज सहज स्वभावका परम श्रद्धान् है उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं। इस आत्माको चार प्रकारसे दिखाते हैं— जीव पदार्थ, जीव द्रव्य जीवास्तिकाय और जीवतत्त्व—ये चार प्रकारकी देखनेकी पद्धति हैं— द्रव्य क्षेत्र, काल, भावका आश्रय करना। जब द्रव्यका आश्रय करके जीवको देखा जाय तो यह जीवपदार्थके रूपमें देखा जाता है। जब क्षेत्रका आश्रय करके इस जीवको देखा जाय तो जीवास्तिकायके रूपमें देखा जायेगा और कालकी दृष्टिसे जीवको देखा जाय तो जीवद्रव्यके रूपमें देखा जायेगा। और जब भावकी प्रमुखतासे इस निजको देखा जायेगा तो जीवतत्त्वके रूपमें देखा जायेगा। चूंकि श्रद्धान् आदिक अवस्थाएँ इस जीवभूमिमें होती हैं, अतः शुद्ध जीवास्तिकायमें समुपजन्त परमश्रद्धान् ही सम्यग्दर्शन है, यह कहा गया है।

द्रव्यदृष्टिसे जीवकी परख— जब द्रव्यकी दृष्टिसे देखा तो इस जीव को जीव पदार्थ कहते हैं 'गुण पर्यायवत् द्रव्यम्।' गुणपर्यायका पिएड द्रव्य होना है। द्रव्यकी दृष्टिमें चैतन्य द्रव्यात्मक निरखा जाता है और व्यवहारमें भी समन्वय हुआ, इस तरह द्रव्यदृष्टिसे तो पुद्गल पकड़ा जाता है मुख्यतया, क्योंकि वह पिएडरूपमें साफ नजर आता है। हाथमें लेकर बना सकें कि यह है घड़ी, यह है स्कंवा, यह है पुद्गल। तो यद्यपि ये चार दृष्टियाँ सभी पदार्थोंमें हैं, फिर भी व्यवहारिकतामें द्रव्यदृष्टिसे पुद्गलका निहारना स्पष्ट होता है। और क्षेत्रदृष्टिसे आकाशद्रव्यका समझना स्पष्ट होता है और कालदृष्टिसे कालद्रव्यका निहारना स्पष्ट होता है और भावदृष्टिसे जीववस्तुका निहारना स्पष्ट होता है—ये चारों सभी वस्तुवा में हैं, पर प्रमुखताकी बात कही है। गुणपर्यायका पिएड वह जीववस्तु है, ऐसा जब देखा तो जीव पदार्थ दीखा। पदार्थका शब्दार्थ है, पदका अर्थ है जो जीव पद कहा गया है उसका वाच्यभूत पिएड जो है उसे पदार्थ कहते हैं। तो एक पिएडरूप नजर आए यह जीव अनन्त शक्तिका पुञ्ज है, अनन्त परिणामनका पुञ्ज है और जीवमें पुञ्ज नहीं निरखा जाता है पर समूहात्मकताको पिएड कहते हैं। यों द्रव्यदृष्टिसे यह जीव पदार्थ देखा

गया है।

क्षेत्रदृष्टिसे जीवकी परख— क्षेत्रदृष्टिसे देखो तो विस्तार विरतम् प्रदेश फैलाव यह दृष्टि बनेगी। क्षेत्रदृष्टि करके हम जीवको देखें और राग-द्वेष दिख जाय, ऐसा न होगा या ज्ञानात्मक कोई गुण दिख जाय, ऐसा न होगा क्योंकि दृष्टि लगायी है क्षेत्रकी। इस दृष्टिमें तो असंख्यातप्रदेश है, इतना विस्तार वाला है, इतना फैला हुआ है, यह दिखेगा और इस दिखनेमें यह जीव अस्तिकाय नजर आयेगा। अस्तिकाय कहते हैं उसे जो है और परिणमता है। जीवमें बहुत प्रदेश है, यह बात क्षेत्रदृष्टिसे ग्रहणमें आयेगी।

कालदृष्टिसे जीवकी परख— जब कालदृष्टिकी प्रमुखता करते हैं तो यह न नजर आयेगा कि जीव इतना लम्बा चौड़ा फैला हुआ है। क्यों कि कालदृष्टिकी प्रमुखतासे जीवको निहारने जा रहे हैं। वहां जो परिणमन होगा, रागरूप, द्वेषरूप विवेकरूप, ज्ञानरूप वह नजर आयेगा। पर्याय प्रमुख हो जायेगी और पर्यायकी प्रमुखतासे जीवका नाम है जीवद्रव्य। द्रव्य उसे कहते हैं, अदुद्रवत् द्रवति द्रौष्यति पर्यायान् इति द्रव्यम्। जिसने पर्यायोंको उत्पन्न किया, ग्रहण किया, पर्यायोंको कर रहा है, पर्यायोंको करेगा वह द्रव्य कहलाता है। जीवद्रव्य कहनेसे परिणमनकी प्रमुखता आती है।

भावदृष्टिसे जीवकी परख— जब भावदृष्टिको मुख्य बनाते हैं तो भाव मायने शक्ति ध्रुव गुणस्वभाव। उस दृष्टिको प्रमुख करके अपने आपको देखेंगे तो यह जीवतत्त्वके रूपमें विदित होगा।

अन्तस्तत्त्वविलासकी भूमि— जहां अज्ञान परिणमन हुआ वह है शुद्ध जीवास्तिकाय। शुद्ध, जिसमें परकी लपेट नहीं, केवल जीव ही जीव फैला हुआ है; ज्ञान ज्योतिस्वरूप शुद्ध जीवास्तिकायमें उसही का अज्ञान होना सो सत्यदर्शन है। यह जीवास्तिकाय, आत्मभूमिका शुद्ध अन्तस्तत्त्वके विलासका जन्मभूमिस्थान है। यह शुद्ध अन्तस्तत्त्व अर्थात् ज्ञानस्वभाव विकसित कहाँसे होता है, वह है यही शुद्ध जीवास्तिकाय अर्थात् आत्मभूमि। उसमें उसही का अज्ञान हुआ।

सम्यक् अज्ञानका अधिकारी— यह अज्ञान किसके होता है? जो भगवान् परमात्मदेवत्वके सुखका अभिलाषी हो अर्थात् जो शुद्ध आत्म य आनन्दका प्रयोजक हो, ऐसे भव्य जीवके अज्ञान होता है। जैसे मोटे रूपसे यहीं परखिये। जिसने अपने जीवनमें यह उत्सुकता बनायी है कि मैं इन मनुष्योंके बीचमें कुछ शानसे रहूँ, इनमें महान कहलाऊँ, मेरा किसीसे

अपमान न हो, मेरे अनुसार सब चलें, जिसकी ऐसी दृष्टि होगी, जिसने ऐसा जीनेका लक्ष्य बनाया होगा उसको यह बात आ पड़ेगी ही कि वह अच्छा महल बनवाए, धनको बढ़ाये, सरकारमें अपनी पैठ बनाए, ये सब उसकी तृष्णायें जगेंगी ।

ज्ञानीकी संवेगभावना— जिसके अन्तरमें यह भावना जागृत हुई है कि इस मायामय जगत्में मायामय प्राणियोंसे हम अपने लिए क्या कहलाएँ ये भिन्न हैं, अपने परिणामनसे परिणामकर समाप्त हो जाते हैं, इनसे मेरे हितका कोई सम्बन्ध नहीं है, न इन पर मेरा सुख दुःख निर्भर है, ये सब मेरी ही तरह अथवा मेरेसे भी मलिन परिणामों सहित अपना जीवन गुजार रहे हैं, ये भी अपने क्लेश भोग रहे हैं, ऐसे क्लेश भोगने वाले मायामय मनुष्योंसे मुझे क्या कहलाना है ? आज मनुष्य हैं, थोड़े ही समय बाद मरकर कहींके कहीं पहुँच गए, तब फिर मेरे लिये कहां क्या है ? अगर अपना जीवन इन्हीं लल्लोचपोंके ही करनेमें बिता दिया; प्रेम करके बिता दिया, अपना आत्मसमर्पण करके बिता दिया तो फिर अपने कल्याण का अवसर और कहां मिल सकेगा ? यह समय भी गया । अपना यह दुर्लभ नरजीवन अज्ञानी बनकर ही बिता दिया तो उससे कुछ भी लाभ न होगा । बाहरमें मेरे लिए कोई कुछ नहीं है । न मेरे लिए शरण हैं, न सहाय हैं ।

संतोषकरी वृत्ति— भैया ! यह सारा जगत जिसे असार विदित हुआ है उसके लिए तृष्णाकी क्या गुञ्जाइश है ? उसका उत्साह ही उस और न जगेगा । रही गुजारेकी बात । जहाँ पुण्यके उदयमें ऐसा श्रेष्ठ भव पाया है, कुल पाया है, धर्म संगति प्राप्त की है वहाँ गुजारेकी क्या जरूरत ? रही एक मनके ऊधमकी बात । कोई कहे कि भाई ४ रुपया तो रोज हमारे बीड़ी, सिगरेट, पानके लिए हों, तो इस उधमका तो कोई इलाज नहीं है मगर गुजारेके लिए कोई कितनी ही महंगाईका जमाना हो पर टोटा नहीं है । अगर समझते हो कि गुजारेका टोटा है तो जरा अपनेसे हीन परिस्थिति वाले और बहुकुटुम्बियों पर दृष्टि दो तो देखो कि वे भी जिन्दा हैं कि नहीं । वे भी गुजारा करते हैं कि नहीं । इस जीवनका लक्ष्य क्या है ? बड़ी ठाठबाट आरामसे जीवन गुजारना ही लक्ष्य बनाया है क्या ? यह जीवन बुझ जायेगा फिर क्या होगा आगे ? सो स्पष्ट है ।

सुयोगके दुरुपयोगका फल— हमने यदि अपने आपका अनुराग न किया, आत्मदेवका स्पर्श न किया और बाहरी आश्रयभूत विषयोंका ही ध्यान बनाया तो परिणाम स्पष्ट है कि अब कुछ आगे न मिलेगा । मनका दुरुपयोग किया, दूसरेका बुरा विचारा तो कर्म भी यह कहेगा कि इस

जीवको मनकी जरूरत नहीं है क्योंकि मन दिया तो उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए अब क्या जरूरत है इस मनको मन की। तो यह मन बिना बिल्कुल असंज्ञी बन गया। इन कानोंका दुरुपयोग किया, राग भरी बातें सुनीं, नाच गाना हुआ तो वहां बहुत जल्दी मन लग जाय। उसके लिये कहीं टिकट लेने जाना पड़े तो घंटोंसे खड़े रहें। कानोंका दुरुपयोग किया तो (अलंकारमें कह रहे हैं) यह विधि सोचता है कि इस भैयाको कानकी जरूरत नहीं है, यह तो बिना ही कानके ठीक रहेगा, तो बनेगा चौइन्द्रिय। आंखोंका दुरुपयोग किया, रागदृष्टिसे सुहावनी बस्तुओंको देखना और दुरुपयोग करना, यों आंखोंका दुरुपयोग किया तो आंखोंकी भी अब क्या जरूरत है? सो तीनइन्द्रिय ही रहना ठीक है।

धिक् किनको? एक सभा जुड़ी हुई थी, बरातकी महफिल थी, सो उसमें गाने नाचनेको एक वेश्या बुलाई गयी। खूब लोग जुड़े हुए थे। मृदंग हारमोनियम, मंजीरा सब ठाठबाट थे। उस समयके ठाठबाटको एक कवि ने बताया कि मिरदंग कहे धिक् है धिक् है, मंजीर कहे किनको किनको, तब वेश्या हाथ पसार कहे इनको, इनको, इनको। क्या कहा कवि ने कि महफिलमें मृदंग बज रहा था तो वह यों ही बोलता है ना कि धिक् है, धिक् है, तो उसकी आवाज आती थी कि धिक्कार है, धिक्कार है। तो मंजीरा पूछता है कि किनको धिक्कार है? ऐसी ही तो आवाज किनको किनको की निकलती है मंजीरासे, तब वह मृदंग तो जवाब नहीं देता लेकिन जो वेश्या नाच रही थी सो मानो वेश्या कह रही है इनको-इनको इनको—इनको। चारों दिशाओंमें बैठे हुए लोगोंकी तरफ हाथ फैला-फैला कर मानों कह रही है कि इनको धिक्कार है। तो रागभरी इस तरहकी बातें सुननेमें इन मोही जीवोंका उपयोग लग रहा है। 'सो क्या जरूरत है कानोंकी और आंखोंकी अन्य कर्मठ इन्द्रियोंकी, सो सब सपाट होकर फैसला निगोदका ही मिलेगा।

विवेकपूर्वक चाहकी छांट— तो भैया! यह निर्णय करो कि तुम्हें क्या चाहिए? पहिले चाहकी खूब छांट कर लो। फिर मिल जाना बहुत जल्दी होगा। पहिले चाह ही ठीक बना लो—क्या आत्मसुख चाहिए या वैषयिक सुख चाहिए। वैषयिक सुखके पीछे बड़ी आकुलताएँ रहनी पड़ती। परपदार्थोंकी बड़ी रक्षा करना पड़ती है कि मन माफिक इनका परिष्कमन हो और इतने पर भी विघ्न आएँ तो उनको दूर करनेमें युद्धसा मचावो, सारी परेशानी करके तो मिलता है वैषयिक सुख, तिस पर भी, सुख भोगनेके कालमें भी शांति नहीं किन्तु आकुलतासे ही उपभोग होता है। और इतना

ही नहीं, उपभोगके पश्चात् महान् पछतावा और आकुलता होती है। क्या चाहिए तुम्हें ? पहिले उस चाहकी छ्वाट कर लो।

एकस्वरूपी जीवोंमें भी भेद बैठकर कठिन पक्षपात— जगत्में अनन्त जीव हैं, उन अनन्त जीवोंमें से घरमें पैदा हुए दो चार जीवोंको अपना मानना और शेष सब जीवोंको पराया मानना, इसको कितना बड़ा अंधेर और अज्ञान कहा जाय ? ऐसी क्या आफत आयी कि उन सूठे भिन्न समस्त जीवोंकी ही तरह अपने ही स्वार्थमें रहने वाले अपने ही विषय-कषाय खुदगर्जीमें रहने वाले उन दो चार जीवोंको अपना सब कुछ मान लेना और उनके लिए तन, मन, धन, वचन सब समर्पण खुशीसे कर रहे हैं। बाकी जीवोंमें ये भी जीव हमारी ही तरह हैं ऐसा हृदयमें नहीं सोचते। इसे कितना बड़ा अज्ञान माना जाय ? फिर और अज्ञानपर अज्ञान चले। घरके बाल बच्चोंका तो खैर थोड़ासा भार है, लेकिन ये मेरी समाजके हैं, ये मेरी विरादरीके हैं—ऐसा मानना कितना बड़ा अंधेर है ? अच्छा और जाने दो। जिस त्यागीका प्रथम परिचय हुआ उसे मानते कि यह तो दूसरे के त्यागी हैं। इसे कितना भ्रम और अज्ञान कहा जाय ? अपने पर दया नहीं आती।

आत्महितकी आत्मामें खोज— भैया ! अपने स्वरूपको तो समझो, सर्व जीवोंपर सही निगाह तो बनावो। मिलेगी जो कुछ अपनेको कल्याण की बात वह अपने द्वारा अपने में ही मिलेगी। अन्यत्र कितनी ही टकटकी लगाकर प्रतीक्षा करें, केवल क्लेश ही है, लाभ कुछ नहीं है, यह तो हुई सम्यग्दर्शनकी बात, अब चारित्रकी भी बात देख लो। निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक जो कारणपरमात्मा है उसमें अविचल रूपसे स्थित हो जाना इसका नाम है चारित्र।

आत्मतत्त्वकी त्रिरूपता— भैया ! परमात्मतत्त्वको ३ प्रकारसे निहारिये—द्रव्यरूप कारणपरमात्मतत्त्व, पर्यायरूप कारणपरमात्मतत्त्व और कार्यपरमात्मतत्त्व। कार्यपरमात्मतत्त्व है अरहंत और सिद्ध जिसका सहजस्वरूप निरपेक्ष स्वयं जैसे तत्त्वको लिए हुए है वैसा ही प्रकट हो गया उसे कहते हैं कार्यपरमात्मा और इस कार्यपरमात्मा होनेसे पहिले जो शुद्ध आत्मतत्त्व है उसे कहते हैं पर्यायरूप कारण परमात्मा और जो प्रत्येक आत्माका सहज स्वभाव है उसे कहते हैं ओघ कारणपरमात्मा।

परमार्थशरण कारणपरमात्मतत्त्व— यह कारणपरमात्मतत्त्व इस द्रव्यरूप कारणसमयसारके लिए अध्यात्मशास्त्रमें प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस समस्याका समाधान यह कारणपरमात्मतत्त्व ही है। किस

समस्या था ? कि हम किसका आश्रय करें जिससे हमारी शुद्ध परिणति बने, परंपदार्थका तो यह आत्मा निश्चय ही नहीं कर सकता, क्योंकि अपने जीवास्त्रिकायको छोड़कर अन्यत्र इसके गुणोंकी गति नहीं है। चाहे प्रभु अरहंतदेव हैं, सिद्ध देव हैं, उनके इस गुणकी गति नहीं है। यह आत्मा अपने जीवास्त्रिकायमें रहते हुए ज्ञान द्वारा ऐसा ग्रहण करता है कि जिसमें अरहंत और सिद्धके स्वरूपका विषय होता है पर आश्रय नहीं कर सकता। आश्रय तो यह स्वयंका ही कर सकता है, सो स्वयं है वर्तमानमें अशुद्ध और अनादिसे ही चला आया है यह अशुद्ध। तो क्या इस अशुद्धके आश्रय से शुद्ध परिणति बनेगी ? यह भी बात सम्भव नहीं है। तब यह निर्णय करना कि अपने आपका जो अपने आपके सत्त्वके कारण सहजस्वरूप है चित्तस्वभाव, चित्तप्रकाश, कारणपरमात्मत्व है उस शुद्धस्वरूपका आश्रय करें तो शुद्ध वृत्ति जगेगी।

ज्ञानकी अबाध गति— यह कारणसमयसार चाहे परिणमनमें अशुद्ध है पर ज्ञानकी ऐसी पैनी दृष्टि होती है कि यह ज्ञान अशुद्ध अवस्थामें भी अशुद्धमें न अटक कर, अशुद्धको छोड़कर भीतर गमन करता है और शुद्धको ग्रहण कर लेता है। जैसे हड्डीका फोटो लेने वाला यंत्र कपडोंको चमड़े को, खूनको, मांसको न ग्रहण करके केवल हड्डीका फोटो ले लेता है। जैसे आपकी कोई कीमती चीज तिजोरीमें बक्सके अन्दर पोटलीमें बंधी है, मोती हीरा कुछ भी हो, आप यहां बैठे-बैठे एकदम उपयोगसे हीराको ज्ञानसे पकड़ जाते हैं। घरके किवाड़ लगें हों तो आपका ज्ञान दरवाजे पर न अटक जायेगा कि किवाड़ खुलें तो हम भीतर जाएँ। तिजोरीके फाटक में न अटक जायेगा सीधा वहाँ पहुंच जाता है। इसी प्रकार इस अशुद्ध अवस्थामें भी भेदविज्ञानके बलसे अपने नियत लक्षणका आलम्बन करके यह उपयोग उन सब परिणमनोंको छोड़कर अंतः शुद्ध चैतन्यस्वरूपको ग्रहण कर सकता है। इस शुद्ध चित्तस्वभावके आश्रयसे शुद्ध परिणति होती है।

ज्ञानीकी नियमसारकी भावना— ऐसे निश्चयज्ञान दर्शनात्मक कारणपरमात्मत्वमें अविचलरूपसे स्थित होना इसको ही कहते हैं चारित्र। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र यही नियमसार कहा है और सार शब्दको लगाने से यह जानना कि इस स्वरूपसे अतिरिक्त और जो कुछ बात है, परिणमन है वह नियमसार नहीं है। ऐसे नियमसाररूप अपने आपकी वृत्ति जगानेके लिए कुन्दकुन्दाचार्य देवने इस नियमसारग्रन्थको बनाया है। ज्ञानी जीव रत्नत्रयके स्वरूपको जानकर यह भावना करते हैं कि मैं

विपरीत आशयरहित सम्यग्दर्शनको, विपरीत ज्ञानरहित सम्यग्ज्ञानको और विपरीत परिणतिरहित सम्यक्चारित्रको प्राप्त करके मैं आत्मीय आनन्दको प्राप्त होऊँ। अब इस ही रत्नत्रयका वर्णन जाननेके लिए रत्नत्रयका भेदपूर्वक वर्णन कर रहे हैं।

एण्यमं भोक्स्व उवाचो तस्स फलं हवइ परमणिन्वाणं ।

एदेसिं तिण्हं पि य पत्तेयपरूवणा होदि ॥४॥

मोक्ष और मोक्षोपाय— मोक्ष नाम है ऐसे अपूर्व महान् आनन्दके लाभका जो कि सहज स्वाधीन है और समस्त कर्मोंके विध्वंस हो जानेके निमित्तसे प्रकट हुआ है, ऐसे सहज परिपूर्ण आनन्दके लाभका नाम है मोक्ष और महान् आनन्दकी प्राप्तिका उपाय है निरतिचार रत्नत्रयकी परिणति। आत्मश्रद्धान्, आत्मज्ञान और आत्मरमण हैं महान् आनन्दके प्राप्त करनेका उपाय, इसीका ही नाम मोक्ष है, सर्वसंकटोंसे छुटकारा हो जाना और स्वाधीन सहज शारवत आनन्दका लाभ होना। ज्ञान, दर्शन, चारित्र इन तीनोंका अब जुदा-जुदा प्ररूपण करते हैं।

परमार्थतः वस्तुकी एकरूपता— भैया ! यद्यपि किसी भी पदार्थमें उसका स्वरूप एक है और प्रतिसमय परिणमन एक है। उस वस्तुमें न कोई गुणभेद है और न उस वस्तुमें पर्यायका भेद है। एक समयमें एक वस्तुका एक ही परिणमन होता है और वह जिस रूप है उस ही रूप है, पर-व्यवहारमें उसकी समझ करने के लिये पर्यायका भेद किया जाता है और पर्यायभेदके माध्यमसे गुणभेद किया जाता है और इसी कारण किसी द्रव्यमें जब कोई बात विलक्षण मालूम होती हो तो ऋट एक गुण और मान लेते हैं। जब गुणभेद किया जाता है तो कुछ भी विलक्षणता प्रतीत हुई कि उसकी ही आधारभूत शक्ति और मान लो।

चित्त्वभावकी त्रिशक्तिरूपता— यहां प्रयोजनभूत शक्तिको तीन भागोंमें बांटा है—ज्ञानशक्ति, दर्शनशक्ति और चारित्रशक्ति। चूंकि प्रत्येक जीव इन तीनों बातोंमें मिल रहा है। कुछ न कुछ वह ज्ञान करेगा और कहीं न कहीं उसका विश्वास होगा, और किसी न किसी जगह बह रमेगा। ये तीनों बातें प्रत्येक जीवमें पायी जाती हैं, चाहे एकेन्द्रिय हो चाहे पंचइन्द्रिय हो, प्रत्येक जीवमें ये तीन प्रकारकी वृत्तियां पायी जाती हैं और कार्य भी तब होता है जब तीनोंमें भोग रहता है।

ज्ञान, श्रद्धान्, आचरण बिना कार्य न होनेके कुछ उदाहरण— दुकानका काम क्या विश्वास, ज्ञान और आचरणके बिना हो सकता है ? नहीं हो सकता है। दुकानके लायक ज्ञान होना चाहिये, विश्वास होना

चाहिए और फिर उसको करने लगे तो दुकान का काम बनता है। किसी को कोई बड़ा संगीतज्ञ बनना है तो उसके चित्तमें कोई एक बड़ा संगीतमें जो निपुण हो उसका नाम रहता है, उसकी श्रद्धा है, इस तरह हम बन सकते हैं। अपने आपमें यह श्रद्धान है उसे कि हम संगीत सीख सकते हैं और फिर संगीतकी विधियोंका वह ज्ञान करे और फिर बाजा लेकर उस पर हाथ चलाने लगे तो अभ्यास करते-करते संगीतज्ञ हो सकता है। छोटा छोटा अथवा बड़ा काम कोई भी हो, श्रद्धान, ज्ञान और चारित्रके बिना नहीं होता।

धर्मकार्यके लिये श्रद्धान ज्ञान आचरणका विरलेषण— यह धर्मका भी काम, मोक्षका काम, संकटोंसे छूटनेका काम श्रद्धान ज्ञान और चारित्र बिना नहीं होता। इसका नाम है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र। तो वस्तु एक है, आत्मा एक है और वह परिणम रहा है जो कुछ सो परिणम रहा है। अब उसकी समझ बनानेके लिए उसमें यह भेद किया जा रहा है कि यह तो ज्ञान है, यह दर्शन है और यह चारित्र है। तो उन दर्शन, ज्ञान, चारित्रोंका लक्षण अब अगली गाथावोंमें शुरू होगा। वस्तुतः मोक्षका उपाय आत्माकी निर्दोषता होना है। अब उस परिणतिको हम भेदकल्पना करके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रके रूपमें जानते हैं, यह अनुकूल कल्पना है, वस्तुस्वरूपके अनुसार है, इसलिए यह वस्तुके स्वरूप तक पहुंचाने वाला कथन है। भेदकल्पना करके जो वर्णन किया जाय वहां भेदकल्पनामें अटकने के लिए वर्णन नहीं है किन्तु वह तो एक संकेत है।

आत्माकी अभेदरूप गकं परिचयका फल— वस्तुतः ये तीनों भिन्न नहीं हैं। ज्ञानस्वरूप आत्मा है, आत्माको छोड़कर अन्य कुछ ज्ञान नहीं है। दर्शन भी आत्मा है, आत्माको छोड़कर दर्शन अन्य कुछ नहीं है और चारित्र भी आत्मा है। ऐसे इस आत्मस्वरूपको जो जानता है और उसमें ही वमण करता है वह फिर जन्म नहीं लेता। इसको किन्हीं शब्दोंसे कह लो। माताके उदरमें फिर नहीं पहुंचता, फिर माताका दुग्धपान नहीं करता अर्थात् जन्म नहीं लेता, निर्वाणको प्राप्त होता है। करके देखो तो बात मालूम होती है कि क्या शान्ति है? क्या आनन्द है? वह तो करे बिना अनुभवमें नहीं आता है। और करना भी बड़ा सुगम है दृष्टि हो जाय तो। बाहर तो सब जगह आफत ही आफत है। किस पदार्थमें हितका विश्वास करें? कौन शरण है, किसकी शरण गहें?

जीवोंके प्रति व्यापक उदारदृष्टिकी प्राथमिकता-- भैया ! जैसे

जगतके सभी जीव भिन्न हैं, अपने स्वरूपको लिए हुए हैं इसी प्रकार गोष्ठी में और कुटुम्बमें जो दो चार जीव हैं वे भी मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं। वे अपने स्वरूपको लिए हुए हैं। कितना मोहका गहरा अंधकार है कि उनके पीछे अपने आपको बरबाद किए जा रहे हैं। उनका पालन पोषण करना यह खुदके हाथकी बात नहीं है। खैर करे कुटुम्बके पोषणका काम ब व विकल्प, किन्तु उनके अतिरिक्त अन्य जीवोंको कुछ भी न देखना, न उनमें कुछ दया आए, न उनके साथ न्यायवृत्ति रखे, यह तो महामोह है। भैया ! किसी जीवपर अन्याय तो न रखे, न पोषण कर सकें हम दूसरोंका, कुटुम्ब को छोड़कर तो उस जातीयताके नाते कि ये भी जीव हैं उन पर अन्याय तो न करें, इतनी बुद्धि नहीं जगती, यह मोहका बड़ा अंधकार है।

अब उन तीन तत्त्वोंमें प्रथम सम्यक्त्वका वर्णन करते हैं।

अज्ञानमत्तच्छायां सदहृणादो हवेइ सम्मत्तां ।

ववगयअसेसदोसो सयलगुणप्पा हवे अत्तो ॥३॥

निष्पक्ष आप्तस्वरूप— आप्त आगम और तत्त्वके अज्ञान होने से सम्यक्त्व होता है। यह व्यवहार सम्यक्त्वका स्वरूप कहा जा रहा है। आप्त कहलाता है जो शंकारहित है। मोह रागद्वेष आदिक सर्व शंका और दोष जिसके दूर हो गए हैं, ऐसे निर्दोष वीतराग सर्वज्ञदेवको आप्त कहते हैं। उनका यथावत् अज्ञान होना चाहिए। देव वह है जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो और अपने ज्ञानादिक गुणोंका परिपूर्ण विकास हो गया हो, वह देव है। नामसे क्या मतलब ? नामकी बात तो यह है कि नाम लेकर यदि देवों को पुकारेंगे तो नामका सम्बन्ध होने से जो दृष्टि बनती है उस दृष्टिमें देवका दर्शन नहीं होता है और जिस दृष्टिमें देवका दर्शन होता है उस दृष्टिमें नाम नहीं रहता है। देव किस नामका होता है ? कोई आत्मा यदि निर्दोष है और गुणोंके चरम विकासको प्राप्त है वही हमारा देव है।

देवकी आदर्शरूपता— देव क्या है ? आदर्श है। हमें भी ऐसी स्थिति चाहिए, ऐसा जिस पर लक्ष्य जाय उसीका नाम देव है। स्त्री सहित पुत्र सहित, शस्त्र सहित देवका स्वरूप माना जाय तो उसका अर्थ वह है कि उसको ऐसी स्थिति चाहिए कि ऐसी स्त्री मिले, ऐसा पुत्र हो, ऐसा वाहन हो, ऐसा हथियार हो। तो जो जैसा बनना चाहता है वैसा जिसका स्वरूप है वही देव है उसके लिए। जैसे संगीत शिक्षार्थीके लिए देव कौन है ? जो देशभरमें संगीतमें निपुण हो। जो उदाहरण बने, आदर्श बने वह उसके लिए देव है। कोईसा भी काम सीखो तो उस काममें जो सर्वाधिक निपुण हो ऐसा कोई भी कहींका हो, वही उस सीखने वाले के लिए देव है।

तो जिन्हें निर्दोष और गुणोंसे परिपूर्ण बनना है उनका देव ऐसा ही होगा कि जो निर्दोष हो और गुणोंमें परिपूर्ण हो। ऐसी आत्मकी श्रद्धा होनेसे सम्यक्त्व जगता है।

आगम और तत्त्वार्थ— आगम आप्तके मुखारविन्दसे जो कुछ दिव्यध्वनि निकले, जो समस्त विभावोंका वर्णन करनेमें समर्थ है ऐसा जो बचनसमूह है उसका नाम आगम है। आगममें जो बात लिखी है उसका वाच्य है, प्रयोजनभूत तत्त्व है उसकी श्रद्धा बनती है। एक आगम की श्रद्धा और एक तत्त्वकी श्रद्धा, आगमकी श्रद्धा पहिले है, तत्त्वकी श्रद्धा का उसके बादका विकास है। बहिरात्मत्व, अन्तरात्मत्व और परमात्मत्व के भेदसे ये तत्त्व तीन तरहके हैं। जीवमें या तो बहिरात्मापन पाया जाता है या अन्तरात्मत्व मिलता है। सर्व जीव इन तीन भागोंमें बँटे हैं और इन तीनों अवस्थावर्गोंमें अन्वयरूपसे रहने वाला एक कारण परमात्मत्व है।

अन्तस्तत्त्व व अन्तस्तत्त्वके तीन रूपोंका विश्लेषण— इन्हीं चार स्वरूपोंको जागृति, सुषुप्ति, अंतःप्रज्ञ और तुरीयपाद शब्दोंसे कहा गया है। जागृति बहिरात्मपनको कहते हैं, जो व्यवहारमें खूब जगे उसे कहते हैं जागृति, यही है बहिरात्माकी दशा। और सुषुप्ति सो गया, चिप गया भीतरमें उसे मानते हैं अंतरात्माकी दशा। सुननेमें ऐसा लगता है कि सोया हुआ बुरा होता है, जगा हुआ अच्छा होता है मगर उस सिद्धान्तमें जगा हुआ माना गया है अज्ञानीको और सोया हुआ माना गया है ज्ञानीके। सोये हुएकी पद्धति तो देखो वह अपने आपमें चिपा हुआ है। यों ही अन्तरात्मा अपने आपके ज्ञानमें चिप गया है और अंतःप्रज्ञ दशा है परमात्माकी। प्रज्ञ हो गया है प्रकर्ष ज्ञानी हो गया है और उन तीनों अवस्थावर्गोंमें जो एक स्वरूप है उसे कहते हैं तुरीयपाद याने चौथा चरण। उसके लिए कुछ नाम नहीं मिला। यदि नाम रखोगे उसके ही नामका कोई विशेषण रख दिया जायेगा। वस्तु पकड़में न आयेगी इसलिए तुरीयपाद कहा गया है।

विशेषकत्वरहित शुद्ध नामोंका अभाव— आप कोई ऐसा नाम बतावो जो तारीफ करने वाला न हो और सिर्फ वस्तुका नाम भर हो जैसे चौकी। तो क्या यह चौकीका नाम है? चौकी उसे कहते हैं जिसके चार कोने हों। इस शब्दने तारीफ कर दिया है, नाम नहीं बताया है। घड़ी— जो घड़कर बनायी गयी हो उसका नाम घड़ी है। इस शब्दने तारीफ की है, नाम नहीं बताया है। छत। इसका शुद्ध शब्द है क्षत—जो ठोंक पीट कर बनायी जाय, जो क्षतविक्षत करके बनायी जाय उसका नाम छत है।

तो शब्दने नाम नहीं बताया किन्तु तारीफ करदी—चौखट चारों तरफ जिसमें खट हों जो ऊपर सिरमें खटसे लग जाय, नीचे सोये तनिक लेटे लेटे सरक दें तो नीचेकी देरी खट लग जाय, अगल बगल सिकुड़ कर न जाय तो डंडा लग जाय सो जिसमें चार तरफ खट हों सो चौखट है। तो इस शब्दने भी तारीफ ही कर दी। कौनसा नाम है ऐसा जो वस्तुकी विशेषता न बताता हो। जैसे दरी। शुद्ध शब्द है देराई। जिसके बिछाने में देर लगे उसे दरी कहते हैं। बड़ी मुश्किलसे बिछाए। सिकुड़े पड़ जायें फिर उसे सुधारे, फिर गुड़ी पड़ जाय फिर सुधारे। इस तरह जिसके बिछानेमें देर लगे उसका नाम दरी है। तो इसमें भी शब्दने तारीफ करदी है। चटाई—जो चट आए सो चटाई। आई, फट डाल दिया—उसका नाम है चटाई। तो दुनियामें किसी वस्तुका नाम ही नहीं है, सब तारीफ करने वाले शब्द हैं।

आत्मपदार्थके भी विशेषकत्वरहित शुद्धनामका अभाव—अच्छा आत्माका नाम बतावो जो ठीक नाम बैठे तारीफ न करे। मुझे तारीफ करने वाला शब्द न चाहिए, क्योंकि जो शब्द तारीफ करेगा वह हल्की बात कहेगा, पूरी बात न कहेगा, एक अंशकी बात कहेगा। आत्माका नाम बतावो। जीव—जो प्राण धारण करे सो जीव नाम कहां हुआ? आत्मा सतत अतति इति आत्मा, जो निरन्तर ज्ञानरूप परिणमतारहे उसका नाम है आत्मा। नाम कहां हुआ? तारीफ उसकी कर दी। ज्ञाता जो जाननहार है सो ज्ञाता। नाम तो नहीं हुआ। उसके कई गुण बताये हैं ज्ञायक यह भी ज्ञाताकी ही तरह है। जो जाने सो ज्ञायक। तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आत्माका शुद्ध नाम हो। अंश नहीं बताये, पूर्ण अंशोंको बता दे ऐसा कोई नाम नहीं है, इसलिए कहते हैं तुरीयपाद।

सकल आत्मावोंका त्रिविधतामें विभाजन—समस्त जीव इन तीन तत्त्वोंमें बंटे हैं। बहिरात्मा किसे कहते हैं, जो बाहरकी बातों को जाने उन्हें ही अपना आत्मा माने उसका नाम है बहिरात्मा। अपने आत्मासे बाहर जो कुछ भाव है, जो कुछ पदार्थ है उसको आत्मरूपसे अंगीकार करना उसे कहते हैं बहिरात्मा। अन्तरात्मा—जो अपने अन्तरकी बात अन्तरके स्वरूपको ही आत्मा माने उसका नाम है अन्तरात्मा। ज्ञानानन्द स्वभावमात्र जैसा कि सहज स्वरूप है उसको आत्मा मानना उसे कहते हैं अन्तरात्मा और परमात्मा कहते हैं उसे जो परम आत्मा है परमका अर्थ है—परमा लक्ष्मी विद्यते यत्र सह परमः। जहां उत्कृष्ट ज्ञान लक्ष्मी पायी जाय उसका नाम है परम और परम आत्माका नाम है परमात्मा।

परमात्मा कितने होते हैं? अनन्त। और अंतरात्मा कितने मिलेंगे? अनन्त नहीं। अनन्तसे बहुत कम याने असंख्यात और बहिरात्मा कितने मिलेंगे? अनन्तानन्त।

परमात्मा शब्दमें वर्तमानतीर्थङ्कर संख्यासूचक सुयोग— वैसे प्रसिद्धि ऐसी है कि भगवान् २४ होते हैं। अभी बच्चोंसे कहो कि चौबीसों भगवान्के नाम बताओ तो वे झूट बोल देंगे। अर्थात् जो २४ तीर्थकर हुए हैं, उनको कहते हैं कि भगवान् चौबीस हैं। औरों ने भी भगवान्के २४ अवतार माने हैं। तो अब एक चीज जरा देखो। परमात्माकी ऐसी लिखावट है कि उनके अंकोंका जोड़ २४ होता है? प यों लिखते हैं ५ जैसे। र यों लिखते सो २ जैसा लगता और बड़ा मां यों लिखते सो ४। जैसा लगता और फिर आधा त यों लिखते कि ८ जैसा मालूम होता और बादमें बड़े या महाराज आ गए सो ४। जैसा मालूम होता। इन सबको जोड़ लो तो २४ की संख्या होती है। तो परमात्मा की लिखावटमें भी २४ की धुनि पड़ी हुई है। कुछ यहां ऐसा कार्य कारण नहीं लगा लेना कि परमात्मामें २४ अंक बसे हैं इसलिए २४ होते हैं। तीर्थकर भरत ऐरावतमें २४ प्रकृत्या होते हैं तो परमात्मा वह है जिसमें उत्कृष्ट ज्ञान लक्ष्मी प्रकट हुई है। अथवा जैसे तीन तत्त्व बताये गए हैं, दूसरी प्रकारसे ७ तत्त्व श्रद्धाके योग्य हैं—जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष।

व्यवहार और निश्चयकी उपादेयता— इस तरह आप्त आगम और तत्त्वके श्रद्धानसे सम्यग्दर्शन होता है और इसके श्रद्धानको व्यवहार सम्यग्दर्शन कहते हैं। अर्थात् ये सब स्थितियां निश्चय सम्यक्त्वके योग्य बनानेका अवसर देती हैं। सबकी जरूरत है। आज कुछ जानकार हो गए, पढ़ लिखकर समझदार हो गए तो सबके लिए एकसी बात कही जाय कि भाई यहीं है निश्चय रत्नत्रय और बाकी सब हेय हैं, त्यागने योग्य हैं। सर्व साधारणके लिए यह उपदेश फिट नहीं हो सकता, हम ही अपनी स्थिति को विचारें, हम क्या करते थे, फिर क्या किया, फिर कैसे उन्नति हुई? आज जान गए कि वास्तविक स्वरूप क्या है? सो उपदेशमें यथापद योग्य उपदेश हो।

व्यवहारसम्यक्त्वमें प्रभुभक्तिकी प्राथमिकता— यह व्यवहार सम्यक्त्वका स्वरूप यहां बताया गया है जो कि निश्चय सम्यक्त्वका कारणभूत है। जिस पुरुषके अन्दर भगवान्में तीव्र भक्ति नहीं प्रकट होती है वह पुरुष आगे बढ़नेका पात्र भी नहीं है पाता। वह संसारसमुद्रके बीच में गोते ही लगाता रहता है। हम कुछ तत्त्व चर्चा करना जानते हैं या

तत्त्वचर्चाका प्रवाह यह उठा है; इसमें ही रम जायें और हममें प्रभुके प्रात तीव्र अनुराग का परिणाम न जगे जिसमें कि गुणोंके स्मरणका आनन्द रहता है और अपने दोषोंका पछतावा होनेसे विशाद जगता है; ऐसे आनन्द और विशाद दोनोंको मिश्रण कराकर पाप धोने वाली भक्ति यदि हम अपने आपमें प्रकट नहीं कर पाते हैं तो आजके समयमें तो हम आगे धर्मप्रहणके मार्गमें प्रगति नहीं कर सकते। तो व्यवहार सत्यव्रतकी भी आवश्यकता है जो कि हमारी आगामी प्रगतिका कारण है।

प्रभुभक्तिका प्रभाव— प्रभुकी भक्तिकी प्रगतिका इस जीवनमें बहुत बड़ा आधार है। पूज्य श्री बादिराज मुनिने बताया है कि हे प्रभो! शुद्ध ज्ञान भी हो जाये, शुद्ध चारित्र भी हो जाय तो भी जब तक आपमें उत्कृष्ट भक्ति नहीं जगती जब तक मुक्तिके द्वारमें लगे हुए किवाड़ोंको खोलनेकी कुञ्जी उसे नहीं मिलती है। बुद्धिपूर्वक चलकर पुरुषार्थ तो करना है प्रभुभक्तिका और जब प्रभुभक्तिसे हम समर्थ हो जायें तो समाधिका होना यह मेरे महज होगा। यह प्रभु १८ दोषोंसे रहित है और अनन्त चतुष्टय करिके सहित है। वे १८ दोष कौन हैं जिनसे प्रभु रहित हैं।

छुहतरहभीरु रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा भिचू ।

स्वेदं खेद मदो रइ विम्बिहय गिहा जगुन्वेगो ॥६॥

अठारह दोषोंका प्रभुमें अभाव— १८ दोष हैं क्षुधा, तृषा, भय, रोष राग, मोह, चिंता, बुद्धापा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, घमंड, रति, आश्चर्य, निद्रा, जन्म और उद्वेग। ये दोष भगवान्में नहीं होते हैं। अब इन दोषों का लक्षण सुनिए।

क्षुधा दोषका विवरण— क्षुधा किसे कहते हैं? असातावेदनीयके तीव्र उदयसे व उदीरणासे तीव्र मंद क्लेशके रहते हुए क्षुधा होती है, अर्थात् क्षुधा उत्पन्न करनेमें सहायक ऐसा असाता वेदनीय कर्म निमित्त हो उक्त समय जो शरीरमें एक विशिष्ट दशा होती है भूख जैसी, तो वहां क्षुधाकी वेदना होती है। भूखको कोई बता सकता है क्या? जैसे कोई बच्चे लोग कभी-कभी कहते हैं कि हमें भूख लगी, तो उनसे कहो कि जरा दिखाओ तो अपनी भूख, तो क्या कोई अपनी भूख दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। अरे कहां भूख लग बैठी, यह कहां लगती है? भूख कहां लगती है? पेटमें। पेटके ऊपर भूख लगती है कि भीतर लगती है? पेटके भीतर लगती है। तुमने ही बता दिया कि भीतर भूख लगती है अब हम तुम्हें क्या उत्तर दें।

क्षुधा और बुभुक्षाके 'वाच्यका अन्तर— आप हमसे पूछें कि भूख

कहां लग रही है ? तो आपको हम क्या कहेंगे कि हमें पता नहीं कुछ भी कि कहां भूख लग रही है ? भूखकी बात पूछो तो भूखका संस्कृत शब्द है । बुभुक्षा माने भूख भोक्तु इच्छा इति बुभुक्षा । भूखका अर्थ है भोगनेकी इच्छा, खानेकी इच्छा । अब बतावो भूख शरीरमें लगी कि आत्मामें ? अर्थ पहिले समझ लो । बुभुक्षा मायने खानेकी इच्छा । तो खानेकी इच्छा आत्मामें लगी कि शरीरमें ? भूख आत्मामें लगी । पहिले शब्दका अर्थ समझो । और क्षुधा कहां लगी ? तो क्षुधाका क्या अर्थ है ? उसका भी अर्थ है विकलव करना आपत्ति करना । तो भूख मायने खानेकी इच्छा वह तो हुई जीवमें और शरीरमें जो हल्कापनसा है वह है क्षुधा । इसे आप बता नहीं सकते हैं । क्षुधा लगती तो भैया हमारे भी है पर हम बता नहीं सकते कि क्षुधा क्या कहलाती है ? पेटमें कुछ नहीं रहता, रीतासा रहता है । उसमें आत्पिनीं सी गड़ती रहती हैं । ऐसी एक विशिष्ट दशा हो जाती है वह है शरीरमें क्षुधा । इस प्रकार शरीरकी क्षुधा अवस्था होने पर खानेकी जो इच्छा जगती है वह इच्छा होती है जीवमें, जीवको वेदना होती है इच्छासे । तेज भूख लगी तो अधिक वेदना होती है और हल्की भूख लगी तो हल्की वेदना होती है । वह है क्षुधा नामका दोष ।

तृषादोषका विवरण—तृषा कैसी है कि असाता वेदनीयके उदयसे तीव्रतीव्रतर और मंदमंदतर पीड़ा रूप तृषा उत्पन्न होती है । देखो—क्षुधा में तो दो जातिकी वेदना है—तीव्र और मंद और तृषा भी दो जातिकी वेदना है, तीव्र तीव्रतर और मंद मंदतर । बहुत हल्की, हल्की, तेज और बहुत तेज । ऐसी ४ वेदनाएँ होती हैं । प्यासमें और भूखमें दो तरहकी वेदनाएँ होती हैं—तीव्र और मंद । तो प्यासमें हल्कीसे हल्की वेदना और तेजसे तेज वेदना है, किन्तु भूखमें न बहुत हल्की वेदना रहती और न अत्यन्त तेज वेदना रहती । बहुतसे लोग प्याससे मर जाते हैं भूखसे नहीं मरते । इसका यह कारण है कि तीव्रतर वेदना प्यासमें होती है, भूखमें तीव्रतर वेदना नहीं होती है । किसीको जरासी भी प्यास लगी हो तो मूढ महसूस हो जाती है और भूख जरासी लगी हो तो पता ही नहीं रहता । तो भूख अत्यन्त हल्की कभी नहीं होती । प्यास अत्यन्त हल्की भी होती है ।

क्षुधा तृषाका नरंलोकव्यवस्थामें सहयोग—ये क्षुधा तृषाकी वेदनाएँ आप भगवानमें नहीं हैं । ये दो बड़ी कठिन वेदनाएँ हैं भूख और प्यासकी । मनुष्यके भूख और प्यास न लगती होती तो बड़ा अंधेरा यहां मच जाता, फिर कोई व्यवस्था ही यहां न हो पाती । जैसे देव हैं, उनके भूख प्यास

नहीं लगती। मगर वहां अंधेर यों नहीं मच रहा है कि वे न दुकान करें, न रोजगार करें, न कमायीका कोई काम करें, भूख प्यासकी वेदना नहीं रही मगर फिर भी उनका बुरा हाल हो रहा है और यहां भूख प्यास तो लगे नहीं साथ पोजीशनके लिये दुकानें व्यवसाय किये ही जायें तो यहां जो अंधेरा मच जायेगा उसका प्रलय जैसा रूप हो जायेगा। मनुष्य भूख प्यासके आगे घुटने टेक देते हैं।

क्षुधा तृषाका मोक्षोपायार्थियोंमें स्थान— वैसे तो भैया ! जहां भूख प्यासकी वेदना होती है उस ही भवमें मुक्तिका उपाय बन सकता है। जहां जहां भूख प्यासकी वेदना होती है वहां से मुक्तिका रास्ता खुला है यह तो नहीं कह रहे किन्तु मुक्तिका मार्ग उस भवसे ही मिलता है जिस भवमें भूख और प्यासकी वेदनाएँ हुआ करती हैं। जहां भूख और प्यासकी वेदनाएँ नहीं हैं, वहां सम्यक्चारित्र भी नहीं बनता। ऐसा जानना कि भोगभूमिया जीव हैं, देव व नारकी हैं उनको उस भवसे मुक्ति नहीं बतायी गयी है। अरहंतके क्षुधा और तृषाकी वेदना नहीं है किन्तु वे मुक्तस्व रूप हैं।

भयदोषमें इहलोकभयका विवरण— तीसरा दोष बताया जा रहा है भय। भय ७ प्रकारके होते हैं, इस लोकका भय, हाथ मेरी जिन्दगी कैसे चलेगी, मेरा गुजारा कैसे होगा, कैसे-कैसे कानून बन रहे हैं, यह इतनी जायदाद रह सकेगी कि नहीं, आदिक नानाप्रकारकी विकल्प धाराएँ चलवाना और सामने आने वाली विपत्तियोंसे घबड़ाना— ये सब इस लोक के भय हैं। कितने ही भय हैं इन जीवोंमें और ये समस्त भय एक आत्मा के आश्रयसे समाप्त हो जाते हैं। भैया ! वह जीव बड़ा सुरक्षित है जिसमें विषय बाँझाएँ परिग्रह संचय या यश कीर्तिका फैलाना ये पारणाम नहीं होते। वह मनुष्य नहीं है वह तो प्रभुका छोटा भाई है।

श्रमीका बेतुकी श्रम— ये विकार परिणाम जिस जीवमें होते हैं उस समय यह मूर्ख बनता, आकुलतावोंमें पड़ता और भविष्यकी आकुलताएँ भी लाद लेता है। अंतमें फल क्या मिलता है ? कुछ नहीं। बाल बच्चोंके लिए, कुटुम्ब परिवारके लिए कितना-कितना श्रम करते हैं और ऐसा निर्णय करके बैठे हैं कि जितना भी धन कमाते हैं वह सब इस कुटुम्बके लिए ही है अन्य कार्यके लिए नहीं है। अपना सारा श्रम कुटुम्बके लिए ही करेंगे, औरोंके लिए नहीं। रात दिन किसी जगह बैठे हों जब मनमें चिंतन करेंगे तो कुटुम्बका चिंतन करेंगे। वह ऐसा है, उसे यों करना है, उसे यों सुखी करेंगे, निरन्तर चिंतन चलाया करते हैं। और प्रेमपूर्वक

अपना हृदय देकर वचन बोलनेका यदि कुछ यत्न है तो कुटुम्बके लिए है। यह दशा है मोहग्रस्त जीवोंकी। भला बतावो कि उनके हृदयमें भगवानका निवास कैसे हो ? उनके उपयोगमें प्रभुकी भक्ति कैसे आए ?

हृदयवास अथवा पूजा— जब तक हृदयमें स्वच्छता नहीं उत्पन्न होती तब तक प्रभुका स्मरण ही नहीं हो सकता। वैसे पूज तो रहे सब लोग निरन्तर किसी न किसीको, पर कोई भगवानको पूज रहा है, कोई किसीको पूज रहा है। हृदयमें जिसका रात दिन अधिक समय तक निवास होता हो उसको ही वह पूज रहा है। कोई स्त्रीको पूज रहा है, कोई बच्चों को पूज रहा है, कोई धनको पूज रहा है। तो कोई पंडित चतुर जिसका निकट संसार हो उसको वह पूज रहा है। पूजा बिना कोई नहीं रहता। जिसके हृदयमें जिसका अधिक समय तक निवास हो वह उसको ही पूजता है।

हितकारिणी पूजाका निर्णय— भैया ! अब यह निर्णय कर लो कि किसको पूजनेमें भलाई है, इस आत्माको कौन शांति दे सकता है ? यह उपयोग अपनी श्रद्धामें है, इससे चूककर बाहर फिरकर किसी परपदार्थका आश्रय करें वह तो भटका हुआ लिया दिया रीता उपयोग है उसमें शांति प्रकट होनेका माझ नहीं है। किसी भी परवस्तुको यदि हम अपने उपयोग में रखते हैं तो उससे नियमसे अशांति उत्पन्न होगी। कोई न कोई प्रकार की आकुलता आ जायेगी। भगवानकी भक्ति लाभ देती है ठीक है मगर बिना कुछ आकुलताके हम प्रभुकी भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। खैर ! पूर्ण शांतिकी अवस्थापर दृष्टि रहती है तो हमें प्रभुभक्तिसे बहुत लाभ मिलता है। जो जितना गंदा हो, मलिन हो, विध्यकषाओंके बोभसे लदा हो उसे प्रभुभक्ति बड़ा लाभ देती है। कितने संकट दूर हो जायें, कितने पाप दूर हो जायें तो आकुलता समाप्त हो जाती है यह प्रभुभक्तिमें गुण है।

शुभरागमें भी क्षोभका स्थान— भैया ! फिर भी उपयोग चूँकि अपने स्वामीको छोड़े हुए हो और बाहरमें किसी शुद्ध तत्त्वका भी ध्यान कर रहा हो तो विकारोंका बहिर्गमन तो बराबर है। बहिर्गमनमें ही यह कला है कि आकुलता रहती है। किसीको शिखर जी जानेकी मनमें इच्छा हुई तो उस इच्छासे अंतःआकुलता हुई ना कि मुझे शिखर जी जाना है। यद्यपि और भी बहुतसे काम हैं जिनसे आकुलता होती है। यहां कुछ अच्छे ढंगकी आवश्यकता है सो बता रहे हैं। मन, वचन, कायका यत्न किसी न किसी आवश्यकता बिना नहीं होते हैं। कोई बुद्धपूर्वक मनका यत्न करे,

देहका यत्न करे तो वह क्षोभपूर्वक होता है, लेकिन मलिन क्षोभको मिटाने के लिए कोई शुभ क्षोभ हो तो उस क्षोभको भला समझना ।

अल्प आकुलतामें स्वस्थताका व्यवहार— जैसे किसीके १०५ डिग्री बुखार चढ़ा हो और उतरकर ९९ डिग्री रह जाए तो कहता है कि अब मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अरे ! अच्छा कहां है ? वह तो १०५ डिग्री बुखारके सामने कम है। सो अपने स्वास्थ्यको अच्छा मानता है। यदि विषयकषायोंमें गया हुआ उपयोग है तो वह तो बहुत अस्वस्थताकी बात है और प्रभु या गुरु या चर्चामें लगा हुआ जो उपयोग है, वह क्या स्वस्थताकी बात नहीं है ? है, किंतु परमार्थसे स्वस्थता परमार्थ प्रभु या गुरुमें उपयोग जाए वह है ।

भयका मूल तृष्णा— इस जीवने अपने आपमें इस लोकका भय लगा लिया है, यह सब तृष्णाका परिणाम है। तृष्णा जगे बिना भय नहीं हो सकता। भय होता है तो समझो कि किसी न किसी प्रकारकी तृष्णा है, इस कारणसे भय होता है। इस लोकभयसे यह मनुष्य कितना प्रस्त है ? इतना तो भय पशु पक्षियोंमें भी नहीं है। पशु पक्षी निर्भय होकर यत्र-तत्र विचरते रहते हैं, उनके साथ बखेड़ा कुछ भी नहीं रहता है। परमार्थसे ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर वर्तमान देखकर कह रहे हैं कि मनुष्यके संगमें इतना बखेड़ा लगा है कि स्वतंत्रतासे किसी जगह भ्रमण नहीं कर सकता। किसी भी समय यह मनुष्य अपनेको अकेला नहीं अनुभव कर सकता। कितना बोझ यह मनुष्य लादे है ? पैसेका बोझ है, बैंकमें हिसाब रखे हैं, दूकान करे हैं, उस पैसेकी रक्षाका बोझ लदा है, रिश्तेदारोंका बोझ है, कोई रिश्तेदार नाराज हो गया तो उसे खुश किया, उनका सम्मान किया, यह मनुष्य कितना कितना बोझ लादे है, पर पशु पक्षियोंके कुछ भी बोझ नहीं लदा है ।

मनुष्यके भयकी विशेषता— भैया ! भयकी भी बात देखो कि पशु पक्षियोंको कोई भय नहीं। कोई लाठी लेकर मारनेको तैयार हो या मुक्का मारे तो पशु पक्षी डरते हैं, बरना वे न डरेंगे। पर इस मनुष्यको कितना डर लगा है ? सो उनकी क्या व्याख्या करें, सभी जानते हैं। यशमें फर्क पड़ जाए, किसी बातमें फर्क पड़ जाये, धनमें कमी आ जाये, इस प्रकारके कितनी तरहके भय इस मनुष्यमें लगे हैं। सो यह जीव अनेक भयोंसे दबा है। उन भयोंमेंसे एक भय इडलोकभय है ।

परलोकभयका विवरण— दूसरा भय परलोकभय है ।

प्रश्न— जो समझदार हैं, उन्हें ही भय लगा है परलोकका और

जो मानते ही नहीं, वे नास्तिक हैं। उन्हें काहेका परलोकभय ? उनके मनमें कल्पना ही नहीं होती कि हाय ! मैं मरकर क्या बनूंगा ?

उत्तर:— जब मरणका समय आता है तब सम्भव है कि किसीको ऐसा मालूम होता हो कि हाय मैं मरकर कहां जाऊं ? जो जिदगीभर परलोकको मना करता हो, प्रायः यह सम्भव है कि वह मनुष्य मरते समय परलोकके बारेमें कुछ न कुछ ख्याल करता हो और न रखता हो कुछ भी ख्याल तो भी वहां अधिक भय होता है अज्ञानके कारण। हम मर रहे हैं, अब क्या होगा ? अपने बारेमें कोई ख्याल, परलोक सम्बन्धी कोई ख्याल उस मनुष्यको मरते समय आ ही जाता है।

धर्मशून्य जीवन वालेका मरणकालमें शोक—जिन्होंने अपने जीवनमें धर्मकी साधना नहीं की, उन्हें मरते समय बहुत क्लेश होता है। यदि उजड़ ही रहे और मर गये तो इस तरहका क्लेश है कि हाय मेरा घर छूटा, परिवार छूटा, स्त्री पुत्र छूटे, बस नहीं चलता। आंखोंसे दिख रहा है कि ये छूटे जा रहे हैं, हम मर रहे हैं तो उजड़ हों तो उसके दुःख ही रहता है और कुछ समझदारी आयी तो यह दुःख रहता है कि हाय मैंने सारी जिदगी मान, माया-लोभमें बिताया, मैंने अपना कुछ भी हित नहीं किया। न प्रभुभक्ति की, न अपना ध्यान बनाया, सब तरहसे उसने अपने को बरबाद किया, यों उसके क्लेश हो गया। जिसने जीवनमें धर्म नहीं किया, उसको मरते समय क्लेश होता है।

कृपणताकी वेदना— भैया ! जिसने अपने जीवनमें कमाई भी खूब की, दान भी खूब किया, खूब धर्मसाधना भी की, सत्संग भी किया, सर्वप्रकारसे अपने यत्नभर धर्मसाधन में लगा, उदारतामें इसका जीवन व्यतीत हुआ मरण समयमें भी उसे शांति रहती है। ऐसे जीव जिसने न अपने लिये स्वाया अच्छी तरह, न कोई दान किया—ऐसे पुरुष मरते समय बहुत ही आकुलित होकर मरते हैं। कमसे कम जिसने भोग भोगा, अपने लिये खर्च किया, वह इतना तो सोचता है कि हमने कमाया है तो खर्च भी किया है, इससे कुछ संतोष होता है, किंतु उन कृपणोंको जो अपने लिये खा भी नहीं सकते और परके लिये दे भी नहीं सकते, उन सबकी स्थिति मरनेके समयमें बड़ी दयनीय होती है—ऐसा कृपण का दूसरा नाम क्या है ? कंजूस, सूम और मक्खीचूस।

कृपणकी प्रशंसा— कविने बताया है कि दुनियामें सबसे ऊंचा दानी पुरुष कंजूस होता है। कंजूसके बराबर दानी दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अन्य लोगोंको यह कंजूस पुरुष सारा का सारा धन मरणके

समय छोड़े आ रहा है जिसने कभी जरासा भी अंश दूसरोंको उसमेंसे नहीं दिया, अपने लिए खाया भी नहीं, उसे बिना हुए ही वह पूरा का पूरा धन चुकता, बिल्कुल कहो या कुलबिल कहो, मानो पूराका पूरा बिल जो बजट बना वह साराका सारा दूसरोंको दिये जाता है। तो उसके समान दाता कौन होगा, ऐसा एक कविने उसका मजाक उड़ाया है। कोई ऐसा पुरुष दानी नहीं कहला सकता है।

परलोकभय— तो इस मनुष्यको कितना भय लगा है, वह सब भय अज्ञानके और मोहके कारण है। कुछ समझदारी हुई तो उसे परलोकका भय लग जाता है। परलोकमें मेरी क्या दशा होगी? मुझे सुख, भोग-मिलेगे या नहीं, तिलेडा चं रुंढा मकान मिलेगा या नहीं, उसे परलोक-चिन्तना भी बहुत बड़ा क्लेश रहता है यह भी एक भय है, कोईसा भी भय हो इस जीवको क्लेश ही पहुँचना है।

अरक्षाभयसे रहितपना— अपने आपमें रक्षा न पा सकने वाले जीवोंको एक अरक्षाका भी भय लगा है। मेरी रक्षा कैसे हो? मुझपर इतने लोग खार खाये हुए हैं, इत्यादि कितने ही विकल्प करके यह मनुष्य भय बनाता है। उन सर्वभयोंसे रहित भगवान् आप्त है।

अशुक्तिभयसे रहितपना— भगवान् सर्वज्ञदेव सर्वदोषोंसे रहित हैं, उनमें भय नामका भी दोष नहीं है। भय ७ प्रकारके हैं जिनमें ३ प्रकार के भयोंका कल वरुण हुआ था, अब अशुक्तिभय बताते हैं। मेरी रक्षाका कोई साधन नहीं है, मेरे घर, गढ़के किवाड़ मजबूत नहीं है, सुरक्षाका साधन नहीं है, इस प्रकारका भय करना सो अशुक्तिभय है। यह भय प्रभु, अरहंतदेवके नहीं है।

मरणभयसे रहितपना— मरणभय भी आप्तदेवके नहीं है। इसके बाद कहते हैं आयुके क्षयका भय। आयुकर्मके क्षयका नाम निर्वाण भी है और मरण भी है। जिस आयु समाप्तिके बाद जीवन हो उसका तो नाम मरण है और जिस आयु समाप्तिके बाद जन्म न हो उसका नाम निर्वाण है। भगवान् अरहंत देवका फिर जन्म नहीं होता है, इस कारण वहां मरण भय कुछ नहीं है। इन भयोंका सम्बन्ध मोहनीयके साथ है, सो मोहनीय कर्म नहीं है इस कारण मरणभय नहीं है, आयुके क्षयका भय नहीं है। प्रथम तो आयुके क्षयका नाम निर्वाण है।

आत्मके वेदनाभयका अभाव— वेदनाभय भी आप्तके नहीं होता। जो आत्मा निर्दोष हो जाता है उसका शरीर परमौदारिक हो जाता है। जीवके परिणामोंका शरीरके मिलनेके साथ निमित्त-नैमित्तिक भाव भी है,

जिसका परिणाम निर्मल होता है उसे शरीर खोटा नहीं मिलता और जिसका परिणाम मलिन होता है उसका शरीर खोटा हुआ करता है। इसी आधार पर सामुद्रिक शास्त्र भी बना है, जिसके हाथ बड़े बैलौल हों, रेखाएँ भी पुण्यवान् जैसी हों, तो शरीरके अंग जिसके अच्छे होते हैं उनसे अनुमान होता कि पुण्यवान् है, धर्मात्मा है। तो परिणामोंका शरीरके साथ सम्बन्ध भी होता है। जिस आत्मामें एक भी दोष नहीं रहा, निर्दोष हो गया, वह आत्मा जिस शरीरमें विराज रहा हो वह शरीर खोटा नहीं रह सकता। मुनि अवस्थामें कोई चोट लग गयी हो, फोड़ा फुंसी हो गयी हो तो अरहंत होनेके बाद न चोट रहती है, न फोड़ा फुंसी रहती है। वहां तो निरोग साफ स्फटिकके समान स्वच्छ परमौदारिक शरीर हो जाता है।

प्रभुकी आकस्मिक भयरहितता— आप्तदोषके आकस्मिक भय भी नहीं है। आकस्मिक भय उसे कहते हैं कि आकस्मिक कोई आपत्ति आ गयी है और उस पर डर माने, शक्य बना रहे कि हाय क्या होगा, अचानक कोई आपत्ति न आ जाय। पर भगवान्के कोई आपत्ति नहीं है, इसका कारण यह है कि एक तो प्रभुकी तीन लोक, तीन कालके सब पदार्थ विज्ञात हैं। फिर उनके ज्ञानमें अकस्मात् कुछ भी न रहा। अकस्मात्की बात तो छद्मस्थ अवस्थामें होती है, जिसको कुछ पता नहीं है अपने उत्कृष्ट प्रभुका, फिर भयकी बात तो बहुत दूर है। ऐसे ७ प्रकारके भय भगवान्के नहीं होते।

भगवन्तकी त्रितक्षणता— भगवान् हमसे बड़े और बिलक्षण नहीं होते तो फिर पूजनेके लिये ही हम आप क्यों आते हैं? यदि भगवान्में भी रागद्वेष, मोह होते तो हममें और उनमें अन्तर ही क्या था? अपने घर के परिवारके लोगोंको कोई पूजता है क्या? भले ही रागमें आकर उस पूजनसे भी बहुत बढ़कर अनुराग करें, मगर पूजाकी जो विधि है—द्रव्य चढ़ाना, पूजन आदि करना इस तरहसे कोई मित्रोंकी या परिजनोंकी पूजा नहीं करता है। क्योंकि वे जानते हैं कि वे बड़े ही मलिन हमारी ही तरह आत्मा हैं, ऐसे ही मलिन हो गए तो हममें और उनमें विशेषता ही क्या रही? और प्रभुता भी क्या होगी? उनमें किसी भी प्रकारका भय नहीं रहा।

आप्तके रोषदोषका अभाव— रोष भी भगवान्में नहीं है। रोष कहते हैं क्रोधमें आए हुए आत्मके जो तीव्र परिणाम होता है उसको। क्रोध तो हल्के क्रोधका भी नाम है, मायने हल्का क्रोध और बड़ा क्रोध दोनोंका भी नाम रोष है। कहते हैं कि हमको तो बड़ा रोष आ गया। तो रोषकी

स्थिति क्रोधसे तीव्रताको लिए हुए होती है। भगवान् सर्वहृदयके रोष नामक दोष भी नहीं है।

प्रभुके रागदोषका अभाव— प्रभुके राग भी नहीं है। राग २ प्रकार के होते हैं—एक प्रशस्त राग और दूसरा अप्रशस्त राग। शुभ राग कहते हैं दान देना, शीलपालन करना, उपवास करना, गुरुजनोंकी वैयावृत्ति करना आदिक जो परिणाम हैं इनकी कहते हैं शुभ राग। जो राग ऐसा पवित्र होता है कि जिसके कारण विषयकषायोंके परिणाम नहीं जगते। शुभपरिणाम, अशुभपरिणामके दूर करने का उपाय है। जहां शुभपरिणाम विराज रहा वहां अशुभपरिणाम नहीं रहता। जिसके हृदयमें प्रभुकी भक्ति रहती है उसमें विषयकषायोंका परिणाम नहीं रह सकता। विषयकषायों का परिणाम होना इस जीव पर बहुत बड़ी आपत्ति है। गंदे परिणाम करनेसे कोई लाभ न मिलेगा। पापमय परिणाम वृत्तिसे रहना यह जीव पर बहुत बड़ी विपत्ति है। पर आज क्या अनादिसे चला ही आया है कि संसार हँस खेलकर खुशी मानकर उन विपत्तियोंमें जकड़ रहा है। इनके उपशमका उपाय है प्रशस्त राग। सो इन प्रशस्त रागोंमें प्रभु मौजूद नहीं है। उनके रागमल ही नहीं है।

अशुभरागका मुनि अवस्थासे ही अभाव—अशुभ राग कहते हैं स्त्री की कथा करना, अमुक स्त्री यों है, अमुक देशकी स्त्री यों हैं, राज कथा करना कि अमुक राज्य ऐसा है, वहां इस प्रकारका प्रबंध है, वहां ऐसी गड़बड़ी है। राजावोंका या आजकल मेम्बरोंका, मिनिस्टरोंका कथन करना ये सब अशुभ राग वाली बातें हैं। जो आत्माके अपने आपमें आनेका अक्सर न दे वे सब अशुभ राग हैं। चौर कथा—चोरी सम्बन्धी कथा करना अशुभ जगहसे अमुक चीज ले आओ, उसको इस तरहसे बचाकर ले आओ आदि कथनी करना, उनका उपाय जानना, उनमें दिल रखना, उनकी ही बात करना, ये सब चौर कथाएं हैं, अशुभ राग हैं। भोजन कथा—भोजनकी बर्बाद करना, अमुक चीज ऐसी अच्छी बनी है, यों बना कर इस चीजको खायें, इस तरहसे खाने पीनेकी चीजोंकी कथनी करना ये सब कषाय भावोंमें शामिल हैं। ये सब अप्रशस्त राग हैं। इनका अभाव तो मुनि अवस्थासे ही हो जाता है। प्रभुके तो किसी भी प्रकारका राग नहीं है।

अशुभरागमें प्रकट अशिवेकिता— इन विषयोंमें कुछ प्रीति करने की बातें तो दूर रहो मगर इनकी कथा भी नहीं करनी चाहिए और फिर जो बड़े पुरुष होते हैं वे बड़े संतोधी होते हैं। साधुजन, त्यागीजन इन कथाओं को कभी करते ही नहीं। और कथन करने लगें तो समझलो कि ये अशुभ

रागमें आ गए। किसीने कहा कि तुमने क्या खाया अजी हमने तो आज बहुत कुछ माल उड़या, ऐसी बातें बगराना ये सब अशुभ राग कहलाते हैं। ये सब बातें भक्त पुरुषोंमें, त्यागी पुरुषोंमें नहीं हैं। ये अशुभराग विशिष्ट त्यागी संत पुरुषोंके नहीं होते। इन विकथाबोंका पालन, विकथाबोंका स्वरूप या किसी प्रकारके घुल मिल करके परिणाम रहना, ये सभी बातें राग कहलाती हैं। प्रभु भगवान्के न शुभ राग है, न अशुभ राग है।

भगवान्के स्वरूपका अनुमान— भगवान्के स्वरूपका कुछ अनुमान करना है तो मूर्तिसे अनुमान हो जाता है। खूब भली प्रकारसे निगाहसे देखो प्रभुमुद्रासे सभी बातें अपने आपकी ओरसे कहनेमें आने लगती हैं। शान्तमुद्रा है, रागद्वेष नहीं है, कहीं जानेका काम नहीं है, अपने आपमें समाये जा रहे हैं, कहीं देखनेका काम नहीं है, ऐसी बातें उस मुद्रासे मिल जाती हैं तो भगवान् प्रभु शुभ और अशुभ सर्व प्रकार के रागोंसे रहित हैं।

प्रभुके मोहदोषका अभाव— प्रभु मोहसे दूर हैं। यद्यपि मोह अशुभ ही होता है। मोहमें शुभ अशुभका भेद नहीं है, पर ऐसा जान लें कि किन्हीं आत्मभावोंसे कोई सनेह विशेष किया उसका नाम मोह है तो ग्नि, आर्थिका ऋषि र्यात आदि ऐसे धर्मात्मा पुरुषोंमें वात्सल्य हो, प्रीति हो, उनसे सम्बन्ध हो तो यह है प्रशस्त मोह और बाकी जो परिजन हैं, धर्मशून्य हैं, दोस्त लोग हैं उनमें अनुराग करना, प्रीति बढ़ाना, यह सब अप्रशस्त मोह है। मोह सब अप्रशस्त होते हैं, प्रशस्त नहीं होते हैं, किन्तु लोकव्यवहार की अपेक्षा प्रशस्त और अप्रशस्त मोहमें भेद किया है। किसी भी प्रकारका मोह प्रभुके नहीं होता।

प्रभुके चिन्ता दोषका अभाव— चिन्ता भी प्रभुके नहीं है, चिन्तन कहो, चिन्ता कहो एक ही बात है। उस चिन्तनका खोटा रूप हुआ तो उसका नाम रख दिया है चिन्ता और समस्त चिन्ताबोंका नाम चिन्तन है। खोटा हो या सही हो, चिन्तन कहो या ध्यान कहो इसमें धर्म्य और शुक्लरूप जो ध्यान है यह, प्रशस्त चिन्तन है और आर्त व रौद्ररूप ध्यान अप्रशस्त चिन्तन है। इष्टका वियोग हो जाय तो उसके चिन्तनमें पड़ना यह आर्तध्यान है। अनिष्टको टालनेके लिए बड़ा चिन्तन बनाए रखना, विचार बनावा आर्तध्यान है और शरीरमें कोई वेदना हो गयी, रोग बढ़ जाय, उनका ख्याल करना ये सब आर्तध्यान हैं।

निदानके आर्तध्यानपना विषयशोर्गोंकी बाँझा बनी रहना भी आर्तध्यान है। इच्छासे पीड़ा हुआ करती है इसजिए निदानको आर्तध्यान में शामिल किया है। निदानको रौद्रध्यानमें नहीं लेना। कोई भोग आए,

उसकी इच्छा हुई तो इच्छाके समय मनुष्य कोई वीन हो जाता, चिंतित हो जाता और उदास हो जाता है सो निदान भी आतंघ्यान है।

रौद्रध्यान व हिंसानन्दमें रौद्रता—रौद्र ध्यान क्या है? पापमें आनन्द मानना, हिंसामें आनन्द मानना। हिंसा करते हुए खुश होना। आजकल तो जीवहिंसामें प्रायः मनुष्य रंच भी नहीं हिचकते। जिसका कुल पवित्र हो, धर्म हो ऐसे कुछ बिरले जीवोंको छोड़कर बाकी मनुष्योंको देखो तो जीव हिंसाका परिणामन होता है। जो मांसभक्षण करते हैं, उन्हें हिंसा करते हुए कहां संकोच हो सकता है? अपन लोग जरा धर्मात्मारोंके बीचमें अधिक रहते हैं सो ऐसा मालूम होता है कि हिंसा करने वाले और मांस खाने वाले कोई ज्यादा नहीं हैं, अगर गणनाका हिंसाब लगावो तो ९९ प्रतिशत बैठेंगे। कुछ देश तो ऐसे हैं कि शतप्रतिशत मांस खाते हैं हजारोंमें दो चार लोगोंने यदि न खाया तो वह आघा ही प्रतिशत तो कम रहा। हजारोंमें १०—५ लोग ही ऐसे हों तो हो गए ९९ प्रतिशत मांसाहारी तो आजकल तो मांसभक्षणमें लोग खुश हो रहे हैं, आनन्द मनानेकी योजनादि बनाना ये सब रौद्रध्यान है।

मृषावाद, चोरी व विषयसंरक्षणमें रौद्रता—खोटा बोलते हुए आनन्द मानें, झूठ बोलते हुए आनन्द मानें, झूठ बोलकर छ्वा दिया या झूठ बोलकर किसी को आपत्तिमें डाल दिया। दूसरा चेतन पदार्थ तड़फ रहा है, उसकी तड़फन देखकर खुश होते रहते हैं। चितन—चोरीमें आनन्द मानना, विषयोंके साधनों की रक्षामें आनन्द मानना, कुशील और परिग्रह इन दोनों पापोंमें आनन्द मानना, इसका नाम है रौद्रध्यान। परिग्रहानन्द कहो, विषयसंरक्षणानन्द कहो ये सब प्रभुके एक भी चितन नहीं है। न शुभ है और न अशुभ है।

प्रभुके जरा दोषका अभाव—प्रभुमें बुढ़ापा भी नहीं आता। अगर कोई बूढ़ा मुनि हो और प्रायः बूढ़े ही मुनि भगवान् बनाते हैं। तपस्या करें, बहुत तपस्याके बाद शुद्ध फल मिल जाय तब भगवान् बनें। यह कोई नियम नहीं कह रहे हैं, ८ वर्षका बच्चा भी अरहंत बन सकता है। तो बूढ़ा मुनि भी जब प्रभु बनता है तो फिर शरीरमें बुढ़ापा नहीं रहता है। उनका शरीर परमौपारिक शरीर हो जाता है युवावस्थासे सम्पन्न होता है। जैसे भी विचारो कि यदि यहां कोई बूढ़े भगवान् जा रहे हों, कमर टूटी हो, चल नहीं पाते हों, देखनेमें खराब लगते हों तो उनके प्रति किसी की कैसी-कैसी धारणा जगेंगी? भक्ति तो तब जगेंगी जब उनमें कोई चमत्कार बनेगा। भगवान्के पूर्ण निर्दोषता प्रकट हुई है, सो युवावस्थासे युवत सुन्दर

परमौदारिक शरीर होगा उनका। मुनि अवस्थामें कोई रोग हो, दूट पूट गया हो कोई अंग मुनि अवस्थामें ही ऐसी कोई भी रोग नहीं रहता। वहा शरीरमें किसी भी प्रकारका विकार नहीं रहता है। वहां तो जरा भी नहीं है।

जराका विवरण— जरा किसे कहते हैं ? तिर्यच और मनुष्यकी अवस्था बदनेके कारण जो देहमें विकार हो जाता है, उसका नाम बुढ़ापा है। यह बुढ़ापा तिर्यच और मनुष्योंको ही हुआ करता है। नारकियोंको बुढ़ापा नहीं आता और देवोंको भी बुढ़ापा नहीं आता। तिर्यचोंको कहते हैं ना कि यह घोड़ा बुढ़ा हो गया, देखते ही हैं और मनुष्योंको बुढ़ापा तो सबको विस ही रहा है। यह जरा नामका दोष भी प्रभु अरहंत भगवान्में नहीं होता है।

प्रभुके रोगदोषका अभाव— इसी प्रकार प्रभुमें रोग भी नहीं है। वात, पित्त, कफकी विषमता हो जानेसे जो शरीरमें विशेष पीड़ा होती है, उसका नाम रोग है। सब रोग वात, पित्त, कफकी विषमताके आधार पर हैं। ये रोग भी परमौदारिक शरीरमें नहीं हैं और प्रभुमें भी नहीं होते हैं।

प्रभुके मृत्युदोषका अभाव— मृत्यु भी भगवान्के नहीं है। यह जो पर्याय है, अत्यन्त असार है, मूर्तिक है, इन्द्रियरूप है, विजातीय है अर्थात् चेतन और अचेतनके सम्बन्धसे उत्पन्न हुई है— ऐसी ये मनुष्यादिक जो व्यञ्जन पर्यायें हैं, देह पर्याय जीवसंगमसे वियुक्त हुए ना, इसका ही नाम मृत्यु है। यह दोष भी प्रभुमें नहीं होता।

प्रभुके स्वेददोषका अभाव— इसी तरह पसीना भी भगवान्में नहीं है। अशुभकर्मके उदयसे जो शरीरमें परिश्रम उत्पन्न होता है, उस परिश्रम से उत्पन्न हुआ जो अपवित्र गंध देने वाला, ऐसी खोटी वासना वाला जो जलबिंदुका समूह है, उसका नाम है पसीना। पसीना सभीको आता है। सो अपना अपना सब जानते हैं। क्या कोई अच्छी चीज है पसीना ? अपना ही पसीना किसीको नहीं सुहाता तो दूसरेका पसीना किसीको सुहाता है क्या ? तो इस शरीरके श्रम होने पर पसीना अशुभ कर्मके उदय से हुआ करता है। भगवान्के इस परमौदारिक शरीरमें पसीना नामक दोष भी नहीं है।

प्रभुके खेददोषका अभाव— खेद नामक दोष भी प्रभुमें नहीं है। अनिष्ट चीजके लाभका नाम खेद है। जो अपनेको इष्ट नहीं है और अपने पीछे पड़ गई, उस वस्तुमें खेद होता है।

प्रभुके मदनामक दोषका अभाव— प्रभुके किसी भी प्रकारका मद नहीं है। मद हुआ करता है तब जब चतुराई आए, कविता बनाना आये, सब मनुष्यके कानोंको खुश कर सके ऐसा कोई राग हो, भाषण हो, उत्तम शरीर मिला हो, उत्तम कुल मिला हो, बल मिला हो, ऐश्वर्य प्रभुता मिली हो उससे जो अहंकार उत्पन्न होता है या अहंकारको उत्पन्न करने वाला जो परिणाम है, उस परिणामको मद कहते हैं। देखो ना, इस संसारमें प्रायः सभीके मद पाया जा रहा है। किसीके कम किसीके ज्यादा, पर घमंड बिना यहां कोई जीव नहीं मिलता है। पशु भी घमंड बगराते हैं। एक पशुको दूसरा पशु मिल जाय तो बड़ी ऐंठ करते हैं। एक बैलकी अकड़नको देखकर दूसरा पशु भी अकड़ने लगे तो वहीं लड़ाई होने लगती है। बच्चोंमें भी अहंकार है, मद है। किसी बच्चेको गोदमें लिए हुए खड़े हों, खिला पिला रहे हों फिर भी किसी बातकी इठ करले तो गोदीसे ही कूदने लगता है और रोने लगता है क्योंकि उसे मालूम है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। या उसे गोदीसे उतार दो रोता है, वह अपमान समझता है कि मुझे नीचे उतार दिया है, बहुतसे भिखारी लोगोंको देखा होगा वे भी अपनी गोष्ठीमें कितने घमंडकी बातें करते हैं ?

तो चतुराई, बल ऐश्वर्य आदिककी महत्ता मानना इन सब बातोंमें अहंकार पैदा होता है। अहंकार उसे होता है जो बीचकी स्थितिका है। सर्वज्ञको अहंकार नहीं होता। या यों समझ लीजिए कि अधिक बुद्धि वाले को भी अहंकार नहीं होता, यह नियमतः नहीं कह रहे हैं, व्यवहारसे कह रहे हैं। अहंकार वहां ही पैदा होता है जहां कुछ जानने लगे। कुछ समझने लगे किन्तु यथार्थ स्पष्ट न जाने तो प्रभु सर्वज्ञ तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थोंको एक साथ जानने वाले हैं। उनके ज्ञानमें कुछ भी शेष नहीं रहा। उन्हें अहंकार किस बातपर आए ? तो प्रभुके मद नामका भी दोष नहीं है।

प्रभुके रतिनामक दोषका अभाव— प्रभुके रति भी नहीं है, इष्ट वस्तुओंसे परम प्रीतिके उत्पन्न होनेको रति कहते हैं। प्रभु सर्वज्ञके कुछ भी इष्ट या अनिष्ट नहीं है। इस तरह इस गाथामें समस्त दोषोंसे रहित प्रभुका वर्णन चल रहा है।

प्रभुके विस्मयनामक दोषका अभाव— भगवान्‌के कोई विस्मय नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य तब हुआ करता है जब अपने समता भावसे च्युत हो जाएँ और बाहरमें कहीं अपूर्व पदार्थ दीखे तो उससे आश्चर्य होने लगता है। पर भगवान् तो परम समताररूपसे पूर्ण हैं।

वहां रागद्वेषका कोई कार्य ही नहीं है और साथ ही उन्हें कोई चीज अपूर्व नहीं दिखती। जो करोड़ों स्तरबों वर्ष बाद बात होगी, परिणामन होगा वह उन्हें अभीसे ही ज्ञात है। तो आश्चर्य किस बातका होगा ? आश्चर्य होता है अज्ञानी पुरुषको। ज्ञानी पुरुष भी कोई आश्चर्यमें नहीं पड़ता। भले ही कदाचित् थोड़ी भ्रनक आए पर उनके आश्चर्य यों किसी बात पर नहीं होता कि वे जानते हैं कि वस्तुका परिणामन इसी तरह हुआ करता है।

विस्मय करनेकी व्यर्थता— भैया ! कौनसी बात ऐसी है जो ज्ञानी के लिए आश्चर्यके लायक हो ? मान लो बड़े धनका नुकसान हो गया या कुटुम्बका बड़ा नुकसान हो गया अथवा कुटुम्बके सब लोग गुजर गए, खाली बही एक रह गया तिस पर भी उसे आश्चर्य नहीं होता। वह तो जानता है कि ये सांसारिक विपत्तियां आश्चर्य चीजें नहीं हैं। रोज-रोज जीव मरते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है, बल्कि आश्चर्य तो इस बातका है कि जो जिन्दा बने हुए हैं, मरनेका तो जहां चाहे ठिकाना रहा करता है। गर्भमें मर जाय, पैदा होते ही मर जाय, छोटी कुमार अवस्थामें मर जाय, रोगसे मरे, दंगोंसे मरे, गुण्डोंकी पीड़ासे मरे, आगमें जलकर मरे, कदाचित् छतसे ही गिरकर मर जाय, मरनेके तो जहां चाहे अनेक आश्रय हैं, उसका क्या आश्चर्य ?

धनकी कमीमें विस्मय करनेकी व्यर्थता— इसी प्रकार धनके नुकसानका भी क्या आश्चर्य ? यह लक्ष्मी जब आती है तब पता ही नहीं पड़ता, जब जहां आनी होती है आ जाती है, पता नहीं पड़ता। व्यर्थ ही यह मनुष्य कल्पना करके लक्ष्मीकी वृष्णा करता है। उस वृष्णासे क्या लाभ है ? इस वृष्णाका फल तो आकुलता ही है। जिसका जितना उदय है उतना ही प्राप्त होता है। उदयसे अधिक किसीको भी नहीं प्राप्त होता है और त्याग करे, उदारता करे तो समझो कि उदयके अनुकूल उसका भरावा हो ही जाता है। उसका क्या आश्चर्य है ? क्या आया, क्या गया, क्या रहा, बड़ासे बड़ा लौकिक नुकसान अधानक हो जाता है। किन्तु ज्ञानीको उस पर भी आश्चर्य नहीं होता।

पहिले से अज्ञानकारीमें विस्मयकी संभवतः— प्रभु जो विश्वके समस्त पदार्थोंको उनके अनन्त परिणामनों सहित यथावत् जानते हैं उनको आश्चर्य क्या ? आश्चर्य तो वहां होता है जहां पूर्व-बात ज्ञात न हो व अधानक जानें। जैसे किसी घरमें कोई बीमार हो, टी० वी० हो गई हो, तीन सालसे बीमारी चल रही हो और साल भरसे तो ऐसा लग रहा था कि यह तो दो ही दिनका मेहमान है। ऐसा तीन सालका रोगी, जिसको दो

वर्ष पहिलेसे ही यह जान रहे थे कि यह मरेगा जल्दी ही और वह मर भी जाय जो उस पर आश्चर्य होता है क्या घर वालोंको ? आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि पहिलेसे ही जान रहे थे। और किसीकी अचानक ही चलते-चलते मृत्यु हो जाय, हाटफैल हो जाय तो उसपर आश्चर्य होता है क्योंकि पहिलेसे जानाबुझा न था, अचानक जाननेमें आया इसलिए आश्चर्य होता है। भगवान् सर्वज्ञदेवको अचानक कोई कुछ जाननेमें आए, ऐसा है ही नहीं। जो है वह सब जाननेमें पहले आता है।

छद्मस्थ सम्यग्दृष्टिके भी अज्ञानकारीका अभाव— भैया ! भगवान्की बात तो बड़ी है ही, पर सम्यग्दृष्टि पुरुष भी सब बातें पहिलेसे जान रहे हैं। भले ही विवरण सहित नहीं जान रहे हैं पर जान तो रहे हैं कि सर्वपर्यायों विनाशिक हैं, जितनी भी प्रयोजनमूलक बातें हों सब जान लिया। अब उसमें कोई यह कहे कि घसीटेमलके १० रुपये भी उसने जाने क्या कि जो कि उसकी जेबसे निकल जायेंगे ? अरे घसीटे-वसीटेको नहीं जाना, पर यह तो जाना कि संसार ऐसा होता है, पर्याय ऐसे मिटती हैं, भिन्न वस्तु यों विविक्त होती हैं। ये सब जान गया ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव और सर्वज्ञदेवका ज्ञान पूर्ण है। फर्क इतना है कि सर्वज्ञदेव तो प्रत्येक पर्यायों सहित स्पष्ट जानते हैं और यह ज्ञानी जीव कानून द्वारा सब जान लेता है।

आत्महितके प्रयोजनकी बात— प्रयोजनकी बात इतनी ही तो है कि पुद्गल-पुद्गल हैं, उनका परिणामन उनमें है। जीव जीव हैं, जीवके परिणामन जीवमें ही है। पुद्गलसे जीवका हित व अहित नहीं। जीवसे पुद्गलका सुधार व बिगाड़ नहीं। इतना जान लिया तो सब जान लिया। चाहे यहाँका पुद्गल हो, चाहे अमेरिकाका पुद्गल हो, ज्ञानसे सब जान लिया। चाहे किसी जगह पुद्गल पड़ा हो, सामान्यतया यह तो जान लिया कि वह अजीव पदार्थ है। इसी तरह सारे विश्वको जान लिया। अब उसे भी आश्चर्य क्या ? जिसे विदित है कि सिनेमाबॉमें व्यर्थकी चीजें दिखाई जाती हैं—रूप रंग, मोह, आसक्ति, प्रेम ये बातें दिखाई जाती हैं उसे सिनेमासे अरुचि है और उससे कोई कहे कि चलो जी आज सिनेमा चलें, आजका खेल बहुत बढ़िया है तो वह कहता है कि हमने सब देख लिया, अरे तो कहाँ देखा है, यह तो खेल अभी आया है। तो वह कहता है कि हमने तो सब देख लिया। फिर कहा कि अरे यह तो अभी फल ही भिण्डमें आया है, इसे कहाँ तुमने देखा है ? तो वह कहता है कि बस हम सब देख चुके हैं। उसमें किसी पुरुषोंकी सूरतें होंगी, स्त्रियोंकी सूरतें होंगी

स्त्रियोंकी सूरतें होंगी, वे परस्परमें बातलाप कर रहे होंगे, यह सब मैंने देख लिया। तो यों ही उस ज्ञानी जीवने विश्वके समस्त द्रव्योंको जान लिया।

केवल ज्ञानत्वमें कुशलता— भैया ! जो जानने तक ही रहता है वह तो समृद्धिमें है और जो कुछ रागमें पड़ा है सो ही गिरपतार होता है। यह सारा संसार अजायबघर है। अजायबघरमें दर्शकोंको सिर्फ देखनेकी इजाजत होती है छूनेकी इजाजत नहीं होती है। अगर कोई छूवेगा तो वह गिरपतार हो जायेगा। इसी तरह इस विश्वमें हम आप सब को केवल देखने तक की इजाजत है। यदि रागद्वेष करेंगे तो गिरपतार हो जायेंगे। हम आप गिरपतार होते हैं तो स्वयं ही खुशी-खुशीसे गिरपतार होते हैं। हम आपकी गिरपतारी कोई दूसरा नहीं करवा रहा है। जैसे कोई अपराधी विकट फंसाव जानकर खुद ही कचेहरीमें हाजिर हो जाय कि मैं ही अपराधी हूं। कचेहरी जानते हो किसे कहते हैं? कच मायने बाल, जहां बाल साफ कर दिये जायें उसका नाम है कचेहरी। बाल न रहने दिये जायें मायने पैसे का सफाया करा दिया जाय। बाल साफ हो जाने के मायने हैं कि पैसा साफ हो जाता है। तो इसी तरह ये संसारके जीव खुशी-खुशी गिरपतार हो रहे हैं। किसीसे राग किया, लो गिरपतार हो गए, बंधनमें आ गए, अपराधी हो गए, सेवा करना होगा, अब उसके लिए वही मात्र एक प्रसु बन गया और कहीं दृष्टि ही नहीं रही। कितना बंधनमें आ गया। केवल जानने देखनेकी इजाजत है, राग करने की इजाजत नहीं है। जो भगवान्के आर्क्षका उल्लंघन करेगा उसे गिरपतार होना होगा।

ज्ञानीकी दृष्टिमें आकस्मिक घटनाका अभाव— जो बात अपूर्व ज्ञात होती है वह विस्मयकी बात हुआ करती है। ज्ञानीको तो कुछ भी अपूर्व नहीं लगता है। ज्ञानीपुरुष कहते हैं कि जो हो सो ही भला। क्यों जी कल रंक हो जायें तो क्या यह भी भला? तुम्हारा तो तुम तुम्हारे ही पास है। उसे तो कोई छीन नहीं सकता। और पहिले भी जब बड़े वैभवका मेल था तब भी अपना ही काम करते थे, परबस्तुका कुछ भी काम न करते थे। अब भी हम अपना ही काम करते हैं। सब भला ही तो है। और क्यों जी नरक जाना पड़े तो यह भी भला है? हां यह भी भला है। जो खोटे कार्य कमाये थे, पाप कमाये थे उनका निस्तार तो वहां हो जायेगा। तो सर्वत्र ज्ञानी जीव देखता है कि ये सब न्यायके काम हो रहे हैं। अन्याय कहीं नहीं होता है? किसी भी वस्तुमें अन्याय नहीं है। जो जैसा करता है वैसा

भरता है।

जो होता है उसकी युक्तता— एक राजा और मंत्री जंगलमें शिकार खेलने गये सो परस्परमें बातें भी करते जायें। सो मंत्री तो शिकारकी रुचि वाला न था, पर राजाके संगमें जाना पड़ा। मंत्रीकी ऐसी आवृत्त थी कि हर बातमें वह यही कहे कि बड़ा ही अच्छा हुआ। सो राजाने वहां पूछा कि मंत्री तुम यह बतलावो कि हमारे हाथमें छः अंगुली हैं, लोग हमको छंगा छंगा बोलते हैं तो यह कैसा हुआ? सो मंत्री बोला कि बड़ा अच्छा हुआ। राजाको गुस्सा आया कि एक तो मैं छंगा हूं, अच्छा नहीं माना जाता और यह कहता कि अच्छा हुआ। सो मंत्रीको कुर्वेमें ढवेल दिया। अब वह राजा आगे बढ़ गया, सो दूसरे देशमें हो रहा था नरमेघ यज्ञ। जहां एक अच्छे सुन्दर मनुष्यकी बलि देनेकी जरूरत थी। सो वहांसे चार पंखा छूटे। सो राजा सुन्दर तो था ही, उसे पकड़कर ले गए। जब होमने को १० मिनट बाकी थे तब एक पंखा उसके पास आया। उस पंखेको एक हाथमें ६ अंगुलियां दिख गयीं। बोला अरे-अरे यह तो छंगा पुरुष है इसको होमकर यज्ञ क्यों खराब करते हो? सो दो चार थप्पड़ मार कर राजा को वहांसे भगा दिया। राजा खुश होकर चला आ रहा था। यह सोचता हुआ कि मंत्री ठीक ही कहता था कि जो हुआ है सो भला। अगर मैं छंगा न होता तो आज अग्निमें होम दिया जाता। तो खुश होता हुआ वह कुर्वेके पास आया मंत्रीको निकाला। सारा किस्सा कह सुनाया। कहा कि मंत्री तुम ठीक कहते थे कि छंगा हो तो ठीक है। यदि मैं छंगा न होता तो यों फंस गया था। पर मंत्री! यह तो बतावो कि तुम्हें जो कुर्वेमें ढवेल दिया। सो कैसा हुआ? मंत्री कहता है कि यह भी भला हुआ। राजाने पूछा कैसे? तो मंत्री ने कहा कि महाराज यदि मैं कुर्वेमें न गिर गया होता तो तुम्हारे संगमें मैं भी पकड़ा जाता, आप तो बच जाते छंगा होनेकी वजह से और मैं ही आगमें होम दिया जाता।

अन्तर भला तो सब भला— भैया! किस बातको बुरा देखते हो। सभी जगह भला ही भला है। जो होता है सो भला है। वस्तु है, वस्तुका परिणामन है। परिणामन कहां रुक जायेगा वह तो होगा ही, जैसा हो तैसा हो। क्या आश्चर्य करना? असलमें पूछो तो जैनधर्मकी अगर भक्ति है तो एक निर्णय यह करलो कि काम तो इतना ही करना है। एक आजीविका चलाना और एक आत्माका उद्धार करना। इसके अलावा कोई तीसरा भी काम करनेको है क्या? कल्याणकी, सुखकी, शांतिकी कोई तीसरी भी बात है क्या? जब दो बातें हैं तो आजीविकाका कर्तव्य तो

यों निभावो कि आजीविका करते हुएमें जितनी प्राप्ति होती है उसके ही विभाग बना लो कि इतना खर्च करना है, इतना दानके लिए निकालना है, इतना किसी अवसरके लिए संचय रखना है, उसका हिसाब बना लें और उस बजटमें जो बांटमें पड़ता हो उसमें गुजारा करें अन्यथा कुछ कर ही नहीं सकते। न वर्तमानमें सुख मिलेगा और न उद्धारका काम होगा। अब रही यह बात कि हम थोड़ेमें कैसे गुजारा करेंगे तो औरोंके उदाहरण ले लो—बहुतसे लोग ऐसे हैं जो थोड़ेमें ही गुजारा करते हैं। अजी उनकी चल जाती होगी। हमारी तो समाजमें पोजीशन है, बड़ी धाक है। अरे तो समाजके लोग देशके लोग जो संसारके मुसाफिर हैं, मायामय हैं, तुम से अत्यन्त भिन्न हैं उनमें तुम अपनी पोजीशन मान रहे हो, यह तो अपराध कर रहे हो और यह जब अपराध कर रहे हो तो दुःखी होना प्राकृतिक बात है।

नामकी चाहका महापराध— भैया ! तुम जितना आज चाहते हो उतना भी मिल जाय तो भी सुख नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तुमने एक जबरदस्त अपराध किया है उस अपराधका दण्ड तो जीवन भर मिलेगा। क्या अपराध किया है ? यह अपराध किया है कि असार मायामय इस जगतमें भ्रम करके अपना नाम रखने का भाव बना रहे हो, यह महान् अपराध करते हुए तुम शांतिकी आशा रखते हो। तो शांति मिल जाय यह कभी नहीं हो सकता है। भगवान्का हुक्म मानते जाओ तो अशांतिकी शंका नहीं है। भगवान्का हुक्म है कि तुम सब पदार्थोंका प्रयोजनभूत परिचय प्राप्त करो। दूसरा हुक्म यह है कि तुम गृहस्थावस्थामें हो तो अपना कर्तव्य निभावो। दुकान करते हो तो दुकान पर जाओ। समय पर वहाँ बैठो, उद्यमका काम करलो, कोई सर्विसका काम है तो सर्विस का काम ईमानदारीसे करलो। जो जो भी आपके आजीविकाके कार्य हों उन्हें ईमानदारीसे डटकर करतो। अब उसमें ही जो कुछ आय हो उसके विभाग बनालो और अपना गुजारा करो। पैसेकी ओर दृष्टि नहीं लगाना है, क्योंकि वह तो आने जाने वाली चीज है, रहने वाली चीज नहीं है। आखिर मरते समय तो छोड़ना ही पड़ेगा।

व्यामोहका रंग— एक भैया हमसे कह रहे थे कि ये मोही जीव जिन्दामें तां कुछ छोड़ नहीं पाते। जिन्दामें तो घर नहीं छोड़ सकते। हां जिसका घर छूट जाय वह बात अलग है। कैसे घर छूट गया कि कोई कमायी नहीं रही या घरके लोग गुजर गए, अल्ले ले रह गए, तो वह घरका छूटना नहीं कहलाता। जिन्दामें तो कोई घर छोड़ना ही नहीं चाहता।

और मरने पर भी कोई घर छोड़ देता है क्या ? मरने पर तो घरमें जमकर पड़ रहता है, फिर तो जरासा भी नहीं हिलता। जिन्दामें तो घर छोड़ कर भिन्डसे चले भी जाते हैं पर मरने पर घर नहीं छोड़ा जाता है सो अकड़कर पड़ जाते हैं। तब घर वाले लोग उसे बांधकर जबरदस्ती मरघट में ढालकर फूँक आते हैं। यह एक उनकी अलंकारकी बात कही जा रही है। ज्ञानी जीवको किस बात पर आश्चर्य है ? है क्या उसके आश्चर्य करनेके लायक कोई चीज ? कुछ भी नहीं है। वह तो जानता है कि मेरा मैं हूँ और जो कुछ बीत रहा है उस पर भी संभ्रम उसकी बनी रहती है। उसे किसी बात पर आश्चर्य नहीं है और जो बाहरमें भीत रही है उस पर भी उसे कुछ आपत्ति नहीं है। प्रभुमें विस्मय नामका भी दोष नहीं है।

प्रभुके जन्मनामक दोषका अभाव— प्रभुके जन्म नामका भी दोष नहीं है। यह जीव नरक तिर्यञ्च मनुष्य और देव इन चारों गतियोंमें जन्म ले लेकर इस विश्वमें भटक रहा है। इन गतियोंमें जन्म क्यों होता है, किन परिणामोंसे होता है, कैसे होता है ? इस बातको आचार्योंने स्पष्ट बताया है तीव्र अशुभ परिणाम हो तो नरक गतिमें जन्म हो, शुभ परिणाम हो तो देवगतिमें जन्म हो, मायारूप परिणाम हो तो तिर्यञ्चगतिमें जन्म हो और मिलाजुला शुभ अशुभ परिणाम हो तो मनुष्यगतिमें जन्म हो। और खुलासा सुन लो।

नरकगतिमें जन्म लेनेका उपाय— बड़ा आरम्भ परिग्रह हो, जिसे कि लोग कहते हैं बिजी है बहुत और ऐसा शब्द कहनेमें वे महत्त्व भी समझते हैं—अजी मैं बहुत बिजी हूँ। बहुत बिजी हूँ कहो या आरम्भमें लगा हूँ कहो, एक ही बात है। जो बहुत आरम्भ व परिग्रहमें रत है उसको नरक आयुका आश्रव होता है, नरकमें जाना पड़ता है। काम सब ढंगसे चल रहा है पर एक मिल और खुल जाय, और दसों जगह काम करलें, तो बहुत आरंभपरिग्रहवाला ऐसा व्यक्ति नरकमें ही जायेगा।

न्यायार्जित वैभवके दानका महत्त्व— कोई यह सोचे कि बहुत धन अगर जोड़ लेंगे तो बहुत दान करेंगे। तो उससे नाम हीगा तो कितना ही दान कर लिया जाय पर विश्वमें नाम हो ही नहीं सकता। यह तो मूठ बात है कि विश्वभरमें नाम हीगा। हां किसी गांवमें नाम हो गया पर सारे विश्वमें नाम नहीं होता। और मरने के बाद यहांके नाम लेने वाले क्या मदद कर देंगे ? यह दानकी बात तो तब है कि न्यायसे काम कर रहे हैं, पुण्यका उष्य फूट रहा है, तो क्या करना है ? आवश्यकतासे अधिक आ रहा हो, न्यायसे रहता हो तो इसको परोपकारमें लगावो, दान करो, पर-

सेवा करो। तो इस धन का कुछ सदुपयोग भी हुआ। और धनका सदुपयोग यह नहीं है कि अनेक प्रकारकी माया, अन्याय भाव करके धन इस लिए जोड़ा कि हम खूब दान करेंगे तो हमारा नाम होगा।

सचयके पापकी दानसे शुद्धि— दान तो पापोंका प्रायश्चित्त है। इसके माथने कोई यह न समझ ले कि हम कंजूस हैं, दान नहीं देते तो हमकी बड़ा अच्छा कह दिया कि दान है पापका प्रायश्चित्त। हम तो पाप नहीं कर रहे; फिर हमें दान देनेकी क्या जरूरत? अरे सभी पाप कर रहे हैं। अर्पणी स्वभावदृष्टिसे चिगना और परकी ओर लगना यह पाप है कि नहीं अथवा धनसंचयके अनेक जरिये बनाना, हिसाब लिखना और-और बातें ये सब पाप हैं कि नहीं? पाप हैं। अपने स्वरूपसे चिगकर बाहरमें लगें तो वहां पाप ही है। पाप हमारा कैसे छूटे? इसका उपाय है दान, त्याग। तो कर्तव्य यह है कि हम न्यायपूर्वक आजीविका करें और वहां जो प्राप्त हो उसमें ही भोगके, दानके, सचयके हिस्से बनाएँ और उसके माफिक अपने कार्योंको करें। शेष समय हानार्जनमें, तत्त्वचिंतनमें, धर्ममें, परसेवामें व्यतीत करें। और बचनालाप करें तो ऐसा करें कि जिससे दूसरोंका हित हो और सबको प्रिय लगे। यही है भगवानका हुक्म। इसे मानोगे तो सुख रहेगा और इसे न मानोगे तो क्लेश ही रहेंगे।

बचनालापकी शुद्धि जीवनसुखका प्रधान कारण— भैया! जीवनको सुखी करनेके लिए यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा बचनालाप विशुद्ध हो। लोग व्यर्थ ही अयोग्य बचनालाप करते हैं तो उससे दुखी होना पड़ता है। दूसरोंकी दृष्टिसे भी वह मनुष्य गिर जाता है जिसका बचनालाप विशुद्ध न हो वह स्वयं भी आपत्तियोंमें पड़ जाता है। यह मन मिला है, इससे ही अगर सबका भला सोच लें तो हानि ही क्या है? हमें अगर किसीसे कष्ट पहुंचता हो और हम चुपके-चुपके जान रहे हों कि इसने हमें कष्ट पहुंचाया तो आपकी दृष्टिसे वह कष्ट देने वाली पुरुष गिर गया। जहां आपने अपने भावोंको प्रदर्शित कर दिया कि मैं तो इतना स्वच्छ हूँ, दुष्ट का धोया बैठा हूँ और मुझे असुकने ऐसा कष्ट दिया, यह बात जब चार लोगोंको मालूम पड़ जाती है तब इसके मनमें उससे प्रतिक्रिया करनेका संकल्प हो जाता है। असुकने कष्ट दिया ऐसा हम ही जान रहे हैं, दूसरे नहीं जान रहे हैं, चलो क्या बिगाड़ हुआ? अपना मन अपने पास है, थोड़े समयको तो अपना शुद्ध विचार बनाकर अज्ञानजन्य दुःखको दूर करलो, शान्तिमें आ जाओ और जिसके निमित्तसे आज कष्ट हुआ है उससे भला बोल लो। बुरा मत बोलो। उसका विचार बदल जायेगा। फिर

तुम्हारे कष्ट करनेका निमित्त भी न बनेगा। गुप्तचुप अपने आपमें शुद्ध विचार बनाकर विवेकका काम कर लो। वचनात्ताप हमारा विशुद्ध हो तो कहीं भी आपत्ति नहीं है।

विपरीतवृत्तियोंमें माध्यस्थ्यभाव— अब रही अपनी बात कि जहां दूसरे लोग विपरीत हों उनसे न राग करो न द्वेष करो, उनसे समता कर लो। बड़े आदमी अब भी ऐसे हैं और पुराने होते थे कि रास्तेमें चले जा रहे हैं, किसी गुन्डेने अपमानभरी बात बाल दिया तो सेठ जी इस ढंगसे चले जायेंगे कि मानो दुर्घचन कहने वाले की बातको उन्होंने सुना ही नहीं। ऐसे-ऐसे विवेकी पुरुष होते थे। यदि किसीके द्वारा अपने को कष्ट पहुंचे तो उसका प्रथम उपाय है कि यह प्रदर्शित न करो कि मुझमें अमुकके द्वारा यह कष्ट पहुंचा। यह उससे बचनेके उपायका सबसे पहला उपाय है और उसके बाद थोड़ी देरमें अपनेमें ज्ञान जगाओ कि यह तो दुनिया है, अज्ञानी जन्त हैं, कषाय भरे प्राणी हैं, उनका ऐसा ही परिणामन होता है। उन वैचारिकोंका क्या दोष है? कर्मके प्रेरे हैं अपनेमें, बुरे भाव न लाएं और अपने दुःखको अपने ज्ञानजलसे धो डालें। जहां तक हो सके प्रिय वचन बोल लो, आगे फिर कोई आपत्ति न रहेगी। अपना लोटा छान लें, अपने को क्या करना है? ऐसा निर्णय करके न्यायनीतिसे रहें इसमें भलाई है। ज्ञान करो और ज्ञानप्रकाश बढ़ाकर अपना कल्याण करो।

चारों गतियों, जन्मके कारणोंका संक्षेपमें वर्णन— केवल अशुभ कर्म ही कोई करे याने बहुत आरम्भ करे, बहुत मूर्खी रखे और खूब लेश्याके परिणाम रखे ऐसे परिणामोंसे नरकगतिमें जन्म होता है और शुभ परिणाम ही केवल हो, दान, पूजा, शील, उपवास हो तो इस शुभ परिणाम के निमित्तसे ऐसे पुण्यका बंध होता है जिसके विपाकमें देवगतिमें जन्म होता है। मायाचारका परिणाम रखे, छल, कपट, धोखा करे तो तिर्यकच-गतिमें उसका जन्म होता है, और मध्यम परिणाम रहे, कुछ शुभ हो, कुछ अशुभ हो तो उन परिणामोंके फलमें मनुष्यगतिमें जन्म होता है। ये चारों गतियोंके जन्म हेतु हैं। ये दोष प्रसु अरहंत देवमें नहीं होते, परमात्मामें नहीं होते।

प्रसुके निद्रानामक दोषका अभाव— एक निद्राका दोष है। निद्रा ऐसी अवस्था है कि जहां बेहोश हो जाते हैं। यह नींद भी दोष है। जागृत दशाकी अपेक्षा निद्रामें पापकर्मका बंध अधिक होता है और रातकी अपेक्षा दिनमें नींद ले तो उसमें विशेष बंध कहा है। तो यह निद्रा नामक दोष भी परमात्मामें नहीं है।

प्रभुके उद्वेग नामक दोषका अभाव— उद्वेग इष्टका विद्योग हो जाय तब विकलव प्राप्त होता है उसे उद्वेग कहते हैं। सभी जानते हैं, इष्ट चीज न मिले तो उसको कितना उद्वेग हो जाता है। अन्याय करके, चोरी डकैनी करके जो चीज मिल सकती है ऐसी कल्पनाकी बात आ जाय और फिर न मिले तो उसमें भी बड़ा विकलव होता है ? और न्यायसे किसी भी प्रकार जो इष्ट मिल सकता है, जिसमें इष्टपनेकी कल्पना करली गयी, वह न मिले तो उद्वेग होता है। सबसे अधिक विपत्ति जीव पर इच्छाकी ही तो है और कोई विपत्ति ही नहीं है। इच्छा ही उससे ऐसा प्रसंग उसे अनिष्ट लगता है जहां इच्छाका विघात होता है और दुखी होता है। विश्वमें खूब निगाह डाल लो।

तृष्णासे वर्तमान समागरुके आरामका भी उच्छेद— इच्छा और तृष्णाके होने से उन करोड़ों पुरुषों पर दृष्टि नहीं पहुंचती कि जिनसे हम अच्छे हैं, किन्तु जिनसे होड़ लगते हैं ऐसे बड़ों पर दृष्टि होती है। कोई लाखपति आदमी है। एक हजारका टोटा पड़ जाय तो ९९ हजार अभी उसके पास हैं मगर वह दुःखी रहता है। उसकी उस एक हजार पर ही दृष्टि है। वह ९९ हजारका सुख भी नहीं भोग सकता है। और कोई पुरुष जो रोज मजदूरी करता है, खोमचा लगाता है, उसका किसी तरह एक हजार रुपया जुड़ जाय तो वह सुख मानता है। और जिसके ९९ हजार रखे हैं वह दुःखी है। जो पासमें है उसका भी सुख वह नहीं भोग सकता। यह हाल है इच्छा और तृष्णाके सम्बन्धसे।

इष्टविद्योग होनेपर कल्पनाकी दौड़में विडम्बना— इष्टका विद्योग होने पर जो विकलवता होती है उसे उद्वेग कहते हैं। कभी लाख दो लाख का जब टोटा पड़ जाना है तो सेठ जी कोमल गधे पर पड़े-पड़े करवटें बदलते हैं, चैन नहीं पड़ती है। डाक्टर आते हैं, नाड़ी देखते हैं, इन्जेक्शन लगाते हैं पर वह कैसे ठीक हों? उनके तो हजार दो हजारके टोटेकी बीमारी लग गयी है। कैसे भिटे उस समयकी विकलवता। यदि वह विकलवता दूर हो जाय तो अभी बीमारी भिट जाय। ज्ञानदर्शक यदि जगे कि क्या है ? यह एक अकेला ही तो था। अकेला ही रहेगा। इसका संसार में यही मात्र है। इसका वैभव यही मात्र है। इस सुभको तो इस लोकमें कोई पहिचानने वाला भी नहीं है। किसको क्या दिखाना है ? किसें क्या करना है ? ज्ञान जगे और समझें कि दुर्लभ नरकाय मिली है तो एक आश्चर्यदर्शनके लिए मिली है और बातें बेकार हैं। आता है, जाता है, रहा तो क्या, न रहा तो क्या ? तब कहीं शांति मिल सकेगी।

कल्पित हानि लाभमें कल्पित हर्षविषाद— घरमें ५०-१०० तोला सोना रखा है, पहिननेके गहने हैं, उन्हें कभी बेचना नहीं है, पहिननेकी चीजें हैं पर भावमें घटावदी हो जाय तो अपनेको गरीब या धनी मानने लगते हैं। कहीं १५० का भाव हो गया तो खुश हो रहे हैं और यदि भाव गिरकर ९०-१०० में रह गया तो दुःखी हो रहे हैं, हाथ में तो लुट गया। लो बेचैन हो रहे हैं। अरे उसमें क्या कम हो गया या क्या बढ़ गया, उसे तो कभी बेचना नहीं है, पहिननेकी चीजें हैं। तो ऐसे जो विक्लव भाव होते हैं उसे उद्वेग कहते हैं। इन सर्वदोषोंसे प्रभुका आत्मा अलग हो गया है, इन समस्त दोषोंसे मुक्त यह वीतराग सञ्ज्ञ है।

दोष और ऐंठकी दोस्ती— अब देखो भैया ! ऐसे दोषोंसे अपन भरे हुए हैं और ऐंठ बगरा रहे हैं सारी दुनियाकी। तनिक-तनिक सी बातोंमें लड़ाई हो जाय, अभिमानसे भरे हुए दुनिया भरकी ऐंठ बगरा रहे हैं। हम आप सभी दोषोंसे भरे हुए हैं। कोई एक दोष हो तो उसके दूर करने का यत्न करें। सर्वत्र-दोष ही दोष भरे हैं। दोषोंका ही संसार है। यहाँ किस बातका अभिमान करना ? किस पर पक्ष, किसका विरोध, किस पर अन्याय ? जरा ज्ञानदृष्टि जगाओ, सर्व जीव एक स्वरूप हैं। जैसे धर्मके नाम पर झोल लें तो यह है सामायिक आदिकमें कि एकेन्द्रिय जीव क्षमा करें, दो इन्द्रिय जीव क्षमा करें, सब जीव क्षमा करें, किसीको भी मुँहसे बाधा न हो— इस तरहका समताका पाठ पढ़ गए कि सब जीव एक समान हैं, पर इतनी भी गम न स्वार्येगे कि चलो जितने जो भी धर्मको पालने वाले हैं वे सब तो एक समान हैं। जो धर्मको मानते हैं उन सबमें तो कोई अस्तर नहीं है। वे धर्मके नाते से तो सब एक ही हैं। सो एक बात नहीं अनेक बातें भरी पड़ी हैं जिससे सन्मार्ग नहीं मिल पाता। जब धर्मको धारण करें, पालन करें उस समय अपनेको ऐसा बनाना चाहिए कि मेरे लिए सर्व जीव एक स्वरूप हैं।

प्रभुदर्शनमें रागको छोटकी वाधा— भैया ! तिलकी छोट पहाड़ ढकता है। तिल छोटा होता है और पहाड़ बड़ा होता है पर आंखके आगे तिलकी छोट आ जाय तो सारा पहाड़ ढक जाता है। इसी तरह किसी भी प्रकार का राग हो तो उस रागसे यह परमात्मा ढक जाता है। दृष्टिमें न आयेगा। कोई कहे कि हमने तो सब राग छोड़ दिये, सिर्फ स्त्री भरका राग है या एक पुत्रका राग है, और कोई राग नहीं है। तो वहाँ यह हिस्सा नहीं बैठता कि सर्वजीवोंका राग नहीं है तो थोड़ा रम्यज्ञान तो हो जाने दो। एकका राग रह गया, एक ही जीवमें तो उसकी विपरीत श्रद्धा है

बाकी जीवोंको पर मानता है सो ऐसा नहीं होता है कि तिलकी ओट पहाड़ न ढके ।

प्रगतिमें दयाका महत्त्व— धर्म तो वहां होता है जहां दया होती है । स्व दया और पर दया । स्वदया निश्चयरूप है, परदया व्यवहाररूप है । परदयाकी परदयामें भी निश्चयधर्मका सम्बन्ध है, और निश्चयधर्मके रहते हुए परदयाकी योग्यता है । सम्बन्ध है इसलिए अपना जीवन, अपनी दयारूप भी बने परकी दया रूप भी बने ये सब करनेकी बातें हैं । अपने आपको थोड़ा कष्ट हो इसको स्वीकार करलें, परजीवोंके लिए हम कुछ काम आएंगे, उनको शांति संतोषसे मार्गके लिए कुछ काम आएँ—ऐसी भावना रखनी चाहिए । कारण यह है कि हम आपकी विजय केवल भावों से है, परिणामोंसे है । जैसे पशु पक्षी ये सब आपकेले विचरते हैं । इसी तरह हम आप भी अपने आपमें केवल आपकेले विचरते हैं । यहां भी आपकेले हैं और कोई नहीं है । तब उत्कर्षके लिए उन्नतिके लिए अपने आपके भावों की सावधानी होना यही एक खास उपयोग है । यह तो है एक धर्मका प्रायोगिकरूप, जिसके प्रसादसे हम मार्गमें अपनी प्रगति कर सकते हैं और जिसका प्रारम्भ भी यहींसे होता है । क्याहीन पुरुष व्रत भी करें, तपस्या भी करें तो भी उनकी सौटी ही गति होती है ।

निर्दय हृदयमें व्रतका अप्रवेश— छुवाकूत बहुत करलें, अपने सारे दाइमोंको निभानेकी बड़ी फिकर रखें पर दूसरे धर्मात्माका भी करुणा न रखें । हमने तो एक घटना सुनी है कि एक साधु महाराज बीमार हो गए, उनको कै होने लगी, विकल्प होने लगा, और संगमें रहने वाले जो ब्रह्मचारी थे वे उनको न छुवें । तो एक गृहस्थने आकर सब सेवा की और पूछा कि ब्रह्मचारी जी तुम तो इनके साथ रहते हो, कमसे कम पीठमें, सिर में हाथ फेर देते, तो वे कहते हैं कि हमारे सामायिक का टाइम हो रहा था, यदि छू लेते तो फिर सामायिक करनेके लिए स्नान करना पड़ता । तो माई सामायिकका टाइम निभा लो ठीक है पर जहां चित्तमें दयाभाव नहीं है, कठोरता बढ़ती जा रही है वहां सामायिक विराजेगी कहां ? और सामायिक यह नहीं देखती है कि त्यागी जी सिरसे पैर तक अच्छे धोये बैठे हैं, देवतासे बैठे जायें तो वहां सामायिक आक्षर विराजेगी, ऐसा नहीं है ।

निर्मोह उपयोगमें धर्मका आवास— एक बुन्देलखण्डका किस्सा है कि एक स्त्रीके बच्चा हुआ और बच्चा होते ही स्त्रीकी तबियत बहुत खराब हो गयी । सो दो ही दिनके बाद वह मरणहार हो गयी । सो पाँच षाया

और स्त्रीके समीप खड़ा होकर जरासा रोने लगा। तो स्त्री कहती है कि अरे तुम काहे को रोते हो। हमारे मरने के बाद तुम्हारी और शादी हो जायेगी। रोवें तो ये जो दो तीन बच्चे हैं वे रोवें, पता नहीं इनका अब क्या हाल होगा ? उसे अनुराग विशेष हुआ तो प्रतिज्ञा भी कि अच्छा हम नियम लेते हैं कि दूसरी शादी न करेंगे। स्त्री बोली कि यहाँ तो हम हैं तुम हो और भगवान् हैं, और कोई तो साक्षी नहीं है। तुम्हारी प्रतिज्ञा अखिग है ना। पुरुष बोला कि अखिग है अब तुम क्या चाहती हो, जो चाहो सो हम करनेको तैयार हैं। तो स्त्री बोली कि अब तो यही इच्छा है कि यहाँसे तुम चले जाओ, मैं समाधिपूर्वक मरण करूँगी। हमारे सामने न आना। वह पुरुष चला गया। उस स्त्रीने समाधिपूर्वक मरण किया। बच्चा पैदा होनेके २ दिन बाद तक बाह्यमें कुछ पवित्रता नहीं रहती होगी, मगर उसी हालतमें वह ध्यान लगाकर बैठ गयी, मनमें एभोकार मंत्रका जाप किया, अन्य जगजालको त्याग दिया और प्राण छोड़ दिया। कोई कहे कि समाधिमरण कैसे हुआ, चार पांच दिन हो जायें बच्चा पैदा होने के तब समाधिमरण हो। अरे तो क्या समाधिमरण यह देखता है कि अभी चार पांच दिन हो जायें दें। वह तो अपने अन्तरंगमें पवित्रता लाकर अपने आत्मामें समा जानेकी बात है। पर जो कर्तव्य है वह तो अपने अवसरमें किया ही जाना चाहिए।

दयाशून्य जीवन अवनतिका स्रोत— जिसका हृदय दयासे शून्य है वह बड़ा व्रत करे, तप करे, संयम करे पर यदि परसेवाका भाव नहीं बन सकता, अपने ही मतलबकी फिकरमें रहे जाय अपने-अपने आरामकी धुनि लगी हो; हमारे ख्यालसे वह तो त्यागी नहीं, व्रती नहीं, संयमी नहीं। हां कोई मंदकषायी हो कि अपनी भी परवाह न हो, अपनी भी गरज न रहे, ऐसी हालतमें परसेवा न रहे तो दोष नहीं। पर जहां सुदगर्जीका पूरा शोभाम रहता हो, विषयसाधनका अपने खानपान का और परके सम्बन्धमें दया न आती हो, सेवा न की जा सकती हो तो समझना चाहिए कि अभी योग्यता इसकी उचित नहीं हुई। यह बात दूसरी है कि नहीं है कषाय इस योग्य तो जिस योग्य हो उस योग्य बर्ताव करे। पर कोई धर्मकार्य सामने आए, कोई धार्मिकपुरुष हो, उसकी सेवा न करवे बेशक अपनी दुनमें मानी हुई बातोंमें लगे रहें तो उसमें अन्तरमें प्रगति नहीं है।

स्वदयाका सुफल— स्वदयाके बिना तो धर्ममें प्रारम्भ ही नहीं है। अपने आपके सहजस्वरूपका जब तक परिचय नहीं है तो शांति कहाँ पावोगे ? किसमें लेना है शांति, किसको देना है शांति ? उसका ही पता

न रहे और चित्लाते रहें शांति शांति तो वह शांति कहां विराजेगी ? जैसे किसीने किसी बच्चेको बहका दिया कि देख तेरा कान कौवा लिये जा रहा है, लो अब वह कौबेके पीछे दौड़ लगाये जा रहा है। अरे बच्चे तू कहां दौड़ा जा रहा है ? तो बच्चा कहता है कि बोलो नहीं। हमारा कान कौवा लिए जा रहा है। अरे पहिले अपने कान टटोल तो ले। कान टटोला तो देखा कि अरे कान तो यहीं है, कौवा नहीं लिए जा रहा है। इसी प्रकार शांतिके लिए लोग बाहर-बाहर दौड़ते भागते रहते हैं—यहां शांति मिलेगी, वहां शांति मिलेगी, तीर्थमें शांति मिलेगी, वंदनामें शांति मिलेगी, इस तरह से उस शांतिकी खोजमें बाहर-बाहर दौड़ते रहते हैं, कोई ज्ञानी पुरुष कहता है कि अरे सुनो तो सही शांति किसका नाम है और किसको देना है, उस स्थानको तो पहिले टटोल लो। शांति तो आत्माका सहजस्वरूप है।

तुच्छ लाभके मोहमें बड़ी निधिका अलाभ— भैया ! जिसे इस सहजस्वरूपका परिचय हुआ उसे शांतिका मार्ग शीघ्र मिल सकता है। तो क्या उद्यम करना होगा ? इन विषयवाक्यांशोंको दूर करना होगा। जैसे किसी करोड़पति सेठके नाबालिक लड़केकी जायदाद गवर्नमेन्टने कोर्ट आफ बोर्ड कर लिया है और उसके पंथजमें १००० रुपये महीना बांध दिया है। अब वह बालक सरकारके गुण गाता है। देखो कैसा घर बैठे सरकार १००० रुपये महीना देती है। जब वह बालक २० वर्षका हो गया तब सरकारको नोटिस दे देता है कि हमें तुमसे १००० रुपया मासिक न चाहियें। हमारी जो जायदाद कोर्ट आफ बोर्ड कर ली गई है उसे वापिस कर दिया जाय, क्योंकि अब हम बालिक हो गए हैं। और ऐसा न करे, १००० रुपये मासिकका ही आदर रखे तो उसको उसकी करोड़ोंकी जायदाद कहांसे मिले ?

विषयसुखके लोभमें सहजानन्दका अलाभ— इसी प्रकार इस अनन्त आनन्दकी निधि इन कर्मोंने (निमित्त दृष्टिसे) जप्त कर ली है और कर्मोंने विषय-सुखका प्रलोभन दे दिया है, जो स्वर्च है वह इन्द्रियोंके विषयसुखोंका है। सो विषय सुखका प्रलोभन मिला, तो यह नाबालिक मिथ्यादृष्टि कर्मके गुण गाता है, खूब साधन मिले हैं, खूब विषय भोग मिले हैं। और जिस दिन यह बालिक बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है सो पुण्यसरकारको नोटिस दे देता है कि हमें ये विषयोंके सुख न चाहियें। अब मैं बालिक हो गया हूं। मुझे तो मेरा ज्ञानानन्दस्वरूप चाहिए। वह यदि विषयसुखोंके प्रलोभनमें ही रह जाय तो अनन्त आनन्द फिर कैसे मिल सकता है ? सो इन विषयसुखोंकी दूर किया जायेगा तब अनन्त आनन्द प्राप्त होगा। इन्हीं

पुरुषार्थोंके बल से जो परमात्मा हुए हैं उनके अन्तरमें ये १८ प्रकारके दोष नहीं हैं ।

आप्तकी भक्ति छतझताकी प्रेरणा— जिसमें एक भी दोष न हो और ज्ञानानन्दस्वरूपका चरम विकास हुआ हो वही हमारा देव है । जिस आत्मामें दोष एक भी न रहा हो उसके ही गुणोंका चरम विकास होता है, वही हमारा देव है, उसकी ही मात्र भक्ति हो । आप्तने हमारा बड़ा उपकार किया । क्या ? हमें मालूम पड़ गया कि हमारा इष्ट स्वात्मगुणोपलब्धि है । यही सिद्ध है, यही निर्वाण है । ज्ञानानन्द स्वरूपका लक्ष्य ही हमारा इष्ट है और इस इष्टके प्राप्त करनेका उपाय है सम्यग्ज्ञान । और सम्यग्ज्ञान मिलता है अन्तःशास्त्रोंसे और इन सब शास्त्रोंकी उत्पत्ति होती है आप्त भगवान् से । इस कारण ये आप्त भगवान् मेरे परम उपकारी हैं । जो सज्जन होते हैं, साधु पुरुष होते हैं वे किए गये उपकारको कभी नहीं भूलते । मेरा महान् उपकार हुआ परमआप्तदेवकी कृपासे, इस कारण हे प्रभु ! तुम्हारे गुणोंकी भक्ति मेरे हृदयमें विराजे, जिसके प्रसादसे हम अपने धर्ममें आगे प्रगति कर सकते हैं ।

जिस आप्तकी श्रद्धासे सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उस आप्तके विवरण में अभी यह बताया गया है कि जिसमें १८ प्रकारके दोष नहीं होते हैं वे आप्तदेव हैं । ये भगवान् शत इन्द्रकर पूज्य हैं । जिनके ज्ञानका राज्य समस्त लोक अलोकमें फैला हुआ है, जिसके चार घातिया कर्म विनष्ट हो गए हैं, ऐसे ये आप्त भगवान् हम सबके उपकारके मूल कारण हैं । ऐसा आप्तदेवके सम्बन्धमें और विशेष बर्णन करने के लिए कहते हैं ।

गिरुसेसदोसरहिधो केवलयायाइपरमविभवजुदो ।

सो परमप्पा उच्चइ तन्निवरीओ गु परमप्पा ॥५॥

उत्कृष्ट व्यवहारशरण भगवद्भक्ति— जो समस्त दोषोंसे रहित है, जिनके समस्त चारघातिया कर्म दूर हुए, जो दोषरहित हैं वही हम दा आराध्य आप्तदेव हैं । अनादि प्रवाहसे मायामें बसे हुए हम आप लोगों को कोई शरण नहीं है । सो परमार्थकी बात तो ठीक ही है कि अपने ज्ञायकस्वरूपका आलम्बन शरण है । परन्तु जो इस स्वरूपमें स्थिर नहीं हो पाते या इस ज्ञायकस्वरूपकी पुनः पुनः दृष्टि होनेमें महीनोंका भी अन्तर आ जाता है । तो इस ज्ञायकस्वरूपके शरणमें जो नहीं ठहर पाते हैं उनकी बाह्यमें शरण क्या है सो तो बताओ । यही परमात्मदेव की भक्ति ही शरण है । यह हमारी ज्ञानानन्दस्वरूपकी उद्योति दबी हुई है । इसको उधाड़नेमें समर्थ परमात्मभक्ति है । मूल उपाय मूल बात जिसके बाद फिर

सब कज़ायें आती हैं और परमार्थ शरणकी बुद्धि होती है वह है मूल भगवद्भक्ति ।

निधिलाभके प्रसंगमें आनन्दका उद्रेक— जैसे किसीके घरमें जमीन के नीचे गड़ी हुई निधि हो और उसे पता न हो कि हमारे घरमें निधि गड़ी है तो वह अपनेको दीन हीन मानता है और दीनतासे अपना समय गुजारता है। यदि उसे किसी प्रकार विदित हो जाय, बहियोंमें लिखा हो या उसको कोई लोग पता दे दे, किसी भी प्रकार विदित हो जाय कि इस जगह पृथ्वीमें नीचे निधि गड़ी हुई है तो इतनी ही बात जानकर उसका हर्ष उछल आता है, अन्ध बन जाती है कि हम तो बड़े धनिक पुरुष हैं। निधि हमारे यहां पड़ी हुई है। परन्तु व्यवहारमें अभी दीनता दरिद्रता ही उसकी दिखती है पर अन्तरमें बल बढ़ जायेगा। यह जान लेनेसे कि इस जगह निधि गड़ी हुई है। अब वह कुदाड़ी लेकर जमीन खोदता है, जमीन खोदता है। जमीन खोदने पर उसे कुछ आसार नजर आते हैं तो उसे संतोष होता है और उसकी निधि जब मिल जाती है तब अपने में विचित्र परिवर्तन करता है और अनुपम गौरव अनुभव करता है।

भगवद्भक्तिके प्रतापसे आत्मनिधिकी समृद्धि— इसी प्रकार यह आत्मव्योति इन भावकर्मों, द्रव्यकर्मों कर्मपटलोसे तिरौहित पड़ी हुई है, इस अज्ञानीको पता नहीं है सो अपनी दीनता और दरिद्रताका गुजारा करता है। परवस्तुओंकी ओर आकर्षित होकर सुख मानना यह दरिद्रताका गुजारा नहीं है तो क्या है? क्या कोई ऐश्वर्यकी बात है? ऐसी दीनता और दरिद्रताका गुजारा करने वाला यह अज्ञानी यदि किसी प्रकार जान जाय कि मेरे स्वरूपमें ही अनुपम ज्ञान और आनन्द दबा हुआ है। शास्त्रों में बहियोंमें लिखा हुआ मिल गया या किन्हीं पुरुषोंने बता दिया कि अमुक आत्ममहलके अन्दर यह ज्ञानानन्दकी अपूर्व निधि पड़ी हुई, थोड़ा विश्वास हो जाय तो इसे बहुत हर्ष उत्पन्न होता है क्योंकि दीनता दरिद्रताका भार अब उसके उपयोगसे हटता है और सर्व प्रथम ही प्रभुभक्तिरूपी कुवालीसे और उसीसे ही सम्बन्धित अपनी प्रतीति द्वारा उस भाव कर्मकी पटलको दूर करते हैं, ये रागादिक मेरे नहीं हैं। मैं इन रागादिकोंमें तन्मय नहीं हो सकता। ये मुझे बरबाद करने के लिए आये हैं। मेरी प्रभुताके ये विभाव वैरी हैं। उनमें तन्मय न होऊँ, और इस ज्ञान वैराग्यसे सनी हुई प्रभुभक्ति रूप कुवालीके द्वारा सुवार्धके प्रतापसे इस अरहद् भक्तिके प्रतापसे यह भाव कर्म ये आवृत्ति जब दूर होती है तब ज्ञानानन्द निधिका आसार मिलता है, इससे शांति होती है और विशेषकर उत्साहके साथ व्योतिको और निकाल

लेने के लिए अन्तःप्रयत्न करते हैं। जब यह ज्ञानानन्द ज्योति अनुभवमें आती है तब आनन्दका ठिकाना नहीं रहता।

मूढ़तावश खुशी-खुशी विपद्गर्तमें पतन— हे प्रभु! परपदाओंकी ओर आकर्षण मेरा मत हो। जैसे जो चीज अपनेको हितकी जंचती है तो उदार पुरुष यही कहते हैं कि यह चीज सबको ही प्राप्त हो, कोई मेरा बैरी हो उसे भी प्राप्त हो। अर्थात् परम अभीष्ट वस्तुसे कोई बञ्चित न रहे। परदृष्टि करनेके बराबर, अज्ञान के बराबर कोई बैरी नहीं, कोई पाप नहीं। जैसे एक विवाहका दोहा बना रखा है कि—“तुलसी गाय बजायके देत काठमें पांव। फूले-फूले वे फिरें होत हमारो व्याव।” यह व्यवहार की बात है। यहां यह बात लगावो कि इन विषयसुखोंको पाकर, इस पुण्यके वैभवको पाकर ये अज्ञानी जीव फूले फूले फिर रहे हैं, मैं बड़ा महान् हूं, मेरेको इतना वैभव मिला है, मेरी लोगोंमें इतनी इज्जत है। अरे क्या फूले फूले फिरते हो, तुम हंस हंसकर विपत्तियोंके गडढोंमें, पापों के गडढोंमें, जन्ममरणके चक्कर लगाते रहनेकी आपत्तियोंमें खुश होकर जा रहे हो। यहां कुछ शरण नहीं है। एक भी कोई जीव आपके लिए शरण नहीं है। आपको शरण आपके ज्ञानका विधिवत् ठिकाने बना रहना वस यही एक शरण है।

व्यवहारशरणत्रय— भैया! आपने ज्ञानके ठिकानेकी स्थिति जब नहीं मिलती है तो हम किसकी छायामें जायें? तो वे छाया आपको तीन ही हैं शरणभूत। एक देव जिसका कि प्रकरण चल ही रहा है, दूसरा शास्त्र— ये भी धोखा न देंगे, ये सन्मार्ग ही बतायेंगे, और तीसरा गुरु। जो तत्त्वके जानने वाले हैं और प्राणियोंके हितका भाव रखते हों उन्हें गुरु कहते हैं।

भगवान् व आप्त तथा साधु व गुरुका विश्लेषण— जैसे भगवान् और आप्त एक ही बात है, फिर भी भगवान्के कहनेमें वह बात नहीं भूलकती जो आप्तके कहनेमें हमारे उपकारसे सम्बन्ध रखने वाली बात भूलकती है, अर्थात् जो हितोपदेशी हो, वीतराग हो, सर्वज्ञ हो वह है आप्त और जैसे वीतराग हो, सर्वज्ञ हो वह है भगवान्। सब भगवान् हितोपदेशी हुआ करते हों यह बात नहीं है। भगवान् हैं, आदर्श हैं, पर हमारे उपकारका तांता आप्तसे शुरू होता है। यद्यपि आप्त भी भगवान् हैं, भगवान् भी भगवान् हैं फिर भी उपकारका सम्बन्ध आप्तके नाते से है, भगवान्के नातेसे नहीं, आप्तपनेके नातेसे है। इसी तरह गुरुमें और मुनिमें भी भेद नहीं है। सब मुनि गुरु नहीं होते। यद्यपि गुरु भी वही, मुनि भी वही लेकिन जिसके

प्रसंगमें रहकर, जिसकी आनमें रहकर, जिसकी वैयाधृत्तिमें रहकर अपने कल्याणका उद्धारका मार्ग प.ये उसे कहते हैं गुरु, और जो विषयोंकी आशा से रहित हैं, ज्ञान, ध्यान, तपस्यामें जो लवलीन हैं वह मुनि साधु हैं ही। वह भी गुरु है मगर गुरुताका नाता हमारे उन मुनियोंसे होता है जिन मुनियोंके संगसे, स्मरणके सम्बन्धसे हमें हितकी प्रेरणा मिलती है। तो हम जब किसी संकटमें आ जायें तो कहां भागें? भगवान् आप्तकी स्मृतिमें, स्वाध्यायमें, सत्शास्त्रोंकी सेवामें और गुरुओंके सत्संगमें।

कार्यपरमात्मा आदि का निर्देश— उनमें से यह आप्तदेवका वर्णन चल रहा है। प्रभु आप्त समस्त दोषोंके ध्वंस होने से दोषरहित हैं। ये १८ प्रकारके जो दोष कहे गये हैं उन महादोषोंको खण्डित करनेसे वे दोष निमुक्त हैं और ये देव केवलज्ञानादिक परम वैभवसे युक्त हैं, कैसे हैं ये केवलज्ञानादिक वैभव कि समस्त लोकोंका जाननहार निर्मल केवलज्ञान, निर्मल केवल दर्शन और परमवीतरागस्वरूप आनन्दादिक अनेक वैभवोंसे समृद्ध हैं, ऐसा प्रभु कार्य परमात्मा है।

कार्यपरमात्मा होनेका साधन— कैसे हुआ है वह कार्यपरमात्मा? निज कारणपरमात्माकी निरन्तर भावनासे वह कार्यपरमात्मा हुआ। अपने स्वभावकी निरन्तर दृष्टि और भावना रहे तो यह पुरुष कार्यपरमात्मा हो सकता है। जैसी जो भावना करता है उसको वैसी ही प्राप्ति होती है।

भावनानुसार कार्य होनेका एक लोकदृष्टान्त— एक पथिक था। गर्मीके दिनोंमें नंगे पैर बिना छतरीके बेचारा गरीब जा रहा था। धूपके संतापसे तप्त होकर वह विचार करता है कि मुझे कोई छायावाला वृक्ष मिल जाय तो बड़ा अच्छा हो। रास्तेके निकट एक छायावान् वृक्ष मिला और वृक्षके नीचे पहुंच गया। मानों वह वृक्ष था कल्पवृक्ष। पर उस पथिक को इसका पता न था। उस वृक्षके नीचे पहुंचा तो सोचता है कि छाया तो अच्छी मिल गयी, पर थोड़ी हवा चल जाती तो बड़ा आनन्द आ जाता। सोचते ही हवा चलने लगी। फिर सोचता है कि हवा तो अच्छी मिली पर थोड़ा पानी भी मिल जाता, प्यास बुझा लेते तो अच्छा होता। ऐसा सोचते ही सामने पानीसे भरा लोटा आ गया। फिर सोचा कि पानी तो आ गया, पर कुछ खानेको होता तो अच्छा होता। भोजनसे सजी सजायी थाली भी उसके सामने आ गयी। अब वह सोचता है कि यह क्या मामला है कि जो चाहो, सभी चीजें हाजिर हो जाती हैं। कहीं यहां भूत तो नहीं है। तो भूतका ख्याल कर लेने से भूत आ गया। फिर सोचता है कि यह

भूत कहीं मुझे खा न जाये, सो वह उसे खा भी गया याने जान भी ले ली। जो सोचा वही हुआ। दृष्टांतमें केवल यह जानना है कि जैसे वह कल्पवृक्षके नीचे बैठा हुआ पुरुष जो सोचता था वही होता था; इस ही प्रकार चैतन्यस्वरूपमें तन्मय यह पुरुष अथवा चेतनाको लिए हुए यह आत्मपदार्थ जैसी दृष्टि बनाता है वैसी ही बात प्राप्त करता है।

आत्मभावनानुसार आत्मपरिग्रह— जो अपनेको इस संसारमें नानापर्यायों रूप अनुभव करता है वह इसी तरहका बनता चला जाता है और जो अपनेको केवल देख रहा है तो क्या उसका कैवल्य प्रकट न होगा ? होगा। केवलज्ञान कहो, कैवल्य कहो, बिलकुल अकेला रह जाना कही इस ही का नाम निर्वाण है। किसीके घरमें सब आदमियोंका वियोग हो जाय तो यह कहते हैं कि हाथ में अकेला रह गया। अरे भाई तुम अकेले रह गए होते तो तीनों लोक तुम्हारे चरणोंमें मुक जाते। अभी तो अकेले कहाँ हो ? इन अनन्त शरीर स्कंधोंका बोझ लदा है, अनन्त कार्माण वर्गणाथों का बोझ लदा है और अनन्त अनुभाग सहित असंख्यात प्रकारके इन भाव कर्मों का बोझ लदा है। अभी तो तेरे पास इनना कुटुम्ब पड़ा है और तू कहता है कि हाथ में तो अकेला रह गया।

केवलकी पूजा— भैया ! अकेला जो हो जाता है उसकी मूर्ति भी पूजा जाती है। अकेला हो जाना यही, निर्वाण है, कैवल्य है। कैवल्य कैसे प्राप्त हो ? जब अपने को केवल देखना प्रारम्भ कर दें और केवलका ही आलम्बन लें तब तो कैवल्य प्राप्त होगा। उस कैवल्यकी टाँप भी न करें और कैवल्य रह जाय, यह कैसे हो सकता है ? असली भायनेमें जैन यह है कि जिस किसी भी परिस्थितिमें रहता हो उस ही परिस्थितिमें विरक्त रहे, जो कुछ भी उस पर गुजरता हो उसमें वह वियोग बुद्धि रखे। इतनी बात यदि हो सकती है तो हम जिनभक्त होनेका दावा कर सकते हैं। प्रभुकी भक्ति यह नहीं है कि प्रभुभक्तिके लिए शाम सुबह बड़ा जलसा मनायें, बाजे बजायें, बड़ी क्रियायें करें पर हृदयसे धन वैभव लक्ष्मीका बोझ नहीं उतरता और कुटुम्ब परिवारकी ममतामें अन्तर नहीं आता तो ऐसी स्थितिमें प्रभु के भक्त तो नहीं हुए। हृदयमें जो बसा हो उसके ही भक्त हैं।

अनुरागका परीक्षण— भैया ! सामने दो चीजें मुकाबलेतन आ जायें और उनमें से दोनों ही नष्ट होनेको हों तो एक छोड़कर दूसरेको बचायेंगे। तो जिसको छोड़कर जिसको ग्रहण किया उसका ही पूजा विल से लगी समझो। धन वैभवपर और अपने कुटुम्ब जनों पर इन दोनों पर कोई आक्रमण कर दे, विनाश करने पर उतारू हो जाय तो धन वैभवकी

उपेक्षा करके परिवार जनोंको आप बचाएँ तो धनकी उपेक्षा परिवारके लोगोंकी भक्ति ज्यादा हुई और परिजन और अपनी जान—इन दोनों पर कोई आक्रमण करनेका उद्यमी हो तब परिवारको छोड़कर अपनी ही जान बचानेका उद्यम करे तो अपनी जानकी भक्ति विशेष हुई ना, परिजनकी उपेक्षा। अभी यहांसे एक चूहा निकल भागे तो पासमें ही आपके दो तीन लड्डूके पड़े हों तो उनके ऊपर पैर रखकर आप बड़ी तेजीसे भागेंगे। चाहे लड्डूकेके ऊपर पैर पड़ जाय। जानकी प्रियता इतनी होती है और किसी समय जान पर और ज्ञान पर दोनों पर आक्रमण हो, जैसे ज्ञानिसंतोंके किसी स्थितिमें शेर ने आकर उपद्रव किया, दुश्मनने आकर आक्रमण किया तो उस स्थितिमें जानपर तो आक्रमण है ही, मगर किसी रूपसे ज्ञान पर भी आक्रमण है, क्योंकि वह घबड़ा जाने का अवसर है। ऐसी स्थिति में जानकी उपेक्षा करके ज्ञानकी कोई रक्षा कर सकता है तो समझ लो कि उसकी ज्ञानमें भक्ति है।

भक्तिकी कस— यहां कोई घर पर भी आक्रमण हो और धर्मायतन पर भी आक्रमण हो तो धर्मायतनकी उपेक्षा करके घर बचानेकी कोशिश करते हैं। तो यह धर्मायतनमें भक्ति हुई या घरमें भक्ति हुई? मुकाबले-तन दो चीजें रख लो, दोनोंका विनाश हो रहा हो। उनमें से जिस एकको बचानेकी कोशिश हो समझो कि भक्ति उसकी है। बस इस कसपर कसते जाइए कि तुममें प्रभुभक्ति विशेष है या घर परिवारमें या धनमें भक्ति विशेष है।

दृष्टिके अनुसार वृत्ति— भैया ! जैसी दृष्टि होती है वैसी ही वृत्ति बनेगी। कैवल्य पाने के लिए इस निज कैवल्यकी दृष्टि होना आवश्यक है। जो त्रिकाल निराधरण है निज ज्ञानानन्द स्वभावमात्र है, ऐसा जो निज कारण परमात्मत्व है उसकी भावनासे कार्यपरमात्मत्व प्रकट होता है। देखो स्वभाव यद्यपि व्यक्त नहीं है इस समय और विभाव परिणामन चल रहा है, फिर भी स्वभाव सदा निराधरण रहता है, आधरण होकर भी सदा निराधरण रहता है क्योंकि स्वभावमें भी आधरण हो जाय, स्वभावका भी कोई मोड़ बदल जाय तब फिर स्वभाव ही क्या रहा? स्वभाव तो एक शक्तिरूप है। अब शक्तिमें भी कोई बाधा आ जाय तो द्रव्य ही क्या रहा? ऐसे निज कारणपरमात्मस्वरूपकी भावनासे यह कार्यपरमात्मत्व प्रकट होता है। ऐसा यह भगवान् अरहंत परमेश्वर है।

सुदेवकी भक्ति व आज्ञाकारितामें शान्तिलाभ— भगवान् परमेश्वर के स्वरूपके विरुद्ध जितने परिणामन है उन करि सहित जो अन्य जीव हैं,

यदि वे देवत्वके अभिमानसे दग्ध हैं तो वे कुदेव शब्दसे व्यपदिष्ट होते हैं। वे संसारी जीव हैं। हम और आप भी रागी द्वेषी हैं किन्तु हम आपका नाम कुदेव नहीं है। यदि हम आप देवपनेको जाहिर करने लगें, प्रसिद्ध करने लगें और कुछ हों भी इस लायक शकलके दो चार ऐसे भक्त भी मिल जायें, जो हम आपको देव कहकर पुकारने लगें तो हम आपका भी नाम कुदेव बन जायेगा। जिनमें देवका स्वरूप तो दिखता नहीं और देवत्व को प्रसिद्ध करते हैं उन्हें कुदेव कहते हैं। वे संसारी ही तो हैं। उनकी ओर भक्ति न रखकर जो बीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं ऐसे आप्तकी भक्ति रखो और उनके बताए हुए मार्गपर चलकर शांतिलाभ लो।

निर्दोषताका शरीरपर प्रभाव— भगवान्‌के जब तक शरीर रहता है तब तक उनके शरीरकी स्थिति सर्वोत्कृष्ट होती है। अर्थात् न वहाँ कोई रोग है, न भूख है, न प्यास है और बहुत उत्कृष्ट कांतिमान शरीर होता है। सूर्य और चन्द्रसे भी अधिक प्रतापी शरीर बन जाता है। जो बीतराग है, निर्दोष है उनके द्वारा अधिष्ठित शरीरकी कौन प्रशंसा करे? अभी यों ही देखो—कोई कैसा ही बीमार हो, यदि परिणामोंमें निर्दोषता जगती है तो बीमारीमें अन्तर आ जाता है। जिस किसी का दुखार मिटनेको होता है उससे पहिले उसकी सभी बातोंमें अन्तर आने लगता है। निर्मल परिणामोंका ही तो यह प्रताप है कि जीवको योग्य अच्छा शरीर मिलता है। जिसके परिणाम खोटे होते हैं उसका इस भवमें चाहे शरीर न बिगड़ पाये पर अगले भवमें बिगड़ा कुत्सित शरीर प्राप्त होता है। प्रभुका तेज, उनकी दृष्टि, उनका ज्ञान, उनकी श्रद्धि सुख ऐश्वर्य सब कुछ उत्कृष्ट होता है और तीन लोकमें जिसका माहात्म्य फैले ऐसा उनका प्रताप होता है।

बीतरागताका आकर्षण— प्रभु भगवान्‌ होनेके पश्चात् हम और आप लोगोंकी तरह बीचमें बैठे हुए नहीं मिलते हैं कि कुछ भी उनसे बातें करलें। वे इस पृथ्वी तलसे कितनी ही दूर ऊपर आकाशमें अधर विराजते हैं। उनका बिहार होता है तो आकाशमें ही होता है। जहाँ वे स्थित होते हैं वहाँ देवेन्द्र क्षण मात्रमें विशाल रचना करा लेते हैं जिसका नाम है समवशरण। समु अथ शरण, जहाँ पहुँचने पर जीवको भला शरण प्राप्त होता है उसे कहते हैं समवशरण। वहाँ मनुष्य क्या, देव क्या, तिर्यकच क्या, सभी समरुदार बिबेकी प्राणी आकर्षित होते बले आते हैं। बीतरागताका निर्दोषताका सत्य प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, रुद्रगजिबों का, विषयी कषायीका, मलिन पुरुषोंका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। प्रभुकी बीतरागताके कारण तीनों लोकके प्राणी उनकी शरणमें आते हैं और

उनके गुणानुरागके बलसे अपने आपके भव-भवके कमाये हुए पाप धो डालते हैं।

दिव्य भाव, दिव्य प्रभाव, दिव्यदेह, दिव्य उपदेश— प्रभुका शरीर इतना स्वच्छ है कि अपनी कान्तिके द्वारा दसों दिशाओंको स्नान करा देते हैं। इतना स्वच्छ जिनका रूप है कि आकर्षक और प्रिय बनकर मनुष्योंके दिलको चुरा लेता है अर्थात् उनकी ही ओर यह मन आकृष्ट होता है। जिनका दिव्यरूप इतना पवित्र हितकारी होता है कि सुनने वालोंके मनमें मानों अमृतसा भरता हुआ अनुपम आनन्द प्रदान करता है। जिनके शरीरमें, जिनके अवयवोंमें शुभ लक्षण विराज रहे हैं ऐसी दिव्यकाय प्रभु अरहत देवकी हो जाती है। वे चाहे मुनि अवस्थामें हों, बूढ़े हों, कोई अंग कुछ टूट गया हो, लचक गया हो, तकलीफ भोग चुके हों, कोढ़ हो, कुछ भी रोग हो, पर परमात्मत्व प्राप्त होनेके बाद वह शरीर युवावस्था सम्पन्न जैसा कान्तिमान् पुष्ट हो जाता है। यह भी सब उस वीतरागताका प्रताप है।

चमत्कारके मूलकी दृष्टि— जैसे मंदिरोंमें बड़ी सजावट हो, कीमती स्वर्ण रत्नोंके आभूषणोंसे बड़ी सजावटकी गयी हो तो उस सजावटको देखकर उस सजावटकी आलोचना नहीं करना है किन्तु वीतरागताकी और ध्यान देना होता है कि घन्य है वह वीतरागताकी महिमा कि वीतराग प्रभुके चरणोंमें बड़े-बड़े धनिक देव इन्द्र अपना सर्वस्व लगाकर ऐसी शोभा और शृङ्गार किया करते हैं। ऐसा आप्तदेवका वर्णन करके अब शास्त्रका लक्षण कहते हैं, तत्त्वार्थका लक्षण कहते हैं।

तस्स मुहमगवययां पुष्पावरदोसविरहियं सुद्धं।

आगममिदि परिकहियं तेण हु फहिया हवति तत्त्वत्था ॥८॥

शरणभूत परमागम— आप्तदेवके मुखसे निकले हुए जो वचन हैं ध्वनि है जो गणधरदेवके द्वारा केली जाती है, जिनके वाच्य अर्थमें पूर्वापर कोई दोष नहीं रहता है, ऐसा जो शुद्ध उपदेश है उसका नाम आगम है। उस आगमके द्वारा कहा हुआ जो कुछ तत्त्वार्थ है उसके अर्थानसे सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। उस परमेश्वरके मुख कमलसे निर्गत चतुरवचनों की रचनाओंका समूह जो कि पूर्वापर दोषसे रहित है वह आगम है। उस भगवान्के रागका अभाव होनेसे कोई अशुद्ध पाप क्रियाका पोषक वचन नहीं निकलता है किन्तु हिंसा आदिक पाप कार्योंका परिहार करते हुए शुद्ध वचन होते हैं और वे वचनसमूह परमागम कहलाते हैं। उस परमागमरूप में अमृतको भव्यजन अपने कानोंकी अंजुलिसे पीकर अपने आपमें शुद्ध-

तत्त्वका दर्शन किया करते हैं।

अमृतपान— भैया ! जैसे कहते हैं ना अमृतपान करो, वह अमृत कहांसे पिया जाय ? मुँहसे पिया जाय क्या ? मुँहसे नहीं पिया जाता है। विलक्षण अमृत है। कानोंसे पिया जाता है। कोई ऐसी दवा नहीं समझना कि जैसे कोई दवा कानमें डाल देते हैं, किन्तु अमृत नाम है ज्ञानभावका। जो न मरे वह अमृत है। यदि मुखसे कोई चीज खा ली जिसे अमृत कहा करते हैं तो वही चीज यदि नस गयी तो वह दूसरेको क्या अमर करेगी ? अमृत नाम है ज्ञानका। जो न मरे, सतत् हो उसका नाम है अमृत। मेरे लिए मेरा अमृत ज्ञानभाव है। विपत्तियां चारों ओरसे घेर रही हों उस समय जरा ज्ञानभावको संभाला कि सब विपत्तियां दूर हो जाती हैं। यह आत्मा अमर है, कभी मरता नहीं है ऐसा ज्ञान जग जाय तो यह अमर हो गया और जहां यह संशय लगा है कि कहीं मैं मर न जाऊँ तो ऐसे संशय वाला तो मरा हुआ सा ही है। ज्ञान ही परम अमृत है। जिसके ज्ञान होता है वह कहीं जाय, किसी समय हो, किन्हीं घटनाओंमें हो वह ज्ञानबलसे अपने आपमें प्रसन्न रहा करता है।

अमृतरूप हुआ ज्ञान कहते किसे हैं ? अपना ज्ञानस्वरूप अपने ज्ञानमें आए तो उस ज्ञानवृत्तिका नाम ज्ञान है, यही अमृत है और अज्ञान स्वरूपको अपने ज्ञानमें आत्मरूपसे ग्रहण करें तो उसका नाम अज्ञान भाव है। शुद्ध लौकिक ज्ञानको ही जब लक्ष्यमें लिए होते हैं तो उसकी भी बड़ी महिमा विदित होता है, फिर अलौकिक ज्ञानका तो कहना ही क्या है ?

ज्ञानबलका एक लोकदृष्टान्त— एक वृद्ध ब्राह्मण था। सो वह और उसकी बुढ़िया पत्नी, लड़का और बहू—ये चारों प्राणी किसी गांवको जा रहे थे। चलते-चलते एक गांवसे निकले और एक भील जाकर एक जंगल में से गुजरने लगे। वहां लोगोंने कहा कि आप लोग अभी लौट जाइए, एक भील पीछे गांव है, इसके बाद ६—७ भील तक गांव नहीं है, और यह एक भयानक जंगल है जिसमें एक भ्रेत रहता है। सो वह भ्रेत पहिले प्रश्न करता है। उसका उत्तर यदि देते न बने तो वह मार डालता है। तो सबने सलाह की कि अब चल दिये तो चल दिये पीछे सुढ़नेका काम नहीं है। जो होगा देखा जायेगा। वे आगे बढ़ते ही गए। देर हो जाने से एक भयानक जंगलमें वे ठहर गए। उन्होंने रात्रिके चार प्रहरोंका बँटवारा कर लिया कि पहिले प्रहरमें बुढ़हा जगेगा, दूसरे पहरमें बुढ़िया जगेगी, तीसरे पहरमें लड़का जगेगा और चौथे पहरमें बहू जगेगी।

शिक्षापूर्ण प्रश्नोत्तर— अब पहिले प्रहरमें भ्रेत आया दांत निकाले

हुए और बुढ़ेसे प्रश्न किया—एको गोत्रे, यह व्याकरणका एक सूत्र है, शब्द सिद्धिमें यह काम देता है। पर वहां तो कोई शिक्षाप्रद बात कही जाय तो योग्य उत्तर होगा। तो वह बूढ़ा तुरन्त कविता बनाता है—‘एको गोत्रे भवति स पुमान् यः कुटुम्बं विभर्ति।’ जो सर्व कुटुम्बका भरण पोषण करना है वही कुटुम्बमें अष्ट पुरुष होता है। शिक्षारूप उत्तर सुनकर प्रेत प्रसन्न हुआ और मारना तो दूर रहा कोई आभूषण इनाममें दे गया।

उसके बाद दूसरे प्रहरमें बुढ़िया जगी। उससे भी प्रेतने प्रश्न किया—‘सर्वस्य द्वे’ यह भी व्याकरणका सूत्र है। इसका भी अर्थ करना चाहिये। सो वह तुरन्त कविता बनाती है ‘सर्वस्य द्वे सुमति-कुमति संपदापत्तिहेतु।’ सब जीवों को ये दो बातें, कौन-कौन—सुमति और कुमति ये सम्पदा और आपदाके कारण होती हैं। सुमति तो सम्पदाका हेतु है और कुमति आपदाका हेतु है। ऐसे शिक्षाप्रद उत्तरको सुनकर प्रेत प्रसन्न हुआ और उसे भी कुछ इनाम दे गया। अब तीसरे प्रहरमें जगा लड़का। प्रेत आया तो उससे भी प्रश्न करता है ‘वृद्धो यूना’ यह भी व्याकरणका एक सूत्र है। इसे भी शिक्षारूपमें लेना है। तो लड़का उत्तर देता है—‘वृद्धो यूना सह परिचयात्त्यज्यते कामिनीभिः’ उसके उत्तरको भी सुनकर वह प्रेत इनाम दे गया। किसी स्त्रीका वृद्ध पुरुष हो तो किसी युवकसे स्नेह होने पर कामिनी उस वृद्धको त्याग देती है। अब चौथे प्रहरमें जगी वह बहु। प्रेत उसके पास आया और उससे प्रश्न किया। ‘स्त्री पुं वत्’ यह भी एक सूत्र है। इसका भी शिक्षारूपमें उसने अर्थ लगाया। ‘स्त्री पुं वत् प्रवर्तत यथा तद्धि गेहं विनष्टम्।’ स्त्री जिस घरमें पुरुषकी तरह स्वच्छन्द चलाने वाली हो जाती है वह घर नष्ट हो जाता है। प्रेत इस प्रकारका उत्तर सुनकर उसे भी कुछ इनाम देकर चला गया। सुबह हुआ, चारों के चारों अपने इष्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं।

विद्याधनकी विशेषता— मनुष्यका धन एक विद्या ऐसा धन है कि जिसको परिवारके लोग बांट नहीं सकते, डाकू चोर चुरा नहीं सकते, गवर्नमेंण्ट कुछ टैक्स नहीं लगा सकती। पर और सब धन ऐसे हैं कि जिनका कलका भी विश्वास नहीं होता विद्या ही निर्वाध धन है और उन विद्यावर्गमें आत्मविद्या एक ऐसी विलक्षण विद्या है कि जिसकी होड़ किसी भी अन्य विद्यासे नहीं हो सकती। परीक्षा हुआ करती है योग्य पुरुषोंकी। अयोग्यकी परीक्षा क्या? कष्ट आया करते हैं तपस्वीजन और संयमीजनों पर, असंयमीके लिए कष्ट क्या? क्या असंयमियोंको कष्ट नहीं है? उनको जब कष्ट आते हैं तब एकदम वेहद ही कष्ट आते हैं, पर जिसे लोग मानते

हैं इस मनुष्य जीवनमें कष्ट वे कष्ट असंयमियोंको नहीं होते। जैसे भूखे प्यासे रहना, ठंड गरमी सहना ये कष्ट असंयमीजनोंको कहां है ? जब भूख लगे तब खा लें, जो ओढ़नेको दिला चाहा ओढ़ लिया। तो परीक्षा तो संयमी, योग्य पुरुषोंकी ही हुआ करती है।

प्रगतिमें ही परीक्षा— यहाँ यह जानना है कि भाई जो आत्मविद्या में रत होने है, जिन्हें धर्मसे प्रेम होता है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह जिसको प्रिय हैं ऐसे लोगोंकी तो आजकी दुनियामें कुछ अच्छी वृथा नहीं दिखती, उन्हें आपत्ति आती है, कोई विशेष पूछता भी नहीं है, यों लोगोंको आशंका रहती। सो भाई यह तो एक परीक्षा है। ज्ञान हमें कितना प्रिय है, धर्म हमें कितना प्रिय है ? इसकी यह परीक्षा है। हम थोड़े लाममें आकर धर्म और ज्ञानको खो बैठे, बस यही तो परीक्षाकी बात है। इस संसारमें कौन मेरा प्रभु है, किसको क्या विश्वास है, किसकी निगाहमें हम भले बन जायें हमारा उद्धार हो जाय, ऐसा कोई लाकर खड़ा कर दीजिए फिर उसकी ही हम गुलामी करते रहेंगे। कोई ऐसा दूसरा नहीं है कि जिसको हम अपना समर्पण कर दें, जिसकी हम शरणमें जायें तो मुझे दुःख रहित कर दे। ऐसा दुनियामें कोई दूसरा नहीं है।

अपने परिणामोंके संभालकी प्रथम आवश्यकता— भैया ! अपनी ही श्रद्धा, अपना ही ज्ञान, अपना ही आचरण यदि उत्तम रहता है तो समझ लीजिए कि मुझको दुखी करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सुखी भी वह स्वयं अपने आपके उत्तम आचरणके प्रसादसे होता है। एक पुस्तक है सुशीला उपन्यास। हमने उसे पढ़ा तो नहीं है पर कहीं थोड़ा प्रकरण देखनेमें आया कि किसी एक पुरुषसे स्त्रीने कोई दुर्भाव बताया और उसने इस प्रकार बाध्य किया कि यदि हम इच्छाकी पूति न करोगे तो हम देशभरमें तुम्हारी बदनामी करेंगी। उस पुरुषका उत्तर सुनिये, वह पुरुष कहता है मां दुनियां मुझे बुरा जान जाय उससे मेरेमें बुरा परिणामन नहीं बनना किन्तु मैं ही अपने को जब बुरा जानता रहूंगा, मैं ही अपने ज्ञानमें बुरा बना रहूंगा तो उससे मेरा अकल्याण होगा। दुनियाकी दृष्टिमें मैं बुरा भी कहलाऊं तो भी मेरा अकल्याण न होगा।

भावनानुसार मोते जागते वृत्ति— आप देखो कि जब कोई पुरुष स्वयं बुरा होता है तो अपनी वृत्ति स्वयं ऐसी बनाता है कि उसकी बुराई सबके आगे स्पष्ट हो जाती है। कोशिश यह करो कि अपने भाव रचनमें भी बुरे न हो सकें। जागृत अवस्थाकी तो बात क्या, क्योंकि जगती हुई अवस्थामें यदि हम भले रहते हैं तो सोचे हुएमें भी भली ही बात आयेंगी।

जो अध्यात्मकी बात बहुत-बहुत ध्यानमें रखते हैं उनको सोते हुएमें भी अध्यात्मके ज्ञानके स्वप्न आते हैं। यह बात असम्भव नहीं है, ऐसा होता है, जिसका चित्त तृष्णामें रहता है उसको स्वप्न तृष्णाकी बातोंके आते हैं। जिसका शुद्ध ज्ञानकी चर्चामें उपयोग रहता है उसको स्वप्नमें भी शुद्ध ज्ञानका स्मरण होता है।

तृष्णावासित पुरुषका एक स्वप्न— एक पुरुष सोते हुएमें स्वप्न देखता है कि वह एक गांवमें गया, तो उस गांवमें ज्वार १) रुपयेकी मन भर बिक रही थी और उसके खुदके गांवमें २) रुपया मन थी। एक रुपया की मन भर ज्वार। ऐसे ही पुराने भाव हुआ करते थे। सो उसने सोचा कि २ मन ज्वार खरीद लें और गांवमें २० सेर बेच देंगे और २० सेर अपने खानेको बच जायेगी, सो ४ मन ज्वार खरीदकर एक बोरेमें भरकर सिरपर लादे जा रहा है। स्वप्नकी यह बात है। इतने बड़े बोरेको लादे हुए सिरमें पीड़ा हो गयी। उसकी गर्दन दुखने लगी। तो उसने सोचा कि अब तो बड़ी मुश्किल है, सो उसमें से आधी ज्वार निकाल कर उसने फेंक दिया रास्तेमें, अब २० सेर ज्वार लिए हुए जा रहा है। उतने में भी गर्दन दुःख गयी। सोचा कि आधी ज्वार और फेंक दें, सो उसने १० सेर ज्वार और फेंक दी, अब तो १० सेर ही ज्वार उसके पास रह गईं। फिर भी वह १० सेर ज्वार गर्दनको दुःख दे रही थी। सो उसमें से ५ सेर और फेंक दी, अब रह गयी ५ सेर, ५ सेर ज्वारसे भी दुःख बंद न हो तो उसने सब ज्वार बाहर फेंक दी। अब वह रीता होकर चला। फिर भी गर्दन तो दुःख ही रही थी। बादमें वह देखता है कि अभी सिरमें तो कोई दाना नहीं अटका जो कष्ट दे रहा हो, सो वह अपने सरको भी टटोलता है।

इज्जत और धनकी तृष्णामें विवम्बना— जो लोग लोभ करते हैं उनको अन्तमें कष्ट ही उठाना पड़ता है। जो अपने पोजीशनकी लालसा रखते हैं उनका भी ऐसा ही हाल होता है। एक कोई बहुत बड़ा पुरुष था, किसी कारणसे कुछ घाटा आ गया तो वह अपने घरका गहना गिरवी रखने लगा। वह खुद न गिरवी घरने जाय, सो किसी दूसरेके हाथसे वह गिरवी रखवाया करे। उस बड़े पुरुषके दिन ऐसे आए कि वह जो गहने गिरवीमें रखदे उसे उठा न पाये। उसने जितने भी छोटे बड़े आभूषण थे सब गिरवीमें रख दिये। जब कुछ न रहा और खपराके बिकनेका नम्बर आया तो अब जब खपरा बेचने लगा तो खपरा अपने हाथसे गिन कर देता है कि कहीं १०० के १०५ न चले जायें। सो कहां तो बड़े-बड़े

गहने आभूषण दूमरों के अपने यहां गिरवी रखते थे और कहां अब खपरिया गिनने लगे। तो जहां तृष्णा होती है, चाहे धनकी हो चाहे इज्जतकी हो, तृष्णामें विवेक काम नहीं देता है।

अज्ञानीपर पर्यायतृष्णाका बड़ा बोझ— अज्ञानीजनोंके तो पर्याय की तृष्णा निरंतर रहा करती है, मैं पुष्ट हूं, मैं दुर्बल बन गया हूं, मैं सबल बन गया हूं, मैं सुन्दर हूं, मैं कुरूप हूं आदिक बातों का तो उसके उपयोग पर बोझा रूप रहा ही करता है। उसके दुःखका तो ठिकाना ही क्या है ?

सुन्दरताके अर्थका रहस्य— भैया ! सुन्दर जानते हो किसे कहते हैं ? कहते हैं ना लोग कि यह बड़ा सुन्दर है। सुन्दरमें तीन शब्द हैं— सु उन्द अर। सु तो उपसर्ग है उन्द धातु है और अर प्रत्यय लगा है। उन्द धातुका अर्थ है जो क्लेश दे और अर लग गया छ्वन्तका प्रत्यय और सु लग गया भली प्रकार। जो अच्छी तरहसे क्लेश दे उसका नाम है सुन्दर। जो अत्यन्त कष्ट दे यह है सुन्दर शब्दका अर्थ। मगर मोहीजन आसक्त हैं ना अपनी इष्ट वस्तुमें, इसलिए उन्हें सुन्दर शब्दके कहते ही बहुत अच्छा लगता है। बाह-बाह मुझे कहते हैं लोग कि तुम बड़े सुन्दर हो और कहा क्या है कि तुम तड़फा-तड़फाकर बुरी तरहसे कष्ट देकर मारने वाले हो, पर लोग खुश खुश होते हैं कि मुझे बहुत सुन्दर कहा। सो इसका अर्थ ठीक ही है—जो सुन्दर लगता है वह दूसरेके कष्टके लिए होता है और उसका काम ही क्या है ?

यह जीव अपनेको सुन्दर मानता, कुरूप मानता, निर्धन मानता, धनी मानता, अनेक परिणामनोरूप मानता है। यह इसका क्लेश इसके समस्त कष्टोंका बीज बन गया है। नहीं तो बतलावो कि किसे क्या कष्ट है ? जरा अपने उस सहजस्वरूपको तको कि मैं तो केवल ज्ञानव्योति। मात्र हूं, बस यही पर्यायबुद्धि दुःख देती है।

आगमज्ञानका बल— आत्मा आगम और तत्त्वार्थोंके श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है। इस प्रसंगमें आत्मका लक्षण तो बता चुके थे, इस गाथा में आगम और तत्त्वार्थोंका स्वरूप कहा जा रहा है। जो आत्मदेव हैं उनके मुख कमलसे निर्गत जो दिव्यध्वनि है उससे जो गणधर देवोंने रचना की है और उसी परम्परा की जो रचना है वह परमागम कहलाता है। यदि परमागम न होता तो आज लोग कहाँसे वस्तुस्वरूपका अभगम पाते ? परमागम भव्य जीवोंके कर्णों द्वारा पीने योग्य अमृततत्त्व है। मुक्तिका क्या स्वरूप है इसको बताने के लिए यह परमागम दर्पण है। जैसे दर्पण को देख कर बहुतसी चीजें ज्ञात करली जाती हैं, इसी तरह परमागम एक

ऐसा आदना है कि जिसके बल पर आप नरक स्वर्ग द्वीप समुद्र सब रचनाएँ ऐसी हृदनासे बोनते हैं जैसे मानलो आप वहीसे होकर आए हैं।

परमागमकी भक्तिसे स्पष्ट ज्ञान— कैसे नरकोंकी रचना अपन बता देते हैं कि पहिला नरक इतना लम्बा चौड़ा है, उसमें इतना पोल है, उसमें ऐसे नागकी रहते हैं और वहां तक क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव भी पहुंच सकते हैं, फिर उससे कुछ आकाश छोड़कर दूसरा नरक है। कोई दूसरा यदि गलत कह दे तो बीचमें टोक देते हैं, अजी ऐसा नहीं है। तीसरे नरक तक असुरकुमारके देव जाकर खूब भिड़ते हैं कैसी हृदतासे सब बातें बताते जाते हैं, जैसे नरकसे अभी आ रहे हों और बता रहे हों और स्वर्गोंकी भी बातें खूब बताते हैं। तो यह परमागम एक ऐसा दर्पण है जिसमें पदार्थका हस आप परिज्ञान करते हैं।

परमागममें मुक्ति मुखबिम्बका दर्शन— अथवा यह परमागम मुक्तिरूपी सुन्दरीके मुखको फलकाने वाला दर्पण है। अर्थात् जैसे कोई युवती मुख देखती है दर्पणमें तो दर्पण सामने रखती है। देखती है तो दर्पणमें भी मुख प्रतिबिम्बित हो जाता है इसी प्रकार आत्माका पूर्णस्वरूप भोक्त किस वस्तुका नाम है, वह कहां स्थित होता है? यह सब इस परमागम दर्पणमें देखते जावो। इस परमागमका कितना महोपकार बताएँ? कितना संसारमें क्लेश है, मानो संसाररूपी महान समुद्रकी भवरोमें फंसे हुए हम आप जीव हैं, इस जीवको हस्तावलम्बन देने वाला विशुद्ध परमागम है।

परमागमका निर्भ्रान्त हस्तावलम्बन— भैया ! बड़ी-बड़ी कठिन स्थितियां आ जाती हैं। कुछ कठिनाई नहीं आती। कल्पनामें बना लेते हैं। जैसे मानलो किसीका कोई कष्ट गुजर गया, तो चित्लाते, प्राण देते, कैसी भयंकर स्थिति है इस संसारमें? है नहीं कष्ट कुछ भी पर सब कल्पनासे कष्ट बना लिए जाते हैं। तो ऐसे महान उपद्रवोंमें भी अगर कोई शुद्ध हस्तावलम्बन देने वाला है तो यह परमागम है। और आजके जमानेमें जब कि कुछ समयका ऐसा फेर है कि गुरुजन भी ऐसे नहीं मिलते कि जिनके वचनोंका तुरन्त विश्वास किया जा सके। ये ठीक कहते हैं, ये जानते हैं, ये निर्दोष बात बोलेंगे— ऐसा विश्वास नहीं बैठ पाता। कठिन है गुरुजनोंका मिलना। गुरुवोंके नाम पर बहुत मिलते हैं पर उनके वचनोंका पूर्ण विश्वास हो सके, ऐसी बात आज बहुत कठिन है। कोई किसी को गलत बताता है, कोई पूर्वाचार्योंकी ही गलती बताने लगता है, कोई अपने मनगढ़ते सिद्धान्त रचने लगता है। कोई ऐसी बात लिख देते

हैं जो शास्त्रोंमें नहीं मिलती ताकि लोगों पर प्रभाव पड़े। अब कहां विश्वास करें ? ऐसे संदेह वाले वातावरणमें यदि कोई हस्तावलम्बनधी चीज है तो यही है परमागम।

परमागमका एकमात्र शरण— आचार्योंके वचन भूठे न निकलेंगे, वे धोका न देंगे, उनका अर्थ समझ लो, अख्यान करो। तो आज जैसे समय में जहां धर्मके हासका समय आ रहा है तो यह परमागम ही एक हस्तावलम्बन है। हमारा कल्याण कैसे हो, ऐसा किसी की ओरसे प्रश्न आये कि इसका उपाय तो बताओ। तो आप क्या उपाय बतावेंगे ? इसका सीधा एक ही उपाय है कि खूब स्वाध्याय करो, ज्ञानार्जन करो तो परमागमका शरण हम आप सबके लिए महान् हस्तावलम्बन है।

बोध बिना वैराग्यकी विडम्बना— यह परमागम वैराग्य महलके शिखरका शिखामणि है। परमागमका बोध न हो तो वैराग्य भी अटपट रहता है। सिलसिलेवार ढंगसे फिट बैठता ही नहीं है।

बोध बिना वैराग्यकी विडम्बनाका एक उदाहरण— एक भाई जी थे। सागरकी बात है। सो उनका यह नियम था कि हरीसाग न छौंकना, हरी साग छौंकनेका त्याग था। चक्कूसे तो काट लें, पर पतेलीमें न छौंकने का नियम था और एक दिन खाना व एक दिन न खाना, यह दूसरा नियम था। सो जिस दिन खानेकी बारी आए उस दिन सारा दिन लग जाता था। एक दिन दोपहरके १०, ११ बजे से सागभाजी बनाकर बैठे हुए सोच रहे हैं कि कोई आए तो छौंकवा लें क्योंकि उनके छौंकनेका त्याग था। इतनेमें बड़े वर्णी जी पहुंचे। उस समय वे ब्रह्मचारी ही थे। तो भाई जी बोले अरे पंडित जी तनिक हमारा साग छौंक दो। कहा कि तुम काहे नहीं छौंकते ? भाई जी ने कहा कि हमारा छौंकनेका त्याग है। तो वर्णी जी बोले, कि हम छौंक तो देंगे पर यह कह देंगे कि इसमें जो पाप लगे वह भाई जी को लगे। कहा बाह बाह फिर छौंका ही क्या ? तो बहुत मनाया सो पंडित जी साग छौंकने लगे, परन्तु छौंकते हुए वर्णी जी ने कह ही दिया कि इसका पाप भाई साहबको लगे। सो भाई जी उचक कर खड़े हो गए। बोले—बाह जी तुमने तो हमारा नियम तोड़ दिया। अरे परिणाममें आया सो वह तो छौंकेकी ही तरह ही गया।

परमागमकी सेवाका प्रयोजन— भैया ! बिना ज्ञानके वैराग्यकी विडम्बना बता रहे हैं। और आगे आप देखते जाओ दसों जगह ऐसी बात मिलेगी बिना ज्ञानके वैराग्य की विडम्बना की। तो यह परमागम वैराग्यरूपी महलके शिखर पर शिखामणिकी तरह है। परमागम पढ़नेका प्रयोजन

है कषायोंको मिटाना। जैसे एक दोहेमें कहते हैं कि 'घनको पाय दान नहीं कीन्हा, आगम पद नहीं मिटी कषाय। काय पायके व्रत नहीं कीन्हा, कहा किया नरभवमें आय ॥' तो परमागमके अभ्यासका प्रयोजन है कषायका मिटाना। यह कषाय कैसा है? बुद्धिया, जवान, बच्चे, बूढ़े सभीमें यह कषाय भरा हुआ है। इस कषायके मिटानेका मूल उपाय है ज्ञान। और ज्ञानमें ज्ञान है वह जहां वस्तुकी स्वतंत्रताका भान हो, और उस ज्ञानमें भी ज्ञान है वह जहां ज्ञान ज्ञानको ही जाननेमें लगा हो। आर बाकी तो सब अज्ञानके खेल हैं।

अज्ञानके खेल— बड़े रईस लोग अपने बांस बत्ताका खेल खेलें, बौल उचकानेमें लग जायें और जो गरीब आदमी हैं वे कबड्डी ही खेल लेंगे। मगर हैं तो वे दोनों खेल ही। पुण्यवान् हो तो और तरह खेल खेलें, पापवान् हो तो और तरह खेल खेलें, पर हैं तो सब अज्ञानके खेल। इस परमागमकी महत्ता बतायी जा रही है। जिसकी ओर आज सामूहिक रूपमें समाजकी दृष्टि नहीं है और धर्मके नाम पर ईंट महल पत्थर बड़े से बड़े खड़े कर देंगे। धर्मके नाम पर बाजे बगैरह बजवायेंगे पर पूछो कि इस समारोहमें तुम्हारे ५ लाख रुपये लगे हैं तो परमागमकी सेवामें क्या ५ हजार भी खर्च नहीं कर सकते? ५ हजार तो जाने दो, ५०० का भी अनुपात नहीं मिलता। और कहां तो ५ भी खर्च नहीं होते तो इसकी क्या वजह है कि जब आज सभीके सिद्धान्त देश विदेशमें भारी पैमाने पर और अच्छे ढंगमें दर्शकोंके हाथमें पहुंच रहे हैं और तुम्हारा क्या हाल है? सो जरा पढ़े लिखे पुरुषोंसे जाकर पूछो कि आपके सिद्धान्तका कोई संचार है?

मुक्तिमंदिरका प्रथम सोपान परमागम— उस परमागमकी बात कही जा रही है जिसकी सेवा बड़े-बड़े आचार्योंने अपनी जीवन भरकी बड़ी तपस्याओंके अनुभव करके जिन्होंने ऐसा लिख दिया कि आपको बना बनाया भोजन तैयार है, फिर भी इसकी ओर दृष्टि कम है। यह परमागम निर्दोष मोक्ष महलकी पहिली सीढ़ी है। जैसे सीढ़ी पर चढ़े घिना महलमें नहीं पहुंच सकते इसी प्रकार यदि मोक्ष महलमें पहुंचना है तो सबसे पहिली सीढ़ी परमागमका अभ्यास है। सब बातें यहाँसे शुरू होती हैं। परमागमके अभ्यास बिना आगे धर्ममें प्रगति नहीं होती।

रागसंताप शान्तिमें परमागमका योग— यह परमागम अशुभ राग आगके अंगारोंसे जलते हुए जीवको मैघका काम करने वाला है। वनमें आग लग जाय तो वहां शक्तिओंसे काम चलेगा, वहां शून्यसिपैरिटीके

आजारोंसे काम न चलेगा, वहां तो मेघ ही बरष जायें तो आग बुझ सकती है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार कामवासना आदिक अशुभ परिणामोंसे उत्पन्न हुए अप्रशस्त रागके अंगारों द्वारा पच रहा जो यह जीवलोक है, इसके इस राग संतापको मिटानेमें समर्थ यह परमागमरूप-मेघ है। इस परमागमके अभ्यास द्वारा ज्ञान बरष जाय तो ये क्लेश दूर हो सकते हैं। ऐसे इस परमागमके द्वारा कहे गये जो तत्त्व हैं उन्हें कहते हैं तत्त्वार्थ।

तत्त्वार्थके अवगमका लक्ष्य— तत्त्व कितने हैं जिनके जाननेसे सम्यग्ज्ञानकी दिशा मिलती है। वे तत्त्व ३ हैं, वे तत्त्व ६ हैं, ७ हैं, ९ हैं, किन्हीं भेदोंके सहारे आत्मतत्त्वका सहजस्वभाव पहिचाना जाता है और सर्वपरिज्ञानोंका मर्म एक ही है कि अपने सहजस्वभावका परिचय हो जाय। तीन तत्त्व हैं, बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा। उन्हींका ही विश्लेषण करते जाइए सब बातें आ जायेंगी, ७ तत्त्व, ९ पदार्थ सब उसमें गभित हो जायेंगे अथवा ६ पदार्थ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश, काल इनका वर्णन जानिए, प्रयोजनभूत सहजस्वभावका मर्म आ जायेगा। ७ तत्त्वोंका श्रद्धान तो बताया ही गया है और पुण्यपाप सहित ९ पदार्थ होते हैं। ये ही तत्त्वार्थ कहे गए हैं।

आवश्यक व्यवहार श्रद्धान— जैसा जो पदार्थ है, न उससे कम, न ज्यादा, न विपरीत, जैसा है तैसा निःसंदेह जानना यही है तत्त्वार्थका परिज्ञान। सो आप्त आगम और तत्त्वार्थके श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है। यह बात यहां बतायी जा रही है। किन्हीं शास्त्रोंमें देव, शास्त्र, गुरुके श्रद्धानको बात कही गयी है। उससे और इससे विरोध कुछ नहीं है। आप्तमें देव आ जाते हैं और गुरु आंशिक आप्त गुरु हैं और सर्व देश देव आप्त सर्वज्ञदेव हैं। शास्त्रमें आगम और तत्त्वार्थ ये दोनों गभित किए जाते हैं। वाचक और वाच्य। शास्त्र वाचकरूपताकी प्रमुखतासे वाच्य रूप शास्त्रमें तत्त्वार्थ आया, यों आप्त आगम और तत्त्वार्थका श्रद्धान करना, सो व्यवहार सम्यग्दर्शन है।

परमागमकी वास्तविक भांति— कैसा है यह परमागम अथवा यह श्रुत ज्ञान जो परमागम निर्वाणके कारणका कारण है, मोक्षका कारण है रत्नत्रय और रत्नत्रयके पानेका कारण है परमागम। यदि यह बीर बाणीका प्रकाश न होता तो कहां ये जीव शांति पाया करते? कहां यह निर्वाणका मार्ग पाते? यह परमागम सदा योगी पुरुषोंके द्वारा बंदनीय है और परमागमकी वास्तविक बंदना तो उसमें लिखे हुए अर्थका मनन करने

में है और उस मनन द्वारा ऐसी प्रसन्नता पाये कि उस पर गद्गद होकर परमोपकार सूचक अनुराग जगे। तो यही है परमागमकी वास्तविक भाँक और केवल शास्त्रको उठाया, दो लकीर पढ़ा, चत विद्या, यह परमागमकी भक्ति नहीं है।

स्वाध्यायकी निरुद्देश्य रूढ़िसे शास्त्रकी आफत— यदि किसी मंदिरमें बिना जलहक बिना सिया हुआ शास्त्र रखा हो तो उसकी तो आफत आ जाती है। एक महिला उस शास्त्रको घरे स्वाध्याय कर रही हो तो एकने तो नीचेसे पन्ना निकाल कर पढ़ लिया, किसीने बीचमें से एक पन्ना निकाल कर पढ़ लिया। खुले शास्त्रकी बात कह रहे हैं। तब उस शास्त्रमें प्रुष्ठ नम्बर भी क्रमसे नहीं रह पाते हैं। और वे शास्त्र इसी लिए हैं कि अनेक पुरुष एक शास्त्रका एक साथ स्वाध्याय कर लें। तो यह परमागमकी सेवा नहीं है। विधिषत् पढ़ो, विद्यार्थी बनकर पढ़ो।

विद्यार्थी बनने में जो वैभव भरा है उसको विद्यार्थी ही जान सकते हैं। थोड़ी देरको मान लो यहाँ क्लास लगाते होते और बूढ़े, जवान, बच्चे सभी अपना-अपना बस्ता ले आते, अपनी अपनी पोथी दबाकर आते, कलम, कागज, पेंसिल लेकर आते और चलते कि अब पढ़ने जा रहे हैं तो चाहे कैसे ही बूढ़े हों पर एक बार तो बालकपना भूलक ही जायेगा। बालक की विशेषता है निर्विकारता और कषायकी मंदता। यदि अबस्थाके प्रतिकूल हो तो भी ये गुण कुछ उस क्षण आ जायेंगे। विद्यार्थी बनकर किसी गुरुके समक्ष पढ़ो तो क्रोध कषायका तो काम रहेगा नहीं क्योंकि विनयपूर्वक अध्ययन करता बताया गया है। मान नहीं है, मायाचार नहीं है, लोभ वृष्णाका ध्यान नहीं है, एक ही लक्ष्य है कि मुझे बढ़ना है।

भाषपूर्वक विद्यार्थीके बानेका असर— जैसे आजादीका सूत्र निकल गया था कि चर्खा चलाओ। तो क्या चर्खा चलानेसे आजादी मिल जायेगी? अरे चर्खेकी कमाईसे आजादी नहीं मिलती, पर चर्खा जो चलायेगा रईश हो, बाबू हो उसके अन्दरसे रईसीकी येँठ तो गायब ही हो जायेगी और एक अनुभव होगा जनताकी तरफका, गरीबोंकी तरफका ऐसी स्थितिमें लोगोंकी बुद्धि बढ़ेगी और अक्ल ठिकाने आयेगी। फिर उससे जो योजना बन गयी उसने आजादी दिलायी। चर्खेने सीधा आजादी नहीं दिलायी। इसी तरह यह पढ़नेका जीवन है। कितनी ही उन्न हो जाय यदि यह भाव आ गया कि अब हमें पढ़ने जाना है सो पोथी लेकर चलें, बस्ता बांध कर चलें, एक दो चार साथी भी जा रहे हैं। तो जो बचपन की खेलकूद बहुत दिनोंसे भूल चुके हैं उसकी कला थोड़ी तो आ ही

जायेगी। निर्विकारता और मंद कषायता तो कुछ ही जायेगी और फिर विनयपूर्वक क्रमसे अध्ययन करनेमें जो मार्ग मिलता है उस मार्गसे फिर शांतिके पानेमें उसे संदेह नहीं रहता।

तत्त्वार्थपरिज्ञानसे लाभ— इस प्रकार आगम और आगमके द्वारा कहे गए तत्त्वार्थका वर्णन इस गाथामें किया गया है और तत्त्वार्थोंमें तीन तत्त्व, ७ तत्त्व और ६ पदार्थके रूपसे प्रयोजनभूत बातें सब बतायी गयी हैं। यही सब तत्त्वभूत ६ पदार्थोंका वर्णन इस गाथामें आया है। जिस किसी भी प्रकार यह ज्ञानमें आ जाय कि मेरा परमाणुमात्र भी नहीं है, बस ज्ञानका फल पा लिया और जब तक यह समझ नहीं बैठती है तब तक समझो कि विद्या और ज्ञान उतनी ही कीमत रख रहा है जितनी कि धन और वैभव। धन वैभवसे जैसे हम लोग पोजीशन बढ़ाते हैं, इसी तरह इस शब्दकी विद्यासे भी अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं। इससे अधिक अपने आपमें मौलिक कोई लाभ होता हो सो नहीं हो पाना है।

भगवती प्रज्ञाका बलप्रदान— भैया ! करनेके लिए बात तो सीधी है, कहते हुए तो बात सुगम है पर अज्ञानमें यह बात कठिन क्या असम्भव है। परिग्रहके संगमें ममताके रंगमें तेज रंगा हो उसको यह बुद्धि कहांसे आये कि जरा अपने ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि करके कुछ अपना बल तो बढ़ा लें। कितनी ही परेशानियां हों और ऐसी कठिन परेशानियां हों जिनसे पिंड छुड़ाना कठिन हो, फिर भी इस भगवती प्रज्ञाके प्रसादसे इस ज्ञानभावनाके प्रसादसे बीच-बीचमें ऐसा बल प्राप्त होता है कि वे परेशानियां महसूस नहीं होतीं। जैसे किसी की कोई चीज नष्ट हो गयी हो तो उसे समझाते हैं अपना क्या है? क्यों रोते हो? तो समझाने पर क्षणिक शांतिकी बात मनमें आती। समझाने वाले दूटे कि वे ही परेशानियां फिर आ गयीं, फिर समझाने वाले मिले कि वे ही परेशानियां फिर कम हो गयीं। इसी प्रकार जैसे ही ज्ञानभावना जगी कि संकट कम हो जाते हैं, और फिर ज्ञानभावना शिथिल हुई कि संकट फिर बढ़ जाते हैं। तो संकटों के मिटानेका उपाय एक ज्ञानभावना ही है।

तत्त्वार्थ ६ होते हैं, उनका वर्णन अब इस ६वीं गाथामें कहा जा रहा है।

जीवा पोगलकाया धम्माधम्मा य काल आगासं ।

तच्चत्था इदि भग्गिदाःणाणाशुणपज्जयेहि संजुत्तो ॥६॥

अनन्त पदार्थोंमें प्रत्येक पदार्थका परिमाण— दृश्य और अदृश्य समस्त पदार्थ ६ जातियोंमें बँटे हुए हैं। पदार्थ तो ६ नहीं होते हैं। पदार्थ

अनन्तानन्त हैं, द्रव्य अनन्तानन्त हैं क्योंकि एक द्रव्य वह कहलता है जो अपनेमें अपना परिणामन करता हुआ रहे, अपने से बाहर जिसका कभी परिणामन नहीं होता और अपना जितना एक परिपूर्ण प्रदेशमें परिणामन हो उसको एक कहते हैं। इस एक की व्याख्यासे निगाह करके देखें तो अनन्त जीव ज्ञात होते हैं। क्योंकि एकका परिणामन दूसरे जीवमें नहीं पहुंचता है।

स्वरूपदृष्टिसे आत्माका एकत्व— जो सिद्धान्त एक ही आत्माको मानने वाला है उसके मंतव्यमें यह व्यापत्ति आती है कि जो विचार एक आत्मामें हुआ, जो सुख या दुःख एक आत्मामें हुआ ठीक वही परिणत समस्त आत्मावोंमें हो तब तो एक कहा जायेगा। जब भिन्न-भिन्न परिणामन होते हैं तब सबको एक कैसे कहा जा सकता है? हां स्वरूपकी दृष्टिसे एक है, अर्थात् जितने भी आत्मा हैं समस्त आत्मावोंका स्वरूप एक है वे भिन्न नहीं हैं। यहाँ तक कि चाहे मुक्तजीव हों, चाहे संज्ञी पंचेन्द्रिय हों, चाहे निगोद हों, चाहे भव्य हों अथवा अभव्य हों, समस्त जीव एक स्वरूप वाले हैं। स्वरूपकी दृष्टिसे किसी जीवसे किसी अन्य जीवमें कोई अन्तर नहीं है। ऐसे स्वरूपकी दृष्टिसे आत्मा एक है। परवस्तुकी दृष्टिसे, अर्थक्रियाकारिताकी दृष्टिसे आत्मा एक नहीं है किन्तु जितने आधारोंमें जितने अनुभाव हैं उतने आत्मा हैं। इस प्रकार अनन्तानन्त आत्मा हुए।

दृश्यमान अनगिनते कायिक जीव— भैया ! पहिले तो जो शरीर दिख रहे हैं उनसे ही अंदाज करलो कितने जीव हैं? जहाँ कीर्दियां निकल आती हैं एक जगहमें ही हजारों चींटियां उमड़ जाती हैं। ऐसे ही सब जगह देख लो— एक-एक पेड़में असंख्यात जीव हैं, इधरपि मूल जीव एक है फिर भी जितने पत्ते हैं उनसे भी असंख्यात गुने एक पेड़में जीव हैं। ऐसे सारे पेड़ देखलो। जानने वाले शरीरोंको ही देख लो। कुछ परिमाण है क्या? फिर अब आगमदृष्टिसे निरखो, जितने जीव मनुष्यगतिमें हैं, उनसे असंख्यातगुणे जीव देवगतिमें हैं, उनसे असंख्यातगुणे जीव नरक-गतिमें हैं, उनसे असंख्यातगुणे जीव संज्ञी पंचेन्द्रियमें हैं। जितने कि पंचेन्द्रिय व विकलत्रय हैं और उनसे भी असंख्यातगुणे जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति हैं। उनसे अनन्तगुणे जीव सिद्धभगवान् हैं और उनसे अनन्तगुणे जीव निगोद जीव हैं। ऐसे अनन्तानन्त सभी जीव स्वरूपदृष्टिसे एक जातिमें सम्मिलित हो जाते हैं।

जीवके पर्यायवाची शब्दोंका प्रयोग— जीवका स्वरूप है शुद्ध

ज्ञायकपना स्वच्छता, प्रतिभासशक्ति। यह स्वरूप सबमें एक समान है। जीव शब्दके अनेक अर्थ हैं और उन अर्थोंसे जीवकी विशेषताएँ विदित होती हैं। जीव शब्दका अर्थ है १० प्राणों करके जो जीता है, जिया था, जीवेगा उसको जीव कहते हैं। आत्मा शब्दका अर्थ है जो निरन्तर जानता रहता है उसे आत्मा कहते हैं। ब्रह्म शब्दका अर्थ है—जो अपने गुणोंसे बढ़नेका स्वभाव रखता हो उसे ब्रह्म कहते हैं। चेतन शब्दका अर्थ है जो चेतना है, दर्शन ज्ञान गुणके द्वारा जो प्रतिभासता रहता है उसे चेतन कहते हैं। यहाँ जीव शब्दका प्रयोग किया गया है। चूँकि पदार्थको बताना है। सो पदार्थको बताने हुएमें जितने व्यावहारिक शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है।

जीव, आत्मा व ब्रह्म शब्दके विभिन्न पदोंमें प्रयोगकी उपयुक्तता— जीव शब्द आत्मा शब्दकी अपेक्षा कुछ व्यावहारिक है। यदि योग भाषा में, बुद्धिमान् लोगोंकी भाषामें जीव आत्मा और परमात्मा अथवा जीव आत्मा और ब्रह्म इन तीन शब्दोंकी मुख्यताकी दृष्टिसे प्रयोग करें तो बहिरात्माका नाम तो जीव है और अन्तरात्माका नाम आत्मा है और परमात्माका नाम ब्रह्म है। यद्यपि जीव ही सबका नाम है, आत्मा ही सबका नाम है और ब्रह्म ही सबका नाम है, फिर भी उन शब्दोंमें जो अर्थ भरा है उसकी दृष्टि प्रमुख करके विचारा जाय तो जीव शब्दका प्रयोग बहिरात्माके लिए अधिकतर होना चाहिए।

वचनव्यवहार— यह जीव संसारमें परिभ्रमण कर रहा है। ऐसा ही तो लोग बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कहते हैं कि यह ब्रह्म संसारमें परिभ्रमण कर रहा है। यद्यपि उस ही पदार्थका नाम जीव है, उसही पदार्थका नाम ब्रह्म है फिर भी तीनों शब्दोंके बोलनेकी शैली तो देखो— यह जीव ८४ लाख योनियोंमें भ्रमण करके जन्म मरणके संकट भोग रहा है यों तो बोलेंगे, पर ऐसा बोलते हुए नहीं सुना है कि यह ब्रह्म ८४ लाख योनियोंमें भ्रमण करके दुःख भोग रहा है। इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि ये सभी शब्द चेतन पदार्थोंके नामांतर हैं, फिर भी जो इसमें अर्थ भरा है, जो इसमें पद्धति भरी है उस दृष्टिसे बहिरात्मा के लिए तो जीव शब्दका बोलना अधिक उपयुक्त है और ज्ञानीसंत अन्य आत्माओंके लिए आत्मा शब्दका बोलना अधिक उपयुक्त है और प्रभु मुक्त जीवोंको ब्रह्म शब्दसे बोलना अधिक उपयुक्त है। यह अन्य लोगोंकी भाषामें समन्वय करते हुए इस दृष्टिसे बताया गया है।

जीव शब्दकी व्याख्या— विभिन्न पदविधियों वाली यह दृष्टि इस

गाथामें नहीं अपनायी गयी। यह तो जीव शब्दके लिए कहा गया है। जीव किसे कहते हैं? जो दश प्राणोंकरि जिया था, जी रहा व जिविगा उसे जीव कहते हैं। प्राण १० होते हैं। ५ इन्द्रिय, ३ बल और १ स्वासोच्छ्वास और १ आयु। इन १० प्राणोंमें जो ५ इन्द्रिय प्राण हैं इनमें भावेन्द्रियकी मुख्यता है, द्रव्येन्द्रियकी मुख्यता नहीं है। तभी तेरहवें गुणस्थान में कितने प्राण होते हैं? ऐसा प्रश्न किए जाने पर उत्तर आता है कि चार प्राण होते हैं। ५ इन्द्रिय प्राण नहीं रहे और एक मनोबल नहीं रहा तो यह भावेन्द्रियमें उपयुक्त होता है। कोई एकेन्द्रिय जीव मरकर मनुष्य होने जा रहा हो तो विप्रहृतिमें प्राण कितने होते हैं? ऐसा प्रश्न किया जाने पर उत्तर आता है कि ७ प्राण होते हैं। ५ इन्द्रिय १ आयु और १ कायबल। तो वहां इन्द्रियोंका निर्माण तो हुआ नहीं। एकेन्द्रियसे मर कर जा रहा है। मनुष्य बनेगा, वहां क्षयोपशमरूप इन्द्रियां आ गयीं इस लिए पांच इन्द्रिय प्राण माने हैं। तो उसके विप्रहृतिमें ५ इन्द्रिय प्राण होते हैं अर्थात् सुननेकी शक्ति, चखनेकी शक्ति, सूँघनेकी शक्ति, देखने की शक्ति, भोंगनेकी शक्ति, इस तरह ५ इन्द्रिय प्राण होते हैं तथा एक कायबल व १ आयु यों ७ प्राण कहे गये हैं। पांच इन्द्रिय, तीन बल, मनोबल, वचनबल, कायबल और स्वासोच्छ्वास तथा आयु तो १० प्राणों करके जो जी रहा है या जीता था उसका नाम जीव है। भगवानके तो १० प्राण ही नहीं हैं। पर भगवान् भी १० प्राणों करके जीते थे तो उनका भी नाम जीव है। जीव अजन्त होते हैं।

जीव शब्दका निश्चयदृष्टिसे अर्थ—व्यवहारसे तो यह जीव १० द्रव्यप्राणोंको धारण करनेसे है, किन्तु निश्चयसे भावप्राणोंके धारण करने से यह जीव है। अर्थात् जो चेतन्यप्राणों करके जीवे उसका नाम जीव है। यह लक्षण सब जीवोंमें सीधा चला जाता है। और जो द्रव्य प्राणोंके धारण करने से जीवे उसे जीव कहते हैं। यह कथन व्यवहारदृष्टिसे है। अब इस ही जीवको कई भागोंमें बाँटते चले जाए।

तीन पद्धतियोंमें जीव तत्त्वका अवगम—कार्यशुद्ध जीव, अशुद्ध जीव और कारण शुद्ध जीव। इन तीनोंकी व्याख्या कर रहे हैं। कार्य शुद्ध जीव तो अरहंत सिद्ध है। केवल ज्ञानाधिक शुद्ध गुणोंके जो आधारभूत है उनको शुद्ध कार्यजीव कहा जाता है। यह निश्चयनयसे नहीं कहा जा रहा है, व्यवहारसे कहा जा रहा है, किन्तु यह व्यवहार शुद्ध संदुभत है। जैसा व्यक्त है और पवित्र शुद्ध है, वैसी बात कही जा रही है और वही जीव।

जीवकी अवस्थायें— जो अशुद्ध जीव है वह अशुद्ध जीव कहलाता है अर्थात् जो विभाव परिणामन वाला है, विभावसे परिणत है, मति ज्ञानादिकके जो आधार हैं उनको अशुद्ध जीव कहते हैं। रागद्वेष मोह सभी ले लो, यह अशुद्ध सद्भूत व्यवहारसे है। परिणामन सब जीवोंके हैं। चाहे सम्यग्दृष्टि जीवके रागादिक हों तो भी राग परिणामन जीवके ही हैं, पुद्गल की अवस्थाएँ नहीं हैं। और चाहे मिथ्यात्व दशामें हो तो भी वे परिणामन जीवके ही हैं पुद्गलके नहीं होते हैं।

कारणशुद्ध जीव — ज्ञानी व अज्ञानीके अन्तर यह हो जाता है कि अज्ञान दशामें तो विभावका परिणामन भी है व उनका उपयोगसे कर्ता भी है। किन्तु ज्ञानी छद्मस्थ पुरुषकी हालत इसमें एक अंगकी रह गयी। अर्थात् परिणामन तो वहाँ विभावका होता है, पर उपयोगसे कर्ता नहीं रहा और वीतराग प्रभुमें न परिणामन ही है और न कर्तृत्व ही है। पर जहाँ भी विभावरूप यह परिणामन है रागादिकका वह जीवके ही गुणोंका विभाव परिणामन है, वह अशुद्ध है किन्तु सद्भूत है। अशुद्ध सद्भूत व्यवहारसे यह अशुद्ध जीव है, और शुद्धसद्भूत व्यवहारसे कायशुद्ध जीव है।

कारणशुद्ध जीव कौन है जो रागादिक परम स्वभावरूप गुणोंका आधारभूत है वह कारणशुद्ध जीव है। यह शुद्ध निश्चयसे कहा जा रहा है अर्थात् किसी अन्यकी अपेक्षा न रखकर केवल जीवके अंतस्तत्त्वको निरखकर कहा जा रहा है। यह अनादि अनन्त अहेतुक सहज स्वभावरूप कारण शुद्ध जीव है।

चेतनके गुण— यह जीव चेतन है और इसके चेतन गुण हैं। चेतनके गुण चेतन होते हैं लेकिन अर्थपरत्त्व दृष्टिसे देखा जाय तो इस जीवमें चेतने वाले गुण दो ही हैं—ज्ञान और दर्शन। बाकी श्रद्धा, आनन्द अस्तित्वादिक साधारण गुण अमूर्तता सूक्ष्मता आदि ये सब अचेतनगुण हैं अर्थात् ये चेतने नहीं हैं, किन्तु इन चेतन पदार्थोंका असाधारण गुण चेतन है ज्ञान दर्शन है, इसलिए बाकी सब गुण इस असाधारण गुणके ही मानों रक्षक हैं, इसमें ही तन्मय हैं सो जो असाधारण गुणमें तन्मय हैं, असाधारण गुणवानके साथ तन्मय हैं वे सब चेतन गुण ही कहलाए।

चेतनके असाधारण गुणकी रक्षासूचक गुण— अथवा इस दृष्टिसे देखो। जीवका जो चैतन्यगुण है उस चैतन्य गुणकी रक्षा करनेके लिए ही अन्य सब साधारण और असाधारण गुण हैं। कैसे कि इस जीवमें सूक्ष्मत्व गुण नहीं होता तो ज्ञान दर्शनका रूप ही क्या बनता? जीवके रूप, रस, गंध स्पर्शता होती, तो क्या यह जानने देखनेका काम कर सकता था?

नहीं। इसी प्रकार सब गुणोंकी बात देखते जायें तो सब गुण इस चेतनके चेतन हैं। यह अमूर्त है, रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित है और इसके सारे गुण अमूर्त हैं। ज्ञान अमूर्त, दर्शन अमूर्त।

पदार्थमें विभुत्व शक्तिकी विशेषता— देखो भैया ! यद्यपि गुणके काम अपने-अपने जुदा-जुदा हैं पर एक गुण सब गुणों को अपना गुणात्मक बना लेता है। यह विशेषता द्रव्योंमें पायी जाती है। ३३ शक्तिका नाम है विभुत्वशक्ति। आत्मामें अमूर्तक गुण हैं, तो लो सारे गुण मूर्ति हो गए। ज्ञान अमूर्त, दर्शन अमूर्त अर्था अमूर्त। कोई गुण है ऐसा जो अमूर्त न हो ? कोई नहीं है। आत्मामें एक सुक्ष्मत्व गुण है। लो देखो सारे गुण सूक्ष्म हैं। कोई गुण स्थूल है क्या कि हाथमें पकड़कर दूसरेको दे दें। लो आत्माका एक गुण हम रखलें। कोई गुण स्थूल नहीं है। इस आत्मामें जो गुण हैं वे अमूर्त गुण हैं। यह जीव शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। जब शुद्ध है तब इसका शुद्ध गुण है, इसकी शुद्ध पर्याय है और जब अशुद्ध पर्याय है तो इसका अशुद्ध गुण है अर्थात् अशुद्ध पर्याय परिणत है। इस तरह समग्र जीव इस लोकमें अनन्तानन्त पाये जाते हैं। वे सब जीव प्रत्येक जीवसे परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं।

मोहीका वस्तुस्वरूपसे विरुद्ध अपलाप— भैया ! राग और मोहका उदय बड़ा विचित्र है। देखो सब जीव यद्यपि एकस्वरूपी हैं परंतु उनका स्वभाव समान है फिर भी उन जीवोंमें यह मोही ऐसी छटनी कर लेता है कि लो ये दो जीव तो मेरे हैं, खास हैं, मेरे बिल्कुल मिले हुए हैं, मुझमें इनका बड़ा स्नेह है, ये दूसरेके दो भी नहीं सकते हैं। ये मेरे खिलाफ बन ही नहीं सकते हैं, ये मेरे अहितरूप हो ही नहीं सकते—ऐसा विश्वास यह क्यामोही जमाये हुए है।

धर्मपालनके समयका साहस— भैया ! धर्मपालनके समय तो मोह को छोड़ो। अन्य समयोंमें नहीं छोड़ा जा सकता तो कमसे कम जब हम धर्मके पालन करनेकी अपनेमें बाँग या कल्पना करते हैं, संकल्प बनाते हैं उस समय दिलमें ऐसा उदार गम्भीर होना चाहिए कि मेरे लिए सब जीव समान हों, उन जीवोंमें अमुक मेरा है, अमुक पराया है यह भेद नहीं रहना चाहिए।

कर्तव्यपरायणताका एक दृष्टान्त— एक ऐसा ही पुराणमें वृत्तान्त आता है कि एक राजा पर एक दिशासे दुश्मनोंने चढ़ाई की। राजा अपनी सेना लेकर उस शत्रुसे भिड़ने चला गया और सिंहासनपर रानी को बैठा दिया कि तुम राज्यकी व्यवस्था बनाओ। इतनेमें दूसरी दिशासे दूसरे शत्रु

ने आक्रमण कर दिया। सो रानीने सेनापतिको बुलाया कि ऐ सेनापति तुम शीघ्र ही सेना सजाकर मुकाबला करो। सेनापति जैन था। वह बड़ी सेना सजाकर लड़ने के लिए चल दिया। रास्तेमें शाम हो गई। रास्तेमें वह हाथी पर बैठा-बैठा ही सामायिक करने लगा। और वही सब पाठ बोलने लगा। एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पंचइन्द्रिय सब जीव मुझको क्षमा करो। इस प्रकारसे फूल पत्ती सबसे क्षमा मांगी, सामान्यकथनमें सभी जीव आ गये। सो मानों गधा, कुत्ता, सभीसे क्षमा मांगी। यहां एक चुंगलखोरने आकर रानी से चुंगली कर दी कि तुमने अच्छा सेनापति भेजा जो पेड़ पौधोंसे, छोटे-छोटे जीवोंसे भी क्षमा मांगता है, वह शत्रुसे मुकाबला क्या करेगा ?

पांच दिनके अन्दर ही सेनापति विजय प्राप्त करके लौटा। रानीसे मिला तो रानी पूछती है कि ऐ सेनापति ? हमने सुना है कि तुम छोटे-छोटे कोड़ोंसे, पेड़ पौधोंसे भी क्षमा मांगते हो, तम कितने कायर हो ? तुम ने उस पर विजय कैसे प्राप्त कर ली ? तो सेनापति उत्तर देता है कि महाराजी जी, हम आपके नौकर दिनमें २३ घंटेके हैं। एक घंटेको हम अपने नौकर हैं। उन २३ घंटेमें चाहे हम सो रहे हों, चाहे खा रहे हों, किसी समय जो हुकूम हो, राज्यका कोई काम आए फौरन तैयार रहता हूं, किन्तु जो एक घंटा अपनी सेवाका हमने रखा है उस एक घंटेमें सब बिकल्प छोड़कर केवल अपने आत्माकी सेवा करता हूं। तो वह शामके टाइम पर आत्मसेवाका समय था और आत्मसेवा इसीमें है कि सारे जीवोंको अपने समान माना जाय। न कोई शत्रु है और न कोई मित्र है सब जीवोंका स्वरूप एक समान है। तो मेरे प्रसादसे किसी भी जीवको कोई कष्ट पहुंचा हो तो उसको क्षमा हम प्रतिदिन मांगने हैं। सो अपनी सेवाके समय हमने अपना काम किया और जब आपकी सेवाका समय आया तो खुदमें डटकर मुकाबला किया। इस तरह विजय प्राप्त करके आया।

धर्मसाधनाका पूर्ण अवधान— भैया ! तो वह तो था लड़ाईका प्रसंग। यहां तो सिर पर लड़ भी नहीं बरब रहा है। हम २४ घंटेमें एक घंटा जो धर्मके लिए निकालते हैं उसमें हम किसी परका बिकल्प न करके सच्ची लगनसे यदि आत्माकी सेवा करें तो वह हमारा धर्म पालन सही दिलसे है। पर होता कहां है ? चाहे अन्य मंदिरोंमें या मस्जिदोंमें या गिरजाघरमें शांति मिल जाय, पर यहां न मिलना चाहिए। मंदिरकी द्वारमें घुसते ही मौनका व्रत हो जाता है। गिरजाघरमें जिसने देखा हो, एक सूई

की भी आइट नहीं होती है जब उनकी स्तुतिका टाइम होता है। पर यहां देखो तो धर्मसाधनाके अनुकूल भी हम वातावरण बनाए रहें, ऐसी बात रखने की कोशिश नहीं करते। शांतिसे दर्शन करें, चुपके से रहें, मौनसे दर्शन हो, मौनसे पूजन हो।

मौनका प्राधान्य— भैया ! आपके ग्रन्थोंमें भी बताया है कि पूजा मौनसे होनी चाहिए। ७ स्थानोंमें मौन बताया है ना, उसमें एक पूजा भी आ गयी। वहां यह अर्थ कर डालते हैं कि पूजाकी बात तो जोर-जोरसे करना, बाकी बातें न करना इसका नाम मौन है। भोजनके समय भी-मौन बताया, वहां क्यों नहीं भोजनकी बात बोलते ? टट्टी, पेशाबके समयमें भी मौन बताया है वहां भी आप प्रसंगकी बात जोरसे क्यों नहीं चिह्ताकर कहते कि टटीका लोटा ले आवो। अरे भाई थोड़ा-थोड़ा बढ़-बढ़कर बात रखो तो अब चिल्लाकर पूजन करते हुएमें कभी कहां लड़ाई भी हो जाती, कभी कभी घरकी बातें भी पूछने लगें, कोई लड़का आकर पूछने लगे कि दहा चाची कहां धरी है ? तो पूजन करते हुएमें बोल देते हैं कि जाओ मंढरियामें चाची धरी है, वहां जाकर देखा।

धर्मकी एकग्रता— एक बार सहारनपुरमें च दुर्गास विद्या, वहां पर जैन वागका जो बड़ा मंदिर है ना, उसमें हमने कहा कि भाई १५ दिन को यह नियम रखलो कि इस मंदिरकी देहरीमें पैर धरते ही सभी लोग सुबहसे १० बजे तक मौनसे रहेंगे। सो प्रातःकालसे १० बजे तक जो भी लोग दर्शन पूजन करने वाले आएँ, सभी मौनसे दर्शन पूजन करते थे। जब यह १०-१२ दिन तक क्रम चला तो जो लोग पूजा कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे उन लोगोंसे हमने शामको पूछा कि भाई होइल्ला करके पूजन करने से ज्यादा आनन्द मौनसे पूजन करनेमें आता है या नहीं ? तो उन्होंने कहा कि हां आता तो है। तो यों धर्मके समयमें हमें धर्मका ही ख्याल करना चाहिए और विकल्पोंको तोड़ देना चाहिए।

आत्मचतुष्पदी— जो जीव बाह्य पदार्थोंमें आत्मरूपसे श्रद्धान कर रहे हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं और जो अपने अंतःस्वरूपको आत्मरूप से मानते हैं उन्हें अन्तरात्मा कहते हैं और जो निर्दोष पूर्ण विकासमय हो गए हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। इन तीन आत्मार्थोंमें जो सहजस्वरूप हैं उन्हें समयसार कहते हैं अथवा कारणशुद्ध जीव कहते हैं। इस कारण शुद्ध जीवके आश्रयसे शुद्ध परिणतियां प्रकट होती हैं। अपने आपमें कैसी शक्ति है, क्या स्वभाव है ? यह जाने बिना शक्तिकी व्यक्ति नहीं होती। इस प्रयोजनका पूरक जीवके सम्बन्धमें दर्शन चला था।

जीवकी शुद्धता और अशुद्धता— यह जीव पर्यायरूपसे शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकारसे होता है। जब तक जीव अशुद्ध है, इसकी पर्याय अशुद्ध है और इसी कारण गुण भी अशुद्ध हैं, यद्यपि गुणोंको स्वरूपदृष्टिसे निरस्वा जाता है। तो शक्ति न शुद्ध होती, न अशुद्ध होती, गुण तो जो हैं सो ही हैं, किन्तु पर्याय कोई गुणोंसे भिन्न नहीं हुआ करता है। इस कारण गुणों को भी अशुद्ध कह सकते हैं। पर्याय तो अशुद्ध है ही और जब यह जीव शुद्ध हो जाता है तो इसके गुण शुद्ध थे ही और सर्वथा शुद्ध हो गए, इसकी पर्याय भी शुद्ध होती है। इस जीवतत्त्वको जानकर यहां इस बात पर बल देना है कि इस जीवकी सब अवस्थाओंमें रहने वाला जो सहज स्वभाव है उस सहज स्वभावका परिचय अनुभव आश्रय हुए बिना जीवके शुद्धवृत्ति प्रकट नहीं होती।

दुर्लभ समागमके स्तुपयोगका अवसर— भैया ! आज बड़ी योग्यता वाले भवमें हम आप आए हैं और ऐसे उत्कृष्ट समागमको पाकर भी विषय कषायोंरूप घने रहते हैं और इस परिणतिसे यह दुर्लभ नरजीवन यों ही व्यतीत हो जाता है। जो समय व्यतीत हो चुकता है वह किनना ही उपाय किया जाय वापिस नहीं आया करता है। जिसकी जो उम्र हो चुकी है, उससे पहिला समय चाहे कि वापिस आ जाय तो क्या आ सकता है ? नहीं आ सकता है। छोटे बच्चोंको उधलते कूदते देखकर आप भी यह सोचें, चाहे कि यह स्थिति जरा देरको आ जाय तो भरकर चाहे आ जाय पर जिन्दगीमें वह बचपनकी अवस्था कहांसे लावोगे ? बचपनकी अवस्था तो दूर जाने दो—एक मिनटको भी एक समय पहिलेकी अवस्था नहीं ला सकते। तो कितने बेगसे हम आपके जीवनके क्षण गुजर रहे हैं और उन क्षणोंमें हम विकार विकल्प ममता जिनसे सिद्ध नहीं है उनमें उदरोग निरन्तर बनाए रहते हैं।

हमारा प्रयोजन— परवस्तुके प्रति जो निरन्तर विषय बनते हैं उन विकल्पोंके कारण परपदार्थोंके परिणामन हो जाते हैं क्या ? उनमें अपने विचारनेके अनुसार कार्य होता है क्या ? नहीं ! उनसे तो कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। बाह्यमें उनका जो कुछ होता है वह होता है। उनमें हमारे विचारका कार्य कारण सम्बन्ध भाव नहीं है, तिसी परकी दशा सुधारने विगाड़नेकी क्षमता नहीं है, फिर भी हम अपनेबो कर्ता मानने का आशय अन्तरमें बनाए हुए हैं उससे ही विपत्तियां आती हैं। इस जीवतत्त्वको जानकर इस बात पर आना है कि हम बाह्यके विकल्पोंको तोड़कर और अपने आपके सम्बन्धमें भी अधः भावके विकल्पको तोड़कर सहजस्वभाव

की दृष्टि बनाएँ, इस पद्धतिसे जीवतत्त्वको जानें तो यह तत्त्वार्थ श्रद्धानका काम करेगा।

पुद्गल तत्त्वार्थ— दूसरा द्रव्य है पुद्गल, जो गलन और पूरणका स्वभाव रखता है उसे पुद्गल कहते हैं। जो विशाल बन जाये, गलकर टुकड़े हो जाये ऐसा विद्धङ्गनेका और जुड़नेका जिसमें स्वभाव पड़ा हुआ हो उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। कोई दो जीव मिलकर एक पिण्ड नहीं बन सकते हैं और जब मिलते ही नहीं हैं तो उन जीवोंके बिलुङ्गने का उपाय ही कहाँसे कहा जाय ? जीव-जीव न तो मिलता है और न बिलुङ्गता है। पुद्गल-पुद्गल तो मिल जाते हैं और बिलुङ्ग जाते हैं अर्थात् वे एक पिण्ड रूप हो जाते हैं और फिर अलग-अलग हो जाते हैं। परमार्थसे तो उन पुद्गलोंमें भी एक अणु दूसरे अणुका सत्त्व नहीं रखता है, लेकिन ऐसा पिंड रूप हो जाता है कि वे मिलकर एक हो जाते हैं और बिलुङ्गकर अलग हो जाते हैं।

पुद्गलको छोड़कर अन्य द्रव्यमें पूरण गलनका अभाव— पुद्गल को छोड़कर अन्य किसी भी द्रव्यमें यह बात नहीं है। धर्मद्रव्य एक है वह भी किसी द्रव्यमें मिल नहीं सकता। अधर्मद्रव्य भी एक है, वह भी अन्य-द्रव्यसे मिल नहीं सकता। आकाश काल ये भी किसी अन्य द्रव्यमें नहीं मिलते और जीव भी किसी अन्य द्रव्यसे नहीं मिल सकता। पुद्गल पुद्गलके साथ ही वंघनको प्राप्त होकर एक पिंड होता है। दृश्यमान् ये समस्त पदार्थ जैन सिद्धान्तमें पुद्गल शब्दसे कहे गए हैं।

पुद्गल शब्दकी उपयुक्ता— पुद्गल शब्दको छोड़कर और कोई शब्द ऐसा फिट नहीं बैठता है इस चीजको व्यपदिष्ट करनेमें कि पूरा भाव आ जाय और वह अर्थ किसी दूसरे पदार्थमें न जाय। बतावो कौनसा ऐसा नाम है ? एक नाम प्रसिद्ध है भौतिक पदार्थ। रूद्विश नाम घर लें, पर भौतिकका अर्थ क्या है कि जो होवे सो भूत और भूतोंकी जो अवस्था है उसे भौतिक कहते हैं। होता क्या नहीं है। सभी हैं और उनकी अवस्था चलती है ? कौनसा शब्द है जिससे हम इसका ठीक नाम कह सकें ? पुद्गल शब्द एक ऐसा व्यापक अर्थ भरा शब्द है कि सब द्रव्योंको छोड़कर समस्त परमाणुवाँमें इसका अर्थ मिलता है। जो पूरे और गले सो पुद्गल है। पूरनेका अर्थ है कि बहुतसे पुद्गल मिलकर एक पिंड बन जायें और गलनेका अर्थ है कि वे बिखर जायें। ऐसे पूरने गलनेके स्वभाव से युक्त पुद्गल द्रव्य होते हैं।

पुद्गल द्रव्यकी विशेषता— पुद्गल द्रव्यकी विशेषता है मूर्तपना।

रूप, रस, गंध, स्पर्श इन शक्तियोंका इनके परिणामनका आधारभूत जो होता है उसे मूर्त कहा करते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श केवल पुद्गलद्रव्यमें ही पाये जाते हैं। जीवमें कोई रंग नहीं होता कि कोई नीला हो, पीला हो, काला हो, सफेद हो, न कोई इसमें रस है कि खट्टा हो, मीठा हो और न स्पर्श है कि कोई जीव चिकना हो, रुखा हो, ठंडा हो या गर्म हो। न किसी प्रकारकी गंध है। यह तो केवल ज्ञान द्वारा ही ज्ञानमें आ सकने योग्य है जीव, किन्तु पुद्गलमें रूप, रस, गंध, स्पर्श ये चारों शक्तियां पायी जाती हैं। इनके समस्तगुण मूर्त हैं। जैसे चेतनमें बताया गया था कि चेतनके समस्तगुण चेतन हैं, पर गुणके निजी स्वरूपको देखकर यह भेद किया जा सकता है कि चेतने वाले गुण तो इसमें दो ही हैं और शेष गुण सब न चेतने वाले हैं अर्थात् अचेतन हैं। इसी तरह पुद्गलद्रव्यमें जो अस्तित्वगुण पाया जाता है वह क्या मूर्त है? मूर्त पुद्गलमें पाया जाता है इसी कारण मूर्त है, पर अस्तित्वका निजी स्वरूप न रखे तो अस्तित्व तो कोई रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं रख रहा है, उसका काम तो "है" करना है। लेकिन वह अस्तित्व रूपादिक्रमयतासे पृथक् नहीं है। इस कारण पुद्गल में जितने भी गुण हैं वे सब मूर्त गुण हैं ये अचेतन हैं और इनके जितने भी गुण हैं वे सब अचेतन हैं। पुद्गल में चेतनगुण कोई नहीं है।

पुद्गलकी गति शक्ति— पुद्गलमें क्रियावती शक्ति भी पायी जाती है। वैसे देखनेमें तो क्रिया पुद्गलमें मालूम होती है, जीवमें नहीं मालूम होती है, पर कुछ विचारनेसे क्रिया जीवमें मालूम होती है, पुद्गल में नहीं मालूम होती है। लेकिन क्रिया दोनों द्रव्योंमें है। भले ही पुद्गल की क्रियामें अन्य कोई पुद्गल अथवा जीव निमित्त होता है, लेकिन क्रिया रूपसे परिणत द्रव्य ही अपनी क्रियाको करता है। पुद्गलमें यह गमन करनेकी शक्ति है, मोटे रूपसे देखने पर ऐसा लगता है कि यह पुद्गल जब पिंड रूप बनता है तो इसमें अन्यके प्रयोगवशा इसकी गति-बुद्धि करती है, पर बात ऐसी नहीं है। यह भी है बात, पर पुद्गलमें गति स्वभावसे पड़ी हुई है। एक अणु जितनी तीव्रगति कर सकता है उतनी तीव्र गति पुद्गल स्कंध नहीं कर सकता है। एक परमाणु १ समयमें १४ राजू तक गमन कर सकता है पर कोई पुद्गल स्कंध १ समयमें १४ राजू गमन नहीं कर पाता है। कदाचित् ऐसा हो सकता है कि कोई जीव नीचेसे गुजर कर लोकके अंतमें उत्पन्न होवे, अशुद्ध जीवकी बात यह हो सकती है तो वह एक समयमें १४ राजू पहुंच जायेगा और उसके साथ जो तैजस स्कंध हैं, कामीण स्कंध हैं वे एक समयमें पहुंच जायेंगे पर स्वतंत्र जीवका

सम्बन्ध न पाकर पुद्गल स्कंध गमन न कर पाये, पर परमाणुमें इतनी शक्ति है कि एक समयमें वह १४ राजू तक गमन करता है। तो यह गति क्रिया-पुद्गलमें भी पायी जाती है और जीवमें भी पायी जाती है।

जीव और पुद्गलके विवरणकी विशेषता— इन ६ द्रव्योंमें दो द्रव्योंका अधिक परिचय है और ये ही दो द्रव्य बोलने चालनेमें चर्चामें सब काम आते हैं। इन ही दो द्रव्योंका वर्णन शास्त्रोंमें विस्तारसे है। धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्यके सम्बन्धमें कभी थोड़ासा वर्णन आता है और जितने ग्रन्थ भरे पड़े हैं वे सब जीव और पुद्गलकी बात बताने से भर गए हैं।

पदार्थका एकत्व इस पुद्गलद्रव्यको जानकर हमें शिक्षाकी बात क्या मिलती है? प्रथम तो ज्ञानकलासे पुद्गलको जाना जाय। एक-एक अणु ही वास्तवमें पुद्गलद्रव्य है, और उन अणुओंका केवल अपने आपमें ही परिणामन है। उस प्रत्येक अणुमें रूप, रस, गंध, स्पर्श चार शक्तियां हैं। वे अपने उपादान कारणसे परिणामते हैं और कदाचित् अन्य अणुका निमित्त पाकर वह बंधनरूप भी हो जाय, एक पिंड भी बन जाय, किसी भी परिस्थितिमें हो तो भी प्रत्येक अणुका उस-उस अणुमें ही अपना-अपना परिणामन है।

वस्तुके एकत्वके दर्शनमें हितोद्गम— कोई अणु किसी दूसरे अणु में परिणामन नहीं करता है और ऐसे पुद्गलको स्वतंत्र दृष्टिसे देखा जाय और अणु ही अणु आपके उपयोगमें रह जाय तो फिर यह भीत और ये मकान ये सब चीजें आपके उपयोगमें जायेंगीं। आपके घरमें ये मायारूप स्थान नहीं पा सकते, जब कि पुद्गलकी स्वतंत्रताकी दृष्टि उपयोगमें वर्त रही हो। अच्छा है, सब ढा जाओ। इन्हें सबके उपयोगमें रहनेसे मेरी बरबादी ही है, कुछ हिस नहीं हो रहा है, व्यर्थकी बातों में समय गुजरता है। व्यर्थकी कल्पनाओंमें यह जीवन व्यतीत होता है। न चाये यह माया रूप कुछ उपयोगमें यह बहुत भली बात है। किन्तु ऐसी स्थिति कहां बन पाती है? गृहस्थावस्थामें तो अनेक बातें, अनेक भंगद, अनेक कर्तव्य हैं, सबकी ओर निगाह रखना होता है। फिर भी कुछ समय जरूर ऐसा होना चाहिए कि जिस समय केवल अपनेमें अपने ही नातेका कार्य हो। अपने से भिन्न समस्त पदार्थोंका विस्मरण करदें। ऐसा एक आध मिनट भी समय व्यतीत हो तो इस तरह प्राप्त होने वाली शुद्धिका प्रभाव रात दिन रह सकता है।

शुद्ध दर्शनका प्रभाव— भैया ! बिजलीका कितना परिमाण है पर

उसका असर कितना व्यापक है ? उससे भी अधिक शुद्ध अंतस्तत्त्वकी सत्तामात्र देखनेका भी असर इस रात दिनमें रह सकता है। जैसे किसी विलक्षण बातके निरखनेसे घंटों तक उसकी याद और उसका असर रहा करता है। तो सर्व लोकसे विलक्षण एक निज अपूर्व अनुभूतिका असर प्रभाव संस्कार और आनन्दका तांता बहुत काल रह आये तो उसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

पदार्थोंकी भूतार्थपद्धतिसे अभिगतता— पदार्थोंको हम भूतार्थ पद्धतिसे निरखा करें। ये परिणामन हैं, ये परिणामन अमुक-अमुक गुणके हैं और वे समस्त गुण एक भेद मात्र हैं, वे सब एक द्रव्यरूप हैं, अमुक द्रव्य रूप है। इस तरह पर्यायों को जानकर गुणोंमें विलीन कर लालें और फिर गुणोंको जानकर गुणोंको द्रव्यमें विलीन कर सकें तो इस प्रकारसे पदार्थका निरखना सम्यक्त्वका कारण बनता है और यही तत्त्वार्थ अज्ञान कहलाता है। यों तो सभी अज्ञा रख रहे हैं यह भीत है, यह मकान है, यह दूरी है, और जो जैसी चीज है वैसी सब जान रहे हैं पर ऐसा जानना सम्यक्त्वका कारण नहीं है किंतु स्वरूपविपर्यय कारणविपर्यय भेदाभेद विपर्यय इन—तीन विपरीत आशयोंसे रहित भूतार्थ पद्धतिसे विचारो तो जो ये ज्ञान विकल्प हैं, वे सम्यक्त्वका कारण हुआ करते हैं।

सम्यक्त्वका भाव— सम्यक्त्वका अर्थ है समीचीनता, भलापन। यह समीचीनता विधिरूपसे हम कैसे ज्ञात करें ? विधिरूपसे जो ज्ञात होगा वह ज्ञानमें शामिल हो जायेगा। तब उसको आचार्योंने विपरीत अभिप्राय रहित आशयको सम्यक्त्व कहा है। इस प्रकार निषेधके रूपसे वर्णन किया है।

रत्नत्रयमें गुणत्रयी— सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंको हम उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यकी मुख्यतासे निरखा करें तो इसका स्वरूप शीघ्र ध्यानमें आता है। सम्यग्दर्शन है विपरीत अभिप्रायके व्ययका नाम। सम्यग्ज्ञान है तत्त्वके निर्णयका नाम और सम्यक्चारित्र है ज्ञानकी ध्रुवताका नाम। तो सम्यक्चारित्र ध्रौव्यका मापक है और सम्यग्ज्ञान उत्पादका और सम्यग्दर्शन व्ययका मापक है। चीज आत्मामें एक होती है, तीन नहीं होती हैं। पर वह एक ऐसी विलक्षण परिणति है कि उस परिणतिको हम यथार्थ एक शब्दमें नहीं बता सकते हैं। तब जितने कार्य होते हैं याने परिणामन विदित होते हैं उन परिणामनोंके द्वारा हम वस्तुके स्वरूप पर पहुंचते हैं तो जो अज्ञाका परिणामन है वह है दर्शन, जो जाननका परिणामन है वह है ज्ञान और जो स्थिरताका परिणामन है वह

है चारित्र ।

उद्देश्यकी व्यक्ति— भैया ! जिस व्यक्तिके जो अन्वहनी इच्छा होती है वह व्यक्ति किसी भी जगह पहुंचे वह बातचीतमें अपनी ही मुद्दे की बात रख देता है । जैसे जिसको खानेकी हो मनमें लगी है ऐसा पुरुष चार आदमियोंमें बैठ कर जहां थोड़ी गुणियोंकी कथा भी हो रही हो, तीर्थ यात्राकी चर्चा हो रही हो तो बीचमें वह अपनी भोजन सम्बन्धी भी किसी न किसी रूपमें बात रख देगा । वहां अच्छा भोजन बनता है, फलाने के संगमें अच्छा भोजन मिलता है, अमुक महाराजके संगमें सूखा रूखा ही भोजन मिलता है । ऐसी कोई न कोई झलक निकाल ही देगा । जिसको धर्मकी रुचि है वह पुरुष कदाचित् चार आदमियोंकी गप्पोंमें भी फंस गया हो, थोड़ा बोलना भी पड़ता हो तो कोई धार्मिक बात कहे बिना उससे रहा न जायेगा । क्योंकि उसकी धर्ममें ही रुचि और मंसा है । इसी प्रकार जिस ग्रन्थकी जो मंसा होती है, जो ग्रन्थ जिस विषयको लेकर चलता है उस ग्रन्थमें जो कुछ भी वर्णन किया जायेगा उन वर्णनोंके बीचमें अपने उद्देश्यकी बात रखे बिना नहीं रह सकता । यदि अपने उद्देश्यकी पुष्टि न हो रही हो तो वह उस ग्रन्थका भाग ही नहीं है ।

शुद्धोत्तरी पद्धतिका प्रयोग— इसमें जो गुण और पर्यायोंका वर्णन किया गया है उस वर्णनसे हमें ऐसी रीति और पद्धति अपनानी चाहिए और उस पद्धतिसे ही सुनना चाहिए कि जिससे पर्याय गुणोंमें विलीन हो और गुण द्रव्यमें विलीन हो और हमारी दृष्टि एक अभेद रूप बन सके । इस पद्धति और रीतिसे पुद्गल तत्त्वकी जान जाय तो यह भी तत्त्वार्थ कहलाता है । इस तरह तत्त्वार्थका अर्थान हमारे सम्यक्त्वका कारण होता है । इस प्रकरणमें पुद्गलद्रव्यका संक्षिप्त वर्णन हुआ ।

प्रकरण प्राप्त धर्मद्रव्यका स्वरूप— आप्त, आगम और तत्त्वार्थके अर्थानसे सम्यक्त्व होता है, इस प्रसंगमें आप्त और आगमका स्वरूप तो बता चुके थे । इस समय तत्त्वार्थका वर्णन चल रहा है । तत्त्वार्थ ६ होते हैं जिनका यथार्थ अर्थान करने से सम्यक्त्व होता है उनमें जीव और पुद्गल इन दो तत्त्वार्थोंका वर्णन हो चुका है, अब धर्मद्रव्यके सम्बन्धमें कहा जा रहा है । धर्मद्रव्य उसे कहते हैं जो जीव और पुद्गलकी गतिमें निमित्तभूत हो । गति क्रिया केवल जीव और पुद्गलकी होती है अन्यद्रव्य निष्क्रिय होते हैं और साथ ही वैभाविककी शक्ति भी जीव और पुद्गल में होती है । जिससे गति दो-दो प्रकारकी हो गयी—एक जीवकी स्वभाव गति और दूसरी जीवकी विभाव गति । इसी तरह पुद्गलकी दो प्रकार

की गतियां हो जाती हैं—एक तो पुद्गलकी स्वभावगति और दूसरी पुद्गलकी विभाव गति। चाहे स्वभावगतिमें परिणत हों, चाहे विभावगति में परिणत हों, गति परिणत जीव पुद्गलकी उस प्रकारकी स्वभावगति अथवा विभावगतिमें जो निमित्तभूत है उसे अधर्मद्रव्य कहते हैं।

जीव और पुद्गलमें गतिद्वैविध्य— जीवके स्वभावगति होती है, जब जीव अत्यन्त शुद्ध हो जाता है अर्थात् द्रव्यकर्म, नो कर्म, भावकर्म, तीनों प्रकारके नयोंसे सर्वथा रहित हो जाता है अर्थात् सिद्ध होता है। तो उसकी गति स्वभावगति कहलाती है। वह ७ राजू प्रमाण क्षेत्रमें एक समयके उल्लंघक लोकाकाशके शिखर परे विराजमान हो जाता है, और सिद्ध प्रभुकी गतिको छोड़कर शेष समस्त संसारी जीवोंकी गति विभाव गति कहलाती है। जब तक जीवास्तिकायके साथ पौद्गलिक कर्मोंका सम्बन्ध बना हुआ है तब तक जीवकी जो गति होती है वह विभावगति होती है। इसी प्रकार पुद्गलमें जो शुद्ध अखण्ड अणु है उन अणुओंकी जो गति होती है वह स्वभावगति कहलाती है और वह अणु दूसरे अणुओं में बद्ध होकर पुद्गल स्कंधका रूप ले ले तब उनकी जो गति होती है वह विभावगति होती है। दोनों प्रकारकी गतियोंसे परिणत जीव पुद्गलके गमनमें जो हेतुभूत है उसे धर्मद्रव्य कहते हैं।

निमित्त और उपादानके सम्बन्धकी सीमा— प्रत्यसे अथवा आत्म धर्मसे प्रयोजन नहीं है, किन्तु एक ऐसा विशाल अमूर्त द्रव्य अखण्ड पूर्ण लोकाकाशमें व्याप्त है जिसका निमित्त पाकर जीव व पुद्गल अपनी गति क्रियासे परिणत होता है। निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धमें यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि निमित्तभूत पदार्थ अपनी द्रव्यगुण पर्याय क्रिया कुछ भी अपने से बाहर कहीं फेंकता नहीं है, अन्य द्रव्यमें देता नहीं है उसमें प्रेरणाका उपचार किया जाता है। इसका कारण यह है कि परिणतमान उपादान ऐसी अपने में कला रखता है कि अनुकूल निमित्तको पाकर वह उपादान स्वयंकी परिणतिसे उस प्रकार परिणत होता है। इस ही तथ्यको लोकमें शीघ्र प्रसिद्ध करनेके लिए इन शब्दोंमें कहा जाता है कि अमक जगह ऐसा किया।

प्रेरणा वाली बातका उदाहरण— पानी गरम हो गया अग्निका सन्निधान पाकर या सूर्यका सन्निधान पाकर गरमी पैल गयी, इससे और बढ़कर प्रेरणा वाला दृष्टांत क्या दिया जा सकता है? यहाँ भी स्वरूप दृष्ट करके निहारें तो अग्निने अपने द्रव्य गुण पर्यायको अपने से निकालकर पानीमें नहीं डाला, किन्तु ऐसा ही सम्बन्ध है कि अग्निका निमित्त पाकर

यह पानी अपनी शीत पर्यायको छोड़कर उष्णपर्यायरूप परिणम गया। जैसे कोई कभी गाली देने वाला सामने आ खड़ा हो और नाम लेकर गालियां दे दे तो यह सुनने वाला क्रुद्ध हो जाता है। तो खूब आंखोंसे देख लो, क्या गाली देने वाले ने उसके क्रोध पर्याय पैदा की? क्या वहांसे कोई क्रोध की किरणें निकली हैं और इस सुनने वालेमें आयी हैं? हुआ क्या वहां कि यह सुनने वाला स्वयं कषायकी योग्यता रख रहा था, सो अपने आपमें कल्पना बनाकर उस गाली देने वाले को लक्ष्यमें लेकर स्वयं क्रोध रूपसे परिणम गया है।

धर्मद्रव्यकी उदासीननिमित्तता— इसी प्रकार प्रत्येक निमित्त अपने आपमें ही वे अपने सर्वस्व परिणमन किया करते हैं। यह तो उपादानकी ही ऐसी कला है कि योग्य परिणममान उपादान अनुकूल निमित्तको पाकर स्वयं अपनी परिणतिसे परिणम जाता है। जीव और पुद्गलके गमनमें धर्मद्रव्य इसी भांति निमित्तभूत है और कई जगह तो निमित्त पाकर परिणमना अवश्य करके हो जाता है। जैसे अग्निका सन्निधान पाकर जलका गर्म होना। योग्य समय पर सूर्यके सन्निधानमें पथरका तेज गरम हो जाना, परन्तु धर्मद्रव्य और जीव पुद्गलके गमनरूप कार्यमें यह अवश्या वाली बात नहीं होती है। जीव पुद्गल चले, वह अपनी गतिकी यत्न करे तो वहां धर्मद्रव्य निमित्तभूत है।

धर्मद्रव्यके निमित्तत्वका उदाहरण— धर्मद्रव्यकी निमित्तभूतता बतानेके लिए उदाहरण जल और मछलीका उपयुक्त बैठता है। मछलीके गमन करनेमें जल निमित्त है किन्तु वह जल वैसा निमित्त नहीं है जैसा कि अग्निका सन्निधान पाकर जल गरम हो ही जाता है। इस तरह उस मछलीको चलना ही पड़ता है ऐसा नहीं है। वह मछली चलना चाहे चलनेका यत्न करे तो जलका निमित्त पाकर खुशी-खुशी अच्छी कलापूर्ण चालसे लटक मटक कर चला करती है। जलके बिना जमीन पर पड़ी हुई मछली चलना चाहती है, यत्न करती है और बहुत बड़ा यत्न करती है क्योंकि तकलीफ और मारना किसे पसंद है, किन्तु मछली वहां नहीं चल पाती है। तो जैसे मछलीके चलनेमें जल निमित्तभूत है इस ही प्रकार समस्त जीव पुद्गलके चलनेमें यह धर्मद्रव्य निमित्तभूत है।

धर्मद्रव्यकी विशेषता— यह धर्म मूर्तिक है, पूर्ण लोकालोकमें व्याप्त है। कुछ युक्तियोंसे अंदाज होता है और आगममें इसका विशेष वर्णन भी पाया जाता है। है कोई ऐसा सूक्ष्म तत्त्वार्थ कि जिसका आश्रय करके ये जीव पुद्गल गमन करते हैं? एक धर्मद्रव्य एक अखण्ड वस्तु है, वह

अपने आपमें अ पको लिए हुए है। उसका असाधारण लक्षण क्या है यह नहीं बताया जा सकता है। क्योंकि वह व्यवहार्य ही नहीं है, फिर भी वह किसी कार्यमें निमित्तभूत होता है, ऐसी दृष्टि करके इस धर्म-द्रव्यका असाधारण लक्षण गतिहेतुत्व कहा गया है। असाधारण लक्षण वह होता है जो निरन्तर परिणमता रहे। तो धर्मद्रव्यमें असाधारण स्वभाव वह होगा जो निरन्तर अशुरुलघुत्व गुणके द्वारसे परिणमता रहता है। यह गतिहेतुत्व असाधारण लक्षण व्यवहारदृष्टिसे है दो द्रव्योंका या अनेक द्रव्योंका सम्बन्ध बताकर कोई वर्णन करना व्यवहारदृष्टिका कार्य है। हो, पर जिस किसी भी उपायसे द्रव्यकी पहिचान हो सके उसको लक्षण कहते हैं।

धर्मद्रव्यकी व्यापकता— यह गतिहेतुत्व धर्मद्रव्यमें ही पाया जाता है अन्य द्रव्योंमें नहीं पाया जाता है; इसलिए यह असाधारण चिन्ह तो है ही, ऐसा गति हेतुत्व लक्षणसे परिचयमें आने वाला धर्मद्रव्य लोकाकाशमें सर्वत्र व्यापक है। कैसा व्यापक? कि जैसे घड़ेमें पानी भरा हो। उस पानीके बीचमें कोई अंश ऐसा नहीं रहता कि जहाँ पानी न रहे और आसपास रहे। वह तो जितनेमें पानी है खूब व्याप करके है। तत्पर्याय सूत्रमें धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्यकी विशेषता बतानेमें एक सूत्र कहा है। 'धर्माधर्मयोः कृत्स्नो।' धर्म और अधर्मद्रव्यका आवास कृत्स्न लोकमें है। कृत्स्नका अर्थ है सर्व। यह सूत्र आप किसीसे पढ़ायें तो कोई बिरला विद्वान् ही शुद्ध बोल पायेगा। कृत्स्न शब्द इतना क्लिष्ट है कि बिल्कुल शुद्ध जिह्वा चल सके ऐसा बहुत कठिन होगा और अर्थ उसका है सब, सबमें। तो कृत्स्न शब्दके पर्यायवाची और भी शब्द हैं, उन्हें न रखकर पूज्यपाद उमास्वामीने कृत्स्न शब्द रखा है। इसका यह अर्थ है कि जैसे कोई व्याख्यान देता है तो व्याख्यानका आधा मतलब व्याख्यानदाताके मुखसे या हाथसे ज्ञात हो जाया करता है। तो कृत्स्न शब्दके प्रयोगमें जैसे जीभ सारे मुँहमें व्याप करके चल उठी तो आधा ज्ञान लोगों को इससे हो जाता कि धर्म और अधर्मद्रव्य इस तरह व्यापकर हैं जैसे कृत्स्न शब्द कहकर जीभ सारे मुँहमें व्याप जाती है। यह धर्मद्रव्य समस्त लोकमें व्यापक है। अमूर्त अस्वण्ड है। अंश-अंशरूपसे बीच-बीचमें धर्मद्रव्य अंश अंश रूपसे रहे, ऐसा नहीं है।

अमूर्तपदार्थके परिणमनके परिचयकी दुर्गमता— यह धर्मद्रव्य भी निरन्तर उत्पाद व्यय कर रहा है। कैसे उत्पाद व्यय करता है? कौनसी परिस्थिति नई बनती है और पुरानी बिलीन होती है? हम नहीं बता

सकते। ऐसे मूलतत्त्वको आगममें अत परम्परासे बताकर अंतमें यह कहना पड़ेगा कि वह साक्षात् तो वेदकी गम्य है और आगमानुसार अतकेवलियों द्वारा भी गम्य है। अमूर्त पदार्थका क्या परिणामन होता है और पुराना परिणामन कैसे विलीन होता है, इस बातको बताया नहीं जा सकता, किन्तु वेवल जीवद्रव्यकी बात स्पष्ट समझमें आती है कि क्या नया परिणामन होता है और क्या पुराना परिणामन विलीन होता है ?

अमूर्त जीवके परिणामन परिचयकी सुगमताका कारण— जीवद्रव्य की बात इस कारण समझमें आती है कि इसकी बात खुद पर पड़ रही है। यदि यह अमूर्त खुद अपने न होता तो जीवकी बात भी समझमें न आती। बल्कि द्रव्यकर्मका परिचय नहीं हो सकता, पर भावकर्मका परिचय हो सकता है। द्रव्यकर्म यद्यपि मूर्तिक है स्थूल है और भावकर्म तो अमूर्त है, सूक्ष्म है और द्रव्यकर्म भी इस जीवमें ठसाठस पड़ा है और भावकर्म भी इस जीवमें ठसाठस भरा है, लेकिन द्रव्यकर्मका हम परिचय नहीं कर पाते और भावकर्मका हम परिचय कर लेते हैं क्योंकि वह बात तो खुद पर हीत रही है।

धर्मद्रव्यका भूतार्थपद्धतिसे अवगम— ऐसा यह अमूर्त धर्मद्रव्य भूतार्थ पद्धतिसे जानो कि यह धर्मद्रव्य है, वह अनन्त शक्तियोंसे सम्पन्न है और उसका प्रतिसमय परिणामन चलता है। हम यद्यपि परिणामन भी नहीं जान रहे हैं कि धर्मद्रव्यका क्या परिणामन है और परिणामनोंके आधारभूत गुण भी नहीं समझ रहे हैं किन्तु आगम और युक्ति बलसे हम उसे पहिचान रहे हैं। फिर भी है कोई ऐसा पदार्थ जो जीव और पुद्गलके गमनमें निमित्तभूत है ? तो जो भी है वह गुण पर्यायवान अवश्य होता है। उसमें गुण है और उनका परिणामन है। वह परिणामन गुण है और वह गुण एक धर्मद्रव्यरूप है। ऐसा इस अमूर्त धर्मद्रव्यका संक्षेपमें स्वरूप जानना।

अधर्मद्रव्यका स्वरूप— इसके बाद अधर्मद्रव्यका वर्णन किया जा रहा है। जो जीव और पुद्गलकी स्थितिमें निमित्तभूत हो उसे अधर्मद्रव्य कहते हैं। स्थितिके भायने ठहरना। ठहरना और रहना इन दोनोंमें अन्तर है। ठहरना कहलाता है गमन कार्यमें परिणत पदार्थका रुकना इसका नाम ठहरना कहलाता है और फिर सदाकाल बधी रहा करे, वह रहना कहलाता है। रहनेकी बात नहीं कही जा रही है, ठहरनेकी बात कही जा रही है। स्वभावस्थिति और विभावस्थितिकी क्रियामें परिणत जीव पुद्गलकी स्थितिमें जो निमित्तभूत है उसको अधर्मद्रव्य कहते हैं।

स्वभावस्थिति व विभावस्थिति— भैया ! जीवकी स्वाभाविक स्थिति भी होती है। द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म—इन तीनोंसे रहित होने पर यह जीव एक समयमें लोकके अंतमें पहुँचता है तो उस एक समयकी गतिको स्वभावगति कहते हैं और वहाँ ठहर जानेको स्वभाव-स्थिति कहते हैं। उस दशाके अतिरिक्त अन्य समस्त दशाओंमें जो जीवका ठहरना हुआ करता है वह सब विभावस्थिति है। इसी प्रकार शूद्र अणु गति करके ठहरे वह है पुद्गलकी स्वभावस्थिति और पुद्गल स्कंधोंका गति करके ठहरना यह सब है विभावस्थिति। स्वभावस्थिति और विभाव-स्थितिमें परिणत जीव, पुद्गलके ठहरनेमें जो हेतुभूत है उसे अधर्मद्रव्य कहते हैं। इस अधर्मद्रव्यका भी अन्य समस्त वृत्तान्त धर्मद्रव्यकी ही तरह है। यह अमूर्त है, अगुरुलघुत्व गुणके द्वारसे निरन्तर परिणमता रहता है। इसका व्यावहारिक असाधारण लक्षण स्थितिमें निमित्तभूत होना है ये धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य बराबरके विस्तारके हैं। पूरे लोकाकाशमें सर्वत्र व्यापक हैं। यहाँ तक जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म चार तत्त्वार्थों का वर्णन हुआ है।

आकाशद्रव्यका स्वरूप— अब आकाशद्रव्यका लक्षण किया जा रहा है। जो पाँचों द्रव्योंको अवगाह दे, पाँचों द्रव्योंके अवगाहका जो बाह्य आधार हो, निमित्त हो उसे आकाशद्रव्य कहते हैं। पाँचों द्रव्योंका मतलब है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और काल, आकाश तो यह स्वयं ही है। इसका तो लक्षण ही किया जा रहा है। ये समस्त द्रव्य आकाशद्रव्य में अवगाहित हैं। तिस पर भी स्वभावदृष्टिसे देखा जाय तो आकाशमें तो केवल आकाश ही है। आकाशमें जीव पुद्गलादिक अन्य द्रव्य नहीं हैं। यह बात जरा कठिनतासे पहिचानी जा सवेगी, क्योंकि एकदम लोगोंके सही परस्वमें आ रहा है कि बाह हम यह आकाशमें ही तो पड़े हुए हैं।

परमार्थतः प्रत्येकके स्वयंका स्वयंमें अवगाह— भैया ! आकाशका और हम लोगोंका ऐसा सम्बन्ध योग हुआ तो है फिर भी हमारा स्वरूपास्तित्व हममें ही है। किसीका स्वरूपास्तित्व किसी अन्यमें नहीं है। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि हम आकाशसे अलग पड़े थे तो किसीने कृपा करके हमें आकाशमें धर दिया हो कि भाई तुम आकाश बिना गड़बड़ ढंगमें क्यों पड़े हो ? आकाशमें कलात्मक ढंगसे रहो, ऐसा तो किया नहीं गया। अनादिसे ही आकाश है और वे ही के वे ही अनादिसे हम आप हैं। तो परमार्थसे किसे आधार कहा जाय और किसको आधेय कहा जाय ? निश्चयसे यद्यपि ऐसा है, फिर भी हम जब बाह्य प्रसंगको देखते हैं तो यह

वात भी सत्य है कि पांचों द्रव्योंका अवगाह आकाशमें है। और आकाश कहते उसे हैं जो पांचों द्रव्योंको अवगाह देनेमें समर्थ हो।

कालद्रव्यका विवरण— अंतिम तत्त्वार्थ है। कालद्रव्य, कालद्रव्य उसे कहते हैं जो पांचों द्रव्योंकी वर्तनाका निमित्तभूत हो। काल तो यह स्वयं है ही। यह स्वयं भी परिणामता रहता है अपने ही उपादान और निमित्तसे और अन्य द्रव्योंके परिणामनमें निमित्तभूत होता है। यह काल-द्रव्य लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक पूर्ण कालद्रव्य ठहरा हुआ है और वह कालद्रव्य अपने प्रदेश पर स्थित द्रव्यके परिणामनका हेतुभूत है। यहां प्रश्न किया जा सकता है कि यह कालाणु पर स्थित परिणामन वाली वात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्ममें घटित हो जाती है, पर यह आकाशद्रव्य जो इतना विस्तृत है लोकाकाश भी है और अलोकाकाश भी है। अलोकाकाशमें कालद्रव्य नहीं है, फिर वहांका आकाश कैसे परिणामेगा? एक यह समस्या आ जाती है। किन्तु यह जानना कि आकाश एक ही अखण्ड द्रव्य है, लोकाकाशमें व्याप्त कालद्रव्यका निमित्त पाकर आकाश परिणामता है। उसे परिणामने के लिए अपने समस्त प्रदेशों पर निमित्तके सन्निधानकी आवश्यकता नहीं है। एक अखण्डद्रव्यका निमित्तभूत चाहिए। सो कालद्रव्य यह है ही।

तत्त्वार्थोंकी श्रद्धाविधि— इस तरह इन ६ तत्त्वार्थों का सामान्य-स्वरूपसे वर्णन किया है। जब सब बातें स्पष्ट विदित हो जाती हैं तो एक दृढ़तासे अवगम और श्रद्धान् किए हुए इन तत्त्वार्थोंके यथार्थ श्रद्धान्से सम्यक्त्व जगता है। इसका यथार्थ श्रद्धान् यही है कि इन समस्त द्रव्योंकी स्वतंत्रता हमारे उपयोगमें विदित हो जाय।

तत्त्वार्थोंके वर्णनका उपसंहार— छः तत्त्वार्थोंमें जीव एक है और अजीव ५ हैं। मूर्त १ है और अमूर्त ५ हैं। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल—ये ५ द्रव्य अमूर्त हैं। इनमें जीवद्रव्यके तो शुद्धगुण शुद्धपर्याय भी है, और अशुद्धगुण अशुद्धपर्याय भी है किन्तु शेष चार अमूर्तद्रव्योंके शुद्ध गुण हैं और शुद्धपर्याय हैं। इस प्रकार इन ६ तत्त्वार्थोंका वर्णन हुआ। इनका श्रद्धान् सम्यक्त्वका कारण होता है। जिनेन्द्र भगवान्के मार्गरूपी समुद्रके बीच यह ६ द्रव्योंका वर्णन रत्नकी तरह है। जो पुरुष इन ६ तत्त्वार्थोंका यथार्थस्वरूप अपने उपयोगमें लेता है उसे शांतिका मार्ग मिलता है और निकट भविष्यमें वह सर्वसंकटोंसे मुक्त हो जाता है। इन ६ तत्त्वार्थोंमें से इस अधिकारमें जीवतत्त्वका वर्णन कर रहे हैं। अजीवतत्त्वका वर्णन दूसरे अधिकारमें होगा। इससे जीवतत्त्वका

विशेष वर्णन करनेके लिए कुन्दकुन्दचार्य कह रहे हैं।

जीवो उवञ्चोगमञ्चो उवञ्चोगो गणदंसणो होई।

एणणुवञ्चोगो दुविहो सहावणाणं विभावणाणं त्ति ॥१०॥

जीवका स्वरूप— यहाँ जीवका वर्णन जीवके असाधारण गुणरूप उपयोगकी अपेक्षासे किया जा रहा है। जीव उपयोगमय है। उपयोग किसे कहते हैं? आत्माके चैतन्यगुणके अनुकूल बर्तने वाला जो परिणाम है उसे उपयोग कहते हैं। यही उपयोग जीवका धर्म है। वस्तु एक अस्वरूप रूप है फिर भी वस्तुकी पहिचानके लिए उसमें धर्म धर्मीका भेद किया जाता है। जीव तो धर्मी है और उपयोग धर्म है। यह उपयोग ज्ञान दर्शन स्वरूप है। ज्ञानदर्शनात्मक चैतन्यका अनुविधान करने वाला परिणमन उपयोग है।

उपयोग और आत्मामें धर्मधर्मीभावका भेदीकरण— उपयोग और आत्माका सम्बन्ध धर्मधर्मीरूपसे बताया गया है। जैसे प्रदीप और प्रकाश। प्रकाश प्रदीपसे कहीं अन्यत्र नहीं है और प्रकाशको छोड़कर प्रदीप कहीं अन्यत्र रहता नहीं, फिर भी प्रकाश धर्म है और प्रदीप धर्मी है। जैसे प्रकाशात्मक प्रदीपमें धर्म धर्मीका भेद किया जाता है इस ही प्रकार चैतन्यात्मक आत्मामें चैतन्य और आत्मामें धर्म धर्मीके रूपसे भेद किया गया है।

उपयोगके मूलमें भेद— यह उपयोग ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेदसे २ प्रकारका है, जिसमें ज्ञानोपयोगका तो अर्थ है पदार्थका ग्रहण जानने विकल्प और दर्शनोपयोगका अर्थ है सामान्य प्रतिभास। उसमें से ज्ञानोपयोग २ प्रकारका है— स्वभावज्ञान और विभावज्ञान। जीव उपयोगात्मक है। उपयोगके २ भेद हैं— ज्ञान और दर्शन। ज्ञानके दो भेद हैं— स्वभावज्ञान और विभावज्ञान अर्थात् ज्ञानके स्वभावरूप ज्ञान और विभाव रूप ज्ञान ऐसे दो भेद हैं। स्वभावका ज्ञान और विभावका ज्ञान ऐसा अर्थ नहीं लगाना किन्तु कर्मधारय रूप अर्थ है स्वभावरूप ज्ञान और विभावरूप ज्ञान। शब्दके उपयोगी समासको छोड़कर अन्य प्रकारका समास तगारा तो अर्थसे अर्थांतर हो जायेगा। जैसे— शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोगके दो अर्थ हैं— शुद्धउपयोग और शुद्धका उपयोग। इन दोनों अर्थोंमें कितना अन्तर हो गया? शुद्धका उपयोग पहिले हो जाता है और शुद्धउपयोग बादमें होता है। शुद्ध तत्त्वका ज्ञान करना सो शुद्धका उपयोग है और उपयोगके अतिरिक्त अन्य भावोंसे रहित उपयोगका धर्म जाना इसका नाम है शुद्धोपयोग। स्वभाव शब्दका अर्थ है स्वभावरूप ज्ञान और विभाव ज्ञानका

अर्थ है विभावरूप ज्ञान ।

समासोंमें दृष्टानिष्टता— कुछ पुरानी घटना है कि बनावसमें एक छोटी उरुका बालक था; किन्तु था बहुत विद्वान् । बड़े-बड़े विद्वानोंको अपनी विद्यासे छका देता था । एक बार विद्वानोंका बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ । उस सभाके अध्यक्ष बनाए गए गंगाधर गुरु और वह छोटी उरुका विद्वान उस सम्मेलनमें न आ पाया । इसके लिए टिकेटोंकी व्यवस्था की गई । जिस विद्वानके पाम टिकेट होगा वही इसमें आ सकेगा और उसको टिकेट न दिया गया जो छोटी उरुका विद्वान् था व कुमार अवस्थाका नटखटी विद्वान था जो सबको अपनी विद्यासे छका देता था । उसने सोच लिया कि सम्मेलनमें मैं पहुंचूंगा जरूर, किसी भी तरह पहुंचूँ । उसने एक पालकी मंगवाई, चार कहार आ गए और एक आदमी चमर ढोलने वाला, दो आदमी छत्र लिए हुए अगल बगलमें खड़े हुए । वह पालकी पर सवार हुआ और पालकीके चारों ओर खूब शृङ्गार किया जिससे उसकी शकल न साफ साफ दोखे । वह पालकीमें बैठ गया और सबको समझा दिया कि यह कहते जावो कि गंगाधर गुरुकी जय । सो वे सब कहते जायें—गंगाधर गुरुकी जय । पहले पर जो टिकेटचेकर खड़े हुए थे, उन्होंने सोचा कि गंगाधर गुरु आ रहे हैं इन्हें टिकेटकी क्या पूछना है ? कितने ही लोग साथमें हों, इन्हें जाने दो ।

जब सम्मेलनमें वह कुमार विद्वान पहुंचा तो उन सब विद्वानोंको यह दिख गया, सो उनमें जो बड़े विद्वान् थे वे बोले कि तुम यहां कैसे आ गए ? तुम्हें तो टिकेट भी नहीं मिली थी । तो बोला बाह गंगाधर गुरुकी जय कहा कि इसका मतलब । बोला कि गंगाधर गुरुकी जय बोलते हुए हम पालकीमें आ गये । लोग कहते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला ? क्या तुम्हारा गंगाधर गुरु नाम है जो लोगोंसे बलवाते हो ? वह बोला कि जिसने जय बोला है वे सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं । लोग कहते हैं कि कैसे है सत्य ? बालक बोला कि देखो—गंगाधरगुरुका अर्थ क्या है— गंगाधरः गुरुः यस्य स गंगाधरगुरुः । गंगाधर गुरु है जिससे उसका नाम है गंगाधरगुरु । लोग कहते हैं बाह गंगाधर गुरुका तो सीधा अर्थ है । गंगाधर गुरु । इसमें कर्मधारयसमास है । यह तो विशेष्यविशेषणभाव है, तुमने यह नया समास कहाँसे ढूँढ़ निकाला ? गंगाधरगुरु कहते हैं— गंगाधर है गुरु जिसका उसका नाम है गंगाधर गुरु । संस्कृत जानने वाले यह समझ जायेंगे कि इसका अर्थ अशुद्ध नहीं है । लोग कहते हैं कि इसमें कर्मधारय समासको छोड़कर बहुव्रीहि समासका अर्थ क्यों किया ? तो

वह बालक बोला—गत्यन्तराभावात् । तुम्हारे इस सम्मेलनमें मेरे आसकनेका कोई दूसरा उपाय ही न था । इसलिए इसका बहुव्रीहि समास करके डंकेकी चोटसे आप लोगोंके बीचमें आ गया तो भैया ! समासोंमें ऐसा अद्भुत अर्थ हुआ करता है कि उनकी अपेक्षा को न जानें तो विवाद कर बैठें ।

स्वभावज्ञानके लक्ष्य— यहाँ बताया जा रहा है कि ज्ञान दो प्रकारके हैं—स्वभावज्ञान और विभावज्ञान । स्वभावज्ञान जो होगा वह बाधा-रहित अतीन्द्रिय अविनाशी और दोषरहित होगा । स्वभावज्ञान कइनेसे दो जगह दृष्टि देनी चाहिए । एक तो केवल ज्ञान पर और दूसरे आत्माके सहज ज्ञानस्वभाव पर । यह सहजज्ञानस्वभाव भी स्वभाव ज्ञान है और निर्दोष पवित्र अत्यन्त स्वच्छ केवल ज्ञान भी स्वभावज्ञान है । इसको स्वभाव कार्यज्ञान और स्वभाव कारणज्ञान—इस तरहसे दो भेदोंमें रखें । स्वभावकार्यज्ञान तो निर्मल केवल ज्ञान है जो कि सकलप्रत्यक्ष है और स्वभावकारण ज्ञान स्वभावकार्यज्ञानका कारण है ।

स्वभावज्ञानकी निरावरणता— यह ज्ञान त्रिकाल निरुपाधि है । स्वभावमें आवरण आ जाय तो स्वभावका ही विनाश हो । स्वभाव निरावरण है । स्वभाव स्वभावरूप ही तो है । उसमें आवरण माननेकी क्या आवश्यकता है ? विभावरूप परिणामके समय भी चूँकि स्वभाव स्वभाव ही रूप रहता है, शक्तिरूप है । अब उस शक्तिमें आवरणकी आवश्यकता नहीं है जिससे कि विभाव सिद्ध करने में सुविधा हो । विभाव दशमें आवरण है और वह आवरण व्यक्तिका आवरण है शक्तिका आवरण नहीं है । जैसा जीवका स्वभाव है तैसा प्रकट न होने देनेमें आवरण निमित्त होता है, पर शक्तिका आवरण नहीं होता है । यह सहज कारणज्ञान परमपारिणामिक भावमें स्थित है जो त्रिकाल निरुपाधि रूप है । इस सहजज्ञानका आश्रय करके ही सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् चारित्रकी उत्पत्ति और पूर्णता होती है । इस सहजज्ञानके पोषणके प्रताप से, दर्शन और अवलम्बनके प्रतापसे ज्ञानकी वृत्ति ऐसी शुद्ध होती है कि उस ज्ञानव्यक्तिके द्वारा यह चेतन तीन लोक, तीन कालके समस्त पदार्थों को एक साथ स्पष्ट ज्ञानमें ले लेता है ।

कारणस्वभावज्ञानके अवलम्बनसे कार्यस्वभावज्ञान— भैया ! जानन का परिश्रम कर करके कोई सर्वज्ञ नहीं बन सकता । जैसे धनका संचय करते-करते कोई धनी बन जाया करता है । इसी तरह यह ज्ञान पूर्ण करने की धुनमें ज्ञानको पैदा करके ऐसे विविध ज्ञानोंका संचय करके कोई सर्वज्ञ

नहीं बन सकता है, किन्तु वह ज्ञानके संचय करनेकी बुद्धित्याग कर मात्र सहजज्ञान जो सामान्यस्वरूप है, निर्विकल्प है उसका अवलम्बन ले तो ऐसे ज्ञानकी स्फुरण होती है कि जिसके द्वारा यह समस्त विश्वका ज्ञाता हो जाता है। ऐसा यह सहज ज्ञानस्वभाव कारण ज्ञान कहलाता है स्वभावज्ञानको स्वभावकार्यज्ञान और स्वभावकारण ज्ञान—इन दो रूपोंमें बनाया है, किन्तु विभावज्ञान शेष पर्यायरूप ज्ञान कहलाता है।

कुज्ञानोंमें केवलविभावरूपता— विभावज्ञानोंमें से कुमति कुश्रुत, और कुअवधि ज्ञान ये तो केवल विभाव रूप हैं और मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान विभावरूप तो है, पर इसमें स्वभाव प्रत्ययका सम्बन्ध होनेसे ये सब स्वभावरूप भी कहे जाते हैं और अपूर्ण व औपाधिक होनेसे विभावरूप भी कहे जाते हैं। चूँकि ये पूर्ण प्रकट नहीं हुए हैं और नैमित्तिक हैं। इस कारण ये भी विभावरूप ज्ञान कहे जाते हैं। इस विभावरूप ज्ञानमें जो कि केवल विभावरूप बताया गया है कुमतिज्ञान कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान—इनमें विभावरूपता जो आयी है वह अन्यगुणोंके विकारके कारण आयी है, ज्ञानके विकारके कारण नहीं आयी। इस आत्माके जो मोह कलंक लगा हुआ है उसके सम्बन्धसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानमें कुत्सितपना आया है।

ज्ञानकी विकृतताका अभाव— भैया ! ज्ञान आवृत्त तो होता है, परन्तु विकृत नहीं होता है। श्रद्धा और चारित्र्य गुण विकृत हुआ करते हैं ज्ञान गुण विकृत नहीं होता है। जीवका असाधारण स्वरूप है ज्ञान और दर्शन। ये ज्ञान दर्शन भी यदि विकाररूप हो जाया करते होते तब बड़ी कठिन नौबत आती, किन्तु ऐसा नहीं होता है। मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव के भी ज्ञान और दर्शन विकाररूप नहीं हुआ करते, पर उसके साथ जो मोह कलंक लगा है सो वह विकार भी कुछ अलग तो नहीं है ना, एक ही आधारमें तो है। इस कारण ज्ञानमें कुत्सितपना आ जाता है।

विभावपरिणतिके प्रसंगमें अचेतक अचेतकोंका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध— विभावपरिणामनमें निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध अचेतक अचेतकमें हुआ करता है, चेतन-चेतनमें नहीं होता है। जैसे पुद्गलद्रव्यमें अग्निका सम्बन्ध पाकर पानी उष्ण हो जाता है, सूर्यका सन्निधान पाकर पदार्थ उष्ण हो जाता है, वह अचेतक है और ये जल, पत्थर भी अचेतक है। यहाँ एकेन्द्रिय जीवसे अतलब नहीं है, क्योंकि जीवमें स्पर्शगुण नहीं आ करता है। जिस स्पर्शगुणका निमित्त पाकर दूसरे पदार्थका स्पर्श विकृत हो गया उस स्पर्शके आधारभूत अचेतनके नाते से ही इस दृष्टान्त

में देखना । तो एक विकृत अचेतनका निमित्त पाकर दूसरा अचेतक पदार्थ विकृत हो गया, इसी प्रकार आत्मामें विकार लाने के निमित्तभूत है पुद्गल कर्म । वह पुद्गल कर्म अचेतक है, पुद्गल ही तो है आखिर और उन पुद्गलकर्मोंके उदयका निमित्त पाकर श्रद्धा और चारित्रगुण विकृत हो जाते हैं । सो यह श्रद्धा और चारित्रगुण भी अचेतक है अर्थात् चेतने वाले नहीं है । प्रतिभास इनका स्वरूप नहीं है । जो चेतकगुण है प्रतिभासने का स्वरूप रखते हैं उन गुणोंमें विभाव नहीं आता । वे बल आश्रित होते हैं । न हो ज्यादा ज्ञान इनका ही ज्ञानावरण कर्मका निमित्त है पर हो जाय उल्टा ज्ञान ऐसा कोई निमित्त नहीं है । जानते हुएके साथ-साथ जो राग और मोह लगा हुआ है वह सब है बिगड़ी हुई श्रद्धा और चारित्रका प्रताप ।

ज्ञानकी यथार्थताका प्रभाव— भैया ! कम जानना घातक नहीं है किन्तु उल्टा जानना घातक है । कितने ही शास्त्र और विद्याएँ बढ़कर यदि ज्ञानकी मोड़ चली है तो उससे जीवका अकल्याण है और कोई विद्या शास्त्रमें अधिक निपुण नहीं है, किन्तु ज्ञानकी मोड़ सीधी है तो वह कल्याणका पात्र बनता है । एक बुद्धियाके दो लड़के थे । एक को तो दिखता था थोड़ा-थोड़ा, किन्तु जैसा का तैसा और एक लड़के को दिखता था तेज । बड़ी दूरकी भी चीज किन्तु दिखता था पीला-पीला । दोनों लड़कोंको बुद्धिया वैधके यहां ले गयी । तो वैधने दोनोंको एक दवा बताया । यह मोती भरम ले जावो और चांदीके गिलासमें गायके दूधमें इसे घोल करके पिला देना । कुछ दिनमें इनकी ज्योति ठीक हो जायेगी । बुद्धिया दवा ले गयी । पहिले कम दीखने वाले को दवा दी । चांदीका ही कटोरा ले गायके ही दूधमें मोतीभरम मिलाकर दी तो वह लड़का उस दवाको पी गया । किन्तु, जब पीला-पीला दीखने वाले लड़के को दवा दी जाने लगी तो वह बोलता है कि मां क्या मैं ही तुम्हारा दुश्मन हूँ जो पीतलके गिलासमें गायके मूत्रमें यह इड्डताल डालकर दे रही हो ? उसे तो सब पीला-पीला ही दिखता था । उसने दवा नहीं पी । तो कम दीखने वाला तो औषधि सेवन करके स्वस्थ हो गया, किन्तु तेज देखने वाला जिसे पीला-पीला ही दिखाई देता था उसने औषधिका स्पर्श नहीं किया; फिर रोग कैसे दूर हो ?

ज्ञानकी विभावरूपताका कारण— तो ज्ञानके साथ जो मोहकलंक लगा रहता है उससे इसकी दशा बदल जाती है । वह मोह रागभाव इसको संभालमें नहीं आने देता । हालांकि विद्या पढ़ी है, जानकारी बढ़ी है तो भी उस मोह रागकी तीव्रताके कारण यह सीधा ज्ञान नहीं करता और

जिसका मोह दूर हो गया है, सम्यक्त्व जग गया है ऐसा जीव मेढक हो, बैल हो, हाथी घोड़ा सिंह हो या कर्म पढ़ा लिखा भी मनुष्य हो वह अपने वर्तमान विकसित ज्ञानके बलसे सन्मार्गपर चल लेगा और सन्मार्गपर चलनेके प्रतापसे चूँकि यह भी बड़ी तपस्या है सो ज्ञानावरणका क्षयोपशम विशेष होने लगेगा और उसका ज्ञान बढ़ जायेगा । कम ज्ञानी पुरुषके केवलज्ञान नहीं हुआ करता है किन्तु सम्यक्त्व हो जाता है । यह सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्व और चारित्रिक बलसे जब श्रेणीमें चढ़ता है तो श्रेणी में अज्ञानकी पूर्णता हो जाती है और उसके बाद फिर उसके केवलज्ञान होता है । यों जानना कि कुमति, कुश्रुति, कुअवधि तो केवल विभावरूप है और शेषके चार ज्ञानस्वभावके उन्मुख हैं, किन्तु विभावरूप हैं ।

जीवके लक्षणभूत उपयोगके दो भेद बताये हैं— ज्ञान और दर्शन । उन भेदोंमें से ज्ञानके भेदका अब दो गाथाओंमें वर्णन करते हैं ।

केवलमिदियरहित्यं अण्हायं तु सहावणाणं ति ।

सण्णाणिरवियप्ये विहावणाणं हवै दुविहं ॥११॥

सण्णाणं चउभेयं मविसुक् ओही तहेव मणपब्बं ।

अण्णाणं तिवियप्यं मवियादी भेद्वो चव ॥१२॥

स्वभावज्ञानकी इन्द्रियरहितता— ज्ञानके दो भेद बताये गये थे—

एक स्वभावज्ञान और एक विभावज्ञान । उस ही आधार पर उन भेदोंका विस्तार इन गाथाओंमें किया गया है । जो केवल है, इन्द्रियरहित है, असहाय है वह तो होता है स्वभावज्ञान । उस स्वभावज्ञानमें कार्यस्वभाव ज्ञान भी आ गया और कारणस्वभावज्ञान भी आ गया । कार्यस्वभाव ज्ञान केवल है, अकेला है । उसके साथ किसी भी प्रकारकी न द्रव्यात्मक उपाधि है और न भावात्मक उपाधि है । उपाधियोंसे रहित वह ज्ञानका स्वरूप है । इस कारण वह केवलज्ञान केवल है । यह केवलज्ञान ज्ञानावरणके अत्यन्त क्षयसे उत्पन्न होता है । वहाँ आवरण कोई नहीं रहता है, ऐसा निरावरणस्वरूप होनेके कारण वह ज्ञान इन्द्रियसे रहित है अर्थात् क्रम और व्यवधानसे रहित है ।

इन्द्रियज्ञानका एक दोष— भैया ! इन्द्रियज्ञान होता है तो उससे दो आपत्तियाँ आती हैं । एक तो ज्ञानका क्रम बन जाता है और दूसरे उसमें व्यवधान आ जाया करता है तो ज्ञान बँद हो जाया करता है, दूसरे प्रकार होने लगता है । ये दो आपत्तियाँ इन्द्रियज ज्ञानमें हैं । इन्द्रियोसे जो कुछ जाना जाता है वह सब एक साथ नहीं जाना जा सकता है । रस भी चखते जायें, सुगंध भी लेते जायें और राग भी सुनते जायें, स्पर्श भी

करते जायें और देखते भी जायें ये पांचों बातें एक साथ नहीं होती हैं । एक समयमें एक बात होगी ।

इन्द्रियज्ञानमें सर्वत्र कमविषयता— यहां आप शंका कर सकते हैं कि हम तो पांचों ही बातें एक साथ दिखा दें तो । हां दिखावो भाई । अच्छा तो तुम बेसनकी कड़ी कड़ी तेलकी पपड़ियां बनावो पापड़ सरीखी पूरी पपड़ियां, आप मुँहमें रखें, पूरी तो मुँहमें न आयेगी किन्तु उसका कोई हिस्सा ही आये । तो उस समय देख लो कि कड़ी-कड़ी पपाड़या हैं, सो मुँहमें कड़ी लग रही हैं, स्पशमें छा ही रही हैं, खा रहे हैं सो स्वाद भी आ रहा है और खूब अच्छी बास देने वाले तेलकी बनी हैं । सो खूब खुशबू आ रही है, पपड़ियोंको देख भी रहे हैं, उसके खानेमें कानों को आवाज भी सुनाई पड़ रही है । देखो पांचों इन्द्रियोंने एक साथ काम कर लिया कि नहीं? समाधान इसका यह है कि सिद्धान्तसे यह मत है कि पांचों काम एक समयमें नहीं हो रहे हैं । जैसे बिजलीका पंखा जब हाई स्पीडसे चलता है तो क्या किसी को यह भी ज्ञात होता है कि ये पंखुड़ियां बेधा-बेधा दूर पर हैं और ये क्रमसे चक्कर काट रही हैं । शीघ्र चलनेके कारण उनका क्रम नहीं मालूम होता है । तो बिजलीके पंखोंसे भी तेज गति उपयोगकी है । यह उपयोग पंचेन्द्रियके विषयोंमें क्रमसे चलता रहता है । पर इतनी द्रुतगतिसे उपयोग चलता है कि स्थूलरूपमें यह लगता है कि एक साथ जाना । वस्तुतः वहां पर भी क्रमसे जाना गया है ।

इन्द्रिय ज्ञानोंकी क्रमभाविताका एक अन्य दृष्टान्त— अथवा दस बीस, पचास पान ले लो । एकके ऊपर एक पान धरा हुआ है और वड़े जोरसे उस पानकी गड्डी पर एक पैना तेज सूजा मारा तो वे पचासों पान एक साथ छिड़े या क्रमसे छिड़े ? स्थूलरूपमें तो यह मालूम पड़ेगा कि वाह एक बारमें ही तो सभी पान छिड़ गए, पर वे सभी पान क्रम-क्रमसे छिड़े । तो जो द्रुतगतिसे चलता है उसका क्रम चाहे मोटे रूपमें विदित न हो सके, पर वहां क्रम होता है ।

कार्यस्वभावज्ञानमें क्रमरहितता व व्यवधानरहितता— केवल ज्ञानमें ज्ञानका कोई क्रम नहीं रहता । जो कुछ जाना जाता है तीन लोक, तीन कालके समस्त पदार्थ वे सब एक साथ स्पष्ट जाने जाते हैं । चूंकि वहां पर इन्द्रियां नहीं रहीं, इसलिए सब एक साथ स्पष्ट ज्ञात होता है । कोई आवरण ही नहीं रहा । तो स्वभावज्ञान कार्यस्वभाव ज्ञान क्रमके दोषसे रहित है । साथ ही उस स्वभाव ज्ञानमें व्यवधानकी कभी आशंका नहीं । हम और आपके सामने कोई चीज आड़े आ जाय तो आगेका ज्ञान नहीं

हो पाता। जब व्यवधान नहीं होता तब तो ज्ञान होगा और व्यवधान आ गया तो ज्ञान न हो सकेगा। पर केवलज्ञानमें व्यवधानकी कभी शंका ही नहीं। किसी वस्तुका व्यवधान होता ही नहीं क्योंकि निरावरण ज्ञान है, वह ज्ञान अपने आपमें रहता हुआ पूर्ण विकासमें पड़ा है, सो अपनी कलासे समस्त पदार्थोंको बिना किसी शंकाके स्पष्ट जानता है। तो यह स्वभाव कार्य ज्ञान इन्द्रियरहित है।

स्वभावज्ञानकी असहायता— यह केवल ज्ञान असहाय है। असहय होना अच्छी बात है या बुरी बात है? लोग तो यों मानेंगे कि असहाय होना बुरी बात है। वह बेचारा असहाय हो गया। यहां असहायका अर्थ है कि जहां किसीकी सहायताकी आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं समर्थ है, और यह अवेला ही अपनी समस्त क्रियाएँ करनेमें परिपूर्ण समर्थ है। ऐसा असहाय यह केवलज्ञान है। यह प्रत्येक वस्तुमें जुदा-जुदा नहीं व्यापता है, किन्तु एक साथ समस्त वस्तुओंमें व्यापता है अथवा वस्तुका या अन्य स्वभावका सहारा लेकर वस्तु-वस्तुमें अपना लक्ष्य ले जाकर यह स्वभाव कार्य ज्ञान नहीं जानता है, किन्तु यह अपने आपके स्वरूपमें ठहरता हुआ अपने स्वभावसे जो कुछ भी सत् है उस सबको जानता है। हमारा ज्ञान एक-एक वस्तुमें डोलता रहता है, इसलिए अनेक सहायोंकी आवश्यकता रहती है। पर केवलज्ञान सहायताकी अपेक्षासे रहित है।

सहायताकी निन्दा गर्भता— भैया ! किसीके बहुत सहायक हों तो यह उसकी प्रशंसा है या निन्दा ? परमार्थसे वह निन्दा है अर्थात् वह स्वयं समर्थ नहीं है, स्वयंमें इतनी प्रभुता नहीं है इसलिए इसके दसों सहायक हैं और तभी काम चल पाता है। यह तो लोककी बात है। यों तो असहाय सहायोंसे भी लोकमें बुरे माने जाते हैं और उन्हें कहते हैं बेचारे। जिनका चारा नहीं है, गुजारा नहीं है, सहारा नहीं है उन्हें कहते हैं बेचारे और कभी-कभी तो दया करके साधु संतोंके प्रति भी लोग कह बैठते हैं कि बेचारे बड़े सीधे हैं। तो बेचारे माने असहाय, जिनका कोई चारा नहीं। तो लौकिक दृष्टिमें असहाय बुरा माना जाता है और असहाय ऊँचा माना जाता है, पर वस्तुस्वरूपकी ओरसे देखा जाय तो असहाय हल्का है और असहाय सर्वोच्च है। यह केवलज्ञान असहाय ज्ञान है। इस तरह कार्य-स्वभाव ज्ञान केवल है, इन्द्रियरहित है और असहाय है।

कारणस्वभावज्ञान व कार्यस्वभावमें विशेषणोंकी समानता— स्वभावज्ञानके दो भेद किए गये थे—एक कार्यस्वभावज्ञान और एक कारण स्वभाव ज्ञान। कार्यस्वभाव ज्ञान तो केवल ज्ञानका नाम है और कारण

स्वभावज्ञान इस आत्माके उस ज्ञान प्रकाशका नाम है। जो अनादि अनन्त अहेतुक अंतःप्रकाशमान है। उस कारणस्वभाव ज्ञानमें क्या विशेषता है, जिन विशेषणोंसे हम उसका परिचय पायें? ऐसा प्रश्न होने पर खास उत्तर है कि जो विशेषण कार्यमें लगते हों, स्वभावज्ञानमें लगती हों वे ही विशेषण कारणस्वभावज्ञानमें लगते हैं।

कारणस्वभाव व कार्यस्वभावमें समानताका दृष्टान्त— कोई पूछे कि निर्मलजल कैसा होता है जिसके अन्दर कीच न हो, रंग न हो, भैल न हों, चम्बल नदी जैसा निर्मल पानी हो—उसे कोई पूछे कि यह निर्मल जल कैसा होता है? तो वह सब बतावेगा कि स्वच्छ है, कीचड़ रहित है, किसी रंगसे रंगीला नहीं है, निर्दोष है। जो भी शब्द वह कहे—बतायेगा निर्मल जलका गुण और फिर पूछे कि जलका स्वभाव कैसा होता है; चाहे गंदे कीचड़ भरे मलिन जलको कटोरीमें भरकर पूछें कि बतावो इस जल का स्वभाव कैसा है? तो उतनी ही बातें कहेगा जितनी कि निर्मल जलको बतानेमें कही हैं। निर्मल जल गंदगीसे रहित है। तो क्या जलस्वभाव गंदगीसे सहित है। जलस्वभाव भी गंदगीसे रहित है। निर्मल जलस्वच्छ है तो जलका स्वभाव भी स्वच्छ है। जितनी बातें निर्मल जलका स्वरूप बतानेमें कही गयीं उतनी ही बातें जलका स्वभाव बतानेमें कही जायेंगी।

कार्यस्वभावज्ञान व कारणस्वभावज्ञानमें समानताका निरूपण— यहां कार्यस्वभाव ज्ञान केवल है तो यह ज्ञायकस्वभाव अर्थात् कारण स्वभाव ज्ञान भी केवल है। क्या यह दुबेला है? इसके साथ कोई अन्य द्रुघात्मक या भावात्मक उपाधि लगी है क्या? किसमें? ज्ञानस्वभावमें? ज्ञानव्यक्तिकी बात नहीं कही जा रही है किन्तु सहजज्ञानस्वभावकी बात कही जा रही है। यह कारणस्वभाव ज्ञान भी केवल है। कार्यस्वभाव ज्ञान इन्द्रियरहित है तो कारण स्वभाव ज्ञान भी इन्द्रियरहित है। क्या सहज ज्ञानस्वभावमें इन्द्रियां हैं? नहीं। वहां तो केवल ज्ञान ज्योति मात्र है। तो यह भी इन्द्रियरहित है। कार्यस्वभाव ज्ञान जैसा निरावरण स्वरूप है उस ही प्रकार सहजज्ञानस्वभाव भी निरावरणस्वरूप है। फिर पूछेंगे कि संसारी जीवोंके ये ज्ञान अविमूर्त क्यों नहीं हैं? तो प्रकट यह पर्यायोंका कार्य है। और पर्याय कार्यके लिए इस संसारी जीवमें आवरण लगा हुआ है। पर ज्ञानस्वभावमें आवरण कुछ नहीं है।

स्वभावज्ञानमें सामर्थ्य— स्वभाव तो शक्ति मात्र है। प्रकट हो तो क्या, न प्रकट हो तो क्या, शक्ति तो शक्ति ही है। जैसे कार्यस्वभावज्ञान

असहाय था अर्थात् स्वतंत्र था, प्रभु था, समर्थ था। इसी प्रकार कारण स्वभाव ज्ञान भी स्वतंत्र है, समर्थ है, शक्तिरूप है, वह किन्हीं परवस्तुओं में नहीं व्यापता है, वह तो अपने स्वरूप मात्र है। यों कारणस्वभाव ज्ञान भी कार्यस्वभाव ज्ञानकी तरह एक साथ अपनी जाननवृत्ति करनेमें समर्थ है। कार्यस्वभाव ज्ञान तो तीन लोक, तीन कालके समस्त पदार्थोंको एक साथ जाननेमें समर्थ है और यह ऐसे समस्त पदार्थोंको एक साथ जाननेमें सदा सामर्थ्यरूप है। निज परमात्मतत्त्वमें स्थित सृज गुणोंरूप जो निज कारणसमयसार है उस स्वरूपसे उस स्वभावको स्वभावित करनेमें समर्थ है। इसका जानन प्रकट आकाररूप नहीं है। प्रकट आकाररूप जानन तो कार्यरूप जानन बन जायेगा। यही है स्वभावकारण ज्ञान। इस तरह स्वभाव ज्ञानका स्वरूप कहा गया है।

आत्मचर्चा— वह ज्ञान कार्यरूप भी है और कारणज्ञानरूप भी है। यह चर्चा चल रही है अपने आपके स्वरूपकी। यह दूसरे की चर्चा नहीं है। जो मनको बाहर दौड़ाये या इन्द्रियोंको बाहर चलाये उससे समझमें आ जाय ऐसी बात नहीं है। ध्यान देने से ये सब बातें धीरे-धीरे समझमें आ ही जाती हैं और ध्यान न दिया जाय, रोज ही ध्यान न दिया जाय तो कभी समझमें नहीं आ सकता है। फिर तो एक आदतका शास्त्र सुनना रह गया।

लापरवाह श्रोताओंकी योग्यता— किसी ब्रह्मचारी जी ने कहीं पूछा किसी ऐसे श्रोतागणसे जो सुनने तो खूब आता हो, किन्तु ज्ञान न हो, अत्यन्त अपरिचित पुरुषकी बात कह रहे हैं। क्यों भैया ! जानते हो ना इन्द्रियां ५ होती हैं। हां हां जानते हैं। अच्छा बताओ पंचेन्द्रिय जीव कौन है ? तो एक श्रोताने कहा कि पंचेन्द्रिय जीव तो हाथी है जिसके चार चार पैर हैं और एक सूँढ़ है। बहुत ठीक और चार इन्द्रिय कौन है ? चार-इन्द्रिय, अच्छा जरा सोच लें फिर बताओगे। अच्छा सोच लो। सोच लिया चार इन्द्रिय तो घोड़ा है क्योंकि चार पैर हैं और सूँढ़ नदारत है। ठीक है और तीन इन्द्रिय क्या है ? श्रोता कहते हैं कि तीन इन्द्रिय है तिपाईं। जिसमें तीन पावें लगते हैं, लालटेन धरनेके काम आती है। तीन पायें का स्टूल अथवा खलिहानमें जिस पर चढ़कर भुस भरकर बिखेरते हैं तो भुस अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है। ठीक है, अच्छा बताओ दो इन्द्रिय जीव कौन है ? श्रोता बोला कि दो इन्द्रिय तो हम हैं, कैसे कि हम हैं और हमारी घरवाली है। दो जने हैं हम। ठीक है और एकेन्द्रिय जीव कौन है ? तो श्रोता बोले कि महाराज तुम हो। तुम अकेले

ही तो हो। यह तो बात एक आप लोगोंकी नींद हटानेके लिए कही है। इतने अपरिचित आप होंगे ऐसी आशा नहीं है, पर कठिनसे कठिन बात हो और जो किसी न किसी रूपमें रोज-रोज कही जा रही हो, ध्यानसे सुनने पर कभी तो समझमें आयेगी ही ना।

ज्ञानभेदविस्तार— यहाँ अभी यह बताया है कि ज्ञान दो प्रकारके हैं। वे हैं स्वभावज्ञान और विभावज्ञान। ऐसे दो प्रकारके ज्ञान हैं। उनमें से स्वभावज्ञान दो प्रकारका है। एक कार्यरूप स्वभावज्ञान, जो भगवानके हुआ करता है और एक कारणरूप स्वभावज्ञान जो सभी जीवोंके अपने आपके स्वरूपमें सनातन प्रकाशमान रहता है। प्रभुमें भी है, संसारी जीवों में भी है। ऐसे उस शुद्ध ज्ञानकी चर्चा करके अब विभावज्ञानकी बात कही जा रही है। उन विभावज्ञानोंमें से कुछ ज्ञान तो सम्यक् विभाव है और कुछ ज्ञान मिथ्याविभाव है। सम्यग्ज्ञानरूप विभावज्ञान और मिथ्याज्ञान रूप विभावज्ञान, या यों कह लो, शुद्धाशुद्ध विभावज्ञान और केवल अशुद्ध विभावज्ञान।

केवल शब्दका विशेषण विशेष्य शब्दके साथ भावदर्शिता— “केवल अशुद्ध” कहने से कहीं यह सुशी नहीं मनाना है, केवल शब्द लग गया जो केवल भगवानके भी लगता है, वह केवल शब्द लगा दिया। केवल अशुद्ध विभावज्ञान कुमति, कुश्रुत और कुअर्था है। जैसे दूसरे गुणस्थान का नाम क्या है? सासादनसम्यक्त्व तो सुनकर लोग रुश होते कि चलो यहाँ सम्यक्त्व तो है कुछ। सासादन ही सही, पर सम्यक्त्व तो वहाँ है ही नहीं। सम्यक्त्व नष्ट होने पर ही सासादनसम्यक्त्व होता है। फिर सासादनके साथ सम्यक्त्व शब्द क्यों लगाया? निर्धन शब्दके साथ धन शब्द जुड़ा है तो उससे कोई धनकी बात आयी क्या? उसके साथ निर्ध तो लगा है। निर्धनका अर्थ धनरहित है। तो सासादनका अर्थ है—विनाश सहित, आसादन मायने विनाश नष्ट हो गया है सम्यक्त्व जिसका उसे कहते हैं सासादन सम्यक्त्व। तो इस प्रकार केवल विभावज्ञानकी बात है। अर्थात् जहाँ सिर्फ अशुद्धता ही अशुद्धता है शुद्धताका नाम भी नहीं है, उसे कहते हैं केवल अशुद्ध विभावज्ञान।

विभावज्ञानके प्रकार— विभाव ज्ञान ७ होते हैं। मतिज्ञान, अत-ज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यायज्ञान और कुमतिज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअर्था विज्ञान। इनमें शुरूके चार शुद्धाशुद्ध विभावज्ञान हैं अथवा सम्यग्ज्ञान रूप विभवज्ञान है और अतः जो ३ मिथ्या विभावज्ञान हैं वे केवल अशुद्ध विभाव ज्ञान हैं। अब इनका वर्णन क्रमसे आयेगा।

विभावज्ञान— ज्ञानके भेदमें से विभावज्ञानोंका वर्णन चल रहा है। विभावज्ञान, सम्यक्विभाव और मिथ्याविभाव इस तरह दो रूपोंमें है। सम्यक् विभाव ज्ञान चार हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अर्वाधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान। उनमेंसे जो मतिज्ञान है और श्रुतज्ञान है ये दो ज्ञान प्रत्येक संसारी जीवके होते हैं। किसीके सम्यक् रूप है, किसीके मिथ्यारूप है। जब तक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तब तक मतिज्ञान और श्रुतज्ञान प्रत्येक संसारी जीवके रहा करता है। उनमें से मतिज्ञान अनेक भेदरूप है। मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है। सो यह लब्धिरूप और उपयोगरूप दो प्रकारसे होता है। लब्धिरूप मतिज्ञानका अर्थ यह है कि उसका क्षयोपशम हुआ, योग्यता हुई और उपयोगरूप मतिज्ञानका अर्थ यह है कि उसके जाननमें लग गए। जैसे किसी मनुष्यको ५ भाषाएँ आती हैं, हिन्दी भाषाका वह पत्र पढ़ रहा है तो हिन्दी भाषा तो उपयोगरूप हो रही है और चार भाषाएँ उसकी लब्धिरूप हैं।

मतिज्ञानके भेद— अब मतिज्ञानके भेद देखो, मूलमें इसके चार भेद हैं—अवग्रह, ईहा, अनाम और धारणा। विषय अर्थात् ज्ञेयपदार्थ और विषयी अर्थात् इन्द्रिय—इन दोनोंका योग्य सम्यग्ज्ञान होने पर, ऐसे वातावरणमें आने पर कि जहां विषयोंका ग्रहण हो सकता है, उस समय जो सर्वप्रथम ज्ञान होता है उसे अवग्रह ज्ञान कहते हैं। और अवग्रहसे जानते हुए ही पदार्थका कुछ विशेषरूपसे जानन होना किन्तु निश्चय नहीं है, है जानन सच्चा उस हो पदार्थरूप जो संवेदकी कोटिसे ऊपर उठ गया है ऐसे ज्ञानको ईहा ज्ञान कहते हैं। और उसका निश्चय हो जाये सो अवायज्ञान है; फिर उस ज्ञानको भुला न देना धारणा ज्ञान है।

दृष्टान्तपूर्वक मतिज्ञानके भेदोंका विवरण— अमूमन ये चार ज्ञान जीवोंके क्रमसे प्रायः होते हैं। पहिले किसी प्रकारसे जाना तो सामान्यरूप से जान पाया, थोड़ा रूपसा, थोड़ा आकार सा कुछ समझमें आया। उसके बादमें कुछ विशेष बात समझमें आती है। फिर उसका निश्चय होता है। इतनी पक्की धारणारूप ज्ञान बने कि उसे फिर कभी भूलें नहीं। जैसे कहीं घूमने चले जा रहे हो, सुबहका टाइम हो; कुछ अंधेरा और कुछ उजेला हो। बहुत दूर पर कोई सफेद मंछी फहरा रही हो वह देखनेमें आयी सो पहिले यह ज्ञान हुआ कि यह सफेद इस जगह इस प्रकार की कोई चीज है। थोड़ा और चले तो ज्ञान हुआ कि अरे यह पत्त का है। फिर थोड़ी देर बाद निर्णय हुआ कि यह पत्ताका ही है। फिर उसे नहीं भूलता। इस प्रकार चार कोटियोंमें ज्ञान हुआ।

मतिज्ञानके भेदोंकी उत्पत्तिका क्रम— भैया ! किसीके कभी अबग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इस क्रमसे होता है अबग्रह, अवाय, धारणा इस तरह, किसीके अबग्रह और धारणा इस तरह हो जाते हैं। जो चीज अपने परिचयमें नहीं आयी उसके बारेमें तो अबग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चारों क्रमसे होते हैं, किन्तु जिस चीजको हम रोज-रोज देखते हैं, हमारे परिचयमें आती है ऐसी चीज उस अबग्रहके होते ही निश्चय हो जाती है और धारणा होती है, वहां ईहा नहीं आती, ईहा ज्ञान कुछ अपरिचित सी चीजके ज्ञानके समय होती है। जैसे रोज मंदिर आते हैं और मंदिरमें जितनी चीजें हैं, वेदी है, प्रतिमा है उनको आप रोज देखते हैं वहां ईहाकी क्या जरूरत है? देखा और निश्चय किया यह ऊंमुख है तो कहीं अबग्रह, अवाय और धारणा इस तरह तीन ज्ञान होते हैं और किसी चीजमें जो अत्यन्त निर्यात है, उस चीजके ज्ञानके प्रति सम्मुख हुए कि तुरन्त धारणा हो जाती है। तो इस मतिज्ञानके ये चार भेद हैं— अबग्रह, ईहा, अवाय और धारणा।

मतिज्ञानके प्रभेद— ये चारों प्रकारके ज्ञान १२ प्रकारके पदार्थोंके होते हैं। बहुत चीजोंका जानना एक चीजका जानना, बहुत प्रकारकी चीजोंका जानना एक प्रकारकी चीजोंका जानना, शीघ्र जानना, देरमें जानना, न निकले हुएको जानना, निकले हुएको जानना, न कहे हुएको जानना, कहे हुएका जानना, प्रश्नको जानना और उत्तरको जानना, यह सब अपने व्यवहारमें आने वाले ज्ञानकी कहानी है कि हम किस प्रकार जानते हैं? कैसे जानते हैं? ऐसे जाननेकी यह कहानी है।

मतिज्ञानके प्रभेदोंका विवरण— कहीं हम बहुतसी चीजोंको एक निगाहसे परख लेते हैं। गेहुओंका ढेर रखा है, उनको देखकर जो ज्ञान हुआ वह बहुत प्रकारका ज्ञान कहलाता है। होता है ना आप हम सबका ज्ञान कि बहुतसी चीजें हैं और हम एकदम जान गए। और एकका भी ज्ञान होता है। एक ही चीज है, हम उसे जान गए। बहुत प्रकारकी चीजें हैं और हम जान जाते हैं। चना, जौ, गेहूं का कितना ही मिला हुआ ढेर हो, जिसे आप बिरा कहते हैं तो वह अनेक प्रकारका है, उसे जान गए, यह हुआ बहुविध ज्ञान और एक प्रकारका ज्ञान। जैसे एकसे गेहूंकी राशि लगी है, तो जान गए हम बहुतको किन्तु वे सब एक प्रकारके हैं। तो यह भी एक ज्ञान होता है। शीघ्र जाती हुई चीजको हम जान लेते हैं, धीरे जाती हुई चीजको हम जान लेते हैं और कभी किसी बातको हम शीघ्र जान लेते हैं, कभी किसीके जाननेमें विलम्ब लगता है, तो इस तरह

भी इस प्रकारसे ज्ञान होता है। देखा होगा कभी एकदम प्रकट हुई चीजको जानते हैं, कोई प्रकट नहीं है। कुछ एक देश ही प्रकट है उसे जान लेते हैं उससे सबको जान लेते हैं। जैसे पानीमें हाथी डूबा है और उसकी सिर्फ सूढ़ ऊपर है, हाथी ही एक ऐसा जानवर है कि सारा शरीर पानीमें डूब जाय फिर सूढ़की नोक जरासी बाहर रहे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। सांस लेने की जो नाक है वह पानीसे ऊपर रहे। केवल उसकी सूढ़को देखकर यह जान जायें कि यह हाथी है ऐसा भी तो ज्ञान होता है। और कभी एकदम प्रकट पूरा निकले हुएका ज्ञान होता है उसे जानना वह भी ज्ञान होता है। कभी बात नहीं कही गयी, कहनेको था ही कि बड़ी भारी बात जान गय, ऐसा भी ज्ञान होता है। कभी पूरा कहा जाय तब जाने, ऐसा भी ज्ञान होता है। इसे कहते हैं अनुक्त और उक्त ज्ञान।

अनुक्त और उक्त अर्थके ज्ञानका विशेष रहस्य— अनुक्त और उक्तका दूसरा अर्थ यह भी है कि जिस इन्द्रिय द्वारा जो बात जानी जाती है उस इन्द्रिय द्वारा उतनी बातको जानकर फिर दूसरी बात भी जान जाय इसे कहते हैं अनुक्त ज्ञान और जिस इन्द्रियसे जो बात जानी जाती है। केवल वही जानी जाय इसे कहते हैं उक्त ज्ञान। जैसे आंखसे निम्बू देखा। आंखसे देखते ही निम्बूकी खटासका भी ज्ञान हो गया। अभी खाया नहीं पर हो गया ज्ञान। ऐसा भी ज्ञान हुआ करता है। कोई आंख मीच ले और आंख मीचने में ही कहे कि लो यह चीज खाओ। वह मुखसे खा रहा है, आंखोंसे नहीं देख रहा है। फिर भी उसके स्वादके कारण यह ज्ञान हो गया कि यह खीर है, चावलकी है, रुफेद है, इसमें घृण पड़ा है, दुध पड़ा है अथवा अंधेरेमें आम चूसते हुएमें आमका पूरा ज्ञान रहता है। यह सब अनुक्त ज्ञान कहलाता है। और जितनी बात सामने प्रकट हुई है उतना ही जानें यह उक्त ज्ञान है।

प्रथम प्रभेदोंका योग— यह सब हम और आप जिस रीतिसे जान रहे हैं उसकी यह सब कहानी है। हम किस किस ढंगसे जाना करते हैं? हम जानते हैं और जाननेके ढंगोंका ही पता नहीं रहता। आचार्यदेवने हमारे और आपके जाननेके ढंगोंको बताया है। एक ध्रुव पदार्थका ज्ञान होता है और एक अध्रुव पदार्थका ज्ञान होता है। जो स्थिर है उसका भी ज्ञान हो रहा है, जो स्थिर नहीं है विजली चमकी, तुरन्त खत्म हो गई उसका भी ज्ञान होता है। तो इस तरह १२ प्रकारके पदार्थोंका हमें अबग्रह होता है, ईहा होता है, अवाय और धारणा ज्ञान होता है। इस तरह मति-ज्ञानके भेद हुए $१२ \times ४ = ४८$ ।

मतिज्ञानके प्रभेदोंके भेदोंकी प्रस्तावना— यह हमारे और आपके उस ज्ञानकी बात कही जा रही है जो इन्द्रियोंके द्वारा और मनके द्वारा सीधा जो कुछ जानता है। इसको ४८ भेदोंमें से जो अवग्रहके १२ भाग हैं सो अवग्रह कई तो अवबीचमें टूटासे हो जाते हैं और कई अवग्रह पूरे होते हैं। जैसे रास्तेमें चले जा रहे हैं, कोई चिड़ियाकी आवाज आये या किसी अन्य चीजकी आवाज है तो थोड़ा ज्ञानमें आया, पर उसके बारे में और कुछ ज्यादा ऐसा न जान सके कि जिसके ऊपर हम कुछ निश्चय भी कर सकें। ऐसे टूटे अवग्रहको व्यञ्जनावग्रह कहते हैं और जो इतना सा समर्थ अवग्रह होता है कि जिसके बाद हम पदार्थके निर्णय करनेके पात्र बनते हैं उसे अर्थविग्रह कहते हैं। ऐसा होता है ना हम आपका ज्ञान।

अब ५ श्रेणियोंमें मतिज्ञानको रखो। व्यञ्जनावग्रह, अर्थविग्रह ईहा, अवाय और धारणा—ये पांचों ज्ञान १२ प्रकारके पदार्थमें होते हैं।

मतिज्ञानकी उत्पत्तिके साधन— यह ज्ञान इन्द्रियों द्वारा और मन द्वारा होता है। ५ तो हैं ये इन्द्रियां-स्पर्शन जिससे ठंडा गरम आदिक स्पर्श किया जाता है। रसना—जिसके द्वारा खटा मीठा आदिक रस जाने जाते हैं। घ्राण—जिससे गंध जाना जाता है। नेत्र—जिससे रूप जाना जाता है। कर्ण—जिससे शब्द जाना जाता है और मन जो अनेक विकल्प किया करता है। यह मतिज्ञान इन ६ साधनोंसे उत्पन्न होता है—५ इन्द्रियां और एक मन।

व्यञ्जनावग्रहादिके भेद— इनमें से व्यञ्जनावग्रह तो चार साधनों से होता है। नेत्रसे और मनसे व्यञ्जनावग्रह उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण यह है व्यञ्जना है अघट्टा अवग्रह। जल्लुसे हम जो जानेंगे वह पूरा जान जायेंगे, उसमें अधूरी बात नहीं रहती। इसी तरह मनसे जो जाना वह भी अधूरा नहीं रहता और शेष जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण इन चार इन्द्रियोंसे जो जानेगा वह अस्पष्ट भी जान सकता है और स्पष्ट भी जान सकता है पर आंखोंसे जो जाना जायेगा वह तो पुरन्त ही स्पष्ट हो जायेगा और मनसे जो जाना जायेगा वह भी स्पष्ट हो जाता है। तभी तो लोग आंखोंसे देखी हुई चीजका ज्यादा भरोसा रखते हैं। कानसे सुनी हुई चीजका पक्का भरोसा नहीं रखते हैं। कारण यह है कि आंखोंसे जो ज्ञान होता है वह स्पष्ट ज्ञान होता है। तो व्यञ्जनावग्रह जो १२ प्रकारका है वह चार साधनोंका हुआ, इसलिए व्यञ्जनाके $12 \times 4 = 48$ भेद हो गए अर्थविग्रह ६ ही साधनोंसे हुआ करते हैं। ५ इन्द्रियां और १ मन, से अर्थविग्रहके ७२ भेद हुए, ईहाके ७२, अवायके ७२ और धारणाके ७२। इस तरह सब मिला

कर मतिज्ञानके ३३६ भेद हो जाते हैं।

ज्ञानोंके ज्ञानका प्रयोजन— इन सब ज्ञानोंके बतानेका प्रयोजन यह है कि हम ज्ञानको ढंगसे पहिचानें और यह परिणामन किस स्वभावसे, किस गुणसे उत्पन्न होता है उस शक्ति पर दृष्टिपान करें और उस शक्तिमात्र अपने आपका विश्वास करें जिससे यह सुविदित हो जाय कि मेरे आत्मा का अन्य समस्त परपदार्थोंसे रच सम्बन्ध नहीं है। मैं हूँ और अपने कारण अपने आपमें सदा परिणमता रहता हूँ। इस श्रद्धाका कारण बने ऐसे ज्ञान को यह चर्चा की जा रही है। जो बात जिस विधिसे ज्ञात हो सकती है उसको उस विधिसे जानना सो सम्यक्-ज्ञान का सम्यक्-उपाय है।

अप्रायोजनिक विधिसे विवम्बना— एक अथा आदमी था। उससे एक बालकने कहा कि बच्चा आज तुम खीर खावोगे? बच्चा तो जन्मके अंधे थे उन्हें क्या पता था कि खीर कैसी होती है? सो बच्चा बोले कि बेटा खीर कैसी होती है? तो लड़का बोला कि बच्चा खीर सफेद होती है सफेद। अब बच्चाने सफेद कभी देखा हो तो जानें। उन्हें क्या पता कि सफेद कैसा होता है? सो पूछा कि सफेद कैसा? लड़का बोला बगले जैसी सफेद होती है। बगला कैसा होता है? लड़केने बच्चाके सामने बगला जैसा टेढ़ा हाथ करके कहा कि देखो बगला ऐसा होता है। बच्चाने हाथसे टटोल कर देखा तो कहा कि अरे हम ऐसी टेढ़ी खीर नहीं खायेंगे यह तो हमारे पेटमें गड़ेगी। एक कहावन भी बन गयी है कि यह तो टेढ़ी खीर है यानि बात कुछ समझमें नहीं आती, बुद्ध आदमी है उसके लिए तो टेढ़ी खीर है। तो खीरके समझाने का यह कोई ठग था क्या? अरे खीरका रस उसे बताना चाहिए था, किन्तु धीरे-धीरे बढ़ बढ़कर आकार सामने धर दिया तो उसको खीरका ज्ञान कैसे हो सकता है?

निर्मोहताके प्रयोजक ज्ञानकी दृष्टि— इसी तरह निर्मोहता की तो बात सीखनी चाहते हैं और जैसे निर्मोहता आए उस प्रकारका हम ज्ञान करना नहीं चाहते। निर्मोहतासे प्राप्त होने वाला चारित्र और धारित्रके फलके बजाय आकांक्षाकी कोशिश करने पर निर्मोहताके उपायको नहीं करना चाहते तो निर्मोहता कैसे प्राप्त हो सकती है? स्वयं कैसे है, कितने हैं यह अपने आपकी भूलक आए बिना निर्मोहता प्रकट हो ही नहीं सकती है। सो जिन ज्ञानोंको हम करके हम आप व्यवहारोंमें फंसते हैं उन ज्ञानों की जड़ क्या है? इस बातको बताने के लिए इस प्रकरणमें यह ज्ञानका वर्णन चल रहा है।

द्वितीय सम्यक्-विभाव ज्ञान— सम्यक्-विभाव ज्ञानोंमें द्वितीय ज्ञान

है श्रुतज्ञान। मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थमें उससे संबंधित अन्य बातोंको समझना सो श्रुतज्ञान है। यह श्रुतज्ञान लब्धिरूप और उपयोगरूप होता है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान प्रत्येक संसारी जीवके है, किन्तु जिस समय मतिज्ञानका उपयोग है उस समय श्रुतज्ञानका विकल्प नहीं है और जब श्रुतज्ञानका विकल्प है तब मतिज्ञानका उपयोग नहीं है, किन्तु लब्धि सदा बनी रहती है। श्रुतज्ञान एकइन्द्रिय जीवके भी है, संज्ञी पंचेन्द्रियके भी है और बारहवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजके भी है। मोक्षमार्गके प्रकरणमें श्रुतज्ञानका वर्णन द्वादशांग रूप श्रुतज्ञानसे होता है। यों खाने पीने खेलने कूदने रागद्वेष—इन प्रकरणोंमें जो श्रुतज्ञान चलता है उस श्रुतज्ञानसे क्या हित है ?

मोक्षमार्गका प्रयोजक श्रुतज्ञान—मोक्षमार्गका प्रयोजनभूत हितरूप श्रुतज्ञान द्वादशांग रूप है और उस ही श्रुतज्ञानकी मुख्यता करके तत्त्वार्थसूत्रमें जहाँ श्रुतज्ञानका लक्षण कहा गया है, बताया है, “श्रुतं मतिपूर्व द्वयनेकद्वादशांशमेवम् ।” श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है। और वह दो भेदवाला है। अंगवाह्य और अंगप्रविष्ट। अंगप्रविष्टके १२ भेद हैं, जिन्हें द्वादशांग बोलते हैं और अंगवाह्यके अनेक भेद हैं। सबसे छोटा श्रुतज्ञान अक्षरश्रुतज्ञान है और अक्षर मात्र भी नहीं, किन्तु अक्षरके अनन्तवें भाग श्रुतज्ञान है। अक्षरके अनन्तवें भाग श्रुतज्ञान निगोद जीवके होता है। ऐसा समझलो मोटेरूपमें कि एक अक्षरमें जितनी समझ आती है उस समझका भी अनन्तवें भाग समझ निगोदिया जीवमें है। फिर बढ़ते-बढ़ते अक्षर-अक्षर समास, पद, पद समास—इस तरह अनेक भेद होते हैं। यों बढ़ते-बढ़ते फिर आम्बरांग सूत्र कृतांग आदिक १२ अंग हो जाते हैं।

वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण—भैया ! प्रसिद्ध है लोकमें कि ४ वेद होते हैं और ६ अंग होते हैं। ४ वेद हैं प्रथमानुयोग, करुणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। जिनसे ज्ञान हो उन्हें वेद कहते हैं। उन ज्ञानोंका नाम वेद है और १२ अंग हुआ करते हैं। एक और प्रसिद्धि है कि वेदसे श्रुति निकली, श्रुतिसे स्मृति निकली और स्मृतिसे पुराण निकले। इस तरह वेद, श्रुति, स्मृति और पुराण चार भागोंमें ज्ञानका विस्तार है। इस प्रसंगमें वेद नाम है सम्पूर्ण वेदका। परिपूर्ण ज्ञान आ जाय, तीन लोक, तीन कालके समस्त द्रव्य, गुण, पर्यायोंको एक साथ जानता हो उस ज्ञानका नाम है वेद। सकल प्रत्यक्ष, केवलज्ञान और इस केवलज्ञानीके विशिष्ट परमात्माके श्रुति प्रकट होती है। जो सुननेमें आए

उसे श्रुति बोलते हैं, दिव्यध्वनि बोलते हैं। वेदसे श्रुति निकली है, केवलज्ञानसे दिव्यध्वनि बली है। उस श्रुतिको सुनकर बड़े-बड़े आचार्यों ने, गणधर देवोंने इनका स्मरण किया। स्मृति हुई। सो यह स्मृति द्वादशांगरूप है। फिर स्मृतिके बाद जो उनका वक्तव्य हुआ या लिखित रूप में उनके ग्रन्थ आये वे समस्त ग्रन्थ पुराण हैं। पुराण पुरुषोंके द्वारा जो रचित हुए वे पुराण हैं। इस तरह इन पुराणोंका मूल श्रोत वेद है। इसी कारण ये समस्त पुराण प्रमाणभूत हैं। इन स्मृतियोंका और पुराणोंका सम्बन्ध श्रुतज्ञानसे है। यह तो मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत श्रुतज्ञानकी बात है, पर साधारणतया श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है।

श्रुतज्ञानकी मतिपूर्वता— भैया ! ओं समझिये कि जैसे आंख खोल कर देखा तो जो ज्ञानमें आया तुरन्त, वह तो मतिज्ञान और उसके बारेमें फिर यह अमुक चीज है, अमुक जगहकी बनी है, ऐसी विशेषता वाली है, यह ज्ञान हुआ वह कहलाता है श्रुतज्ञान। जैसे मिठाई खाये तो खाते ही जो रसका बोध हुआ वह तो हुआ मतिज्ञान। फिर यह मीठा है, अमुक रसका है, इस तरह बना है, अनेक विकल्प उठे वह सब श्रुतज्ञान है। यह श्रुतज्ञान सम्यक्दृष्टिके तो सम्यकरूप होता है और मिथ्या दृष्टिके कुश्रुत होता है, मिथ्यारूप होता है। तो सम्यक् विभावज्ञानमें यह द्वितीय श्रुतज्ञान है।

द्वितीय सम्यक् विभावज्ञान— तीसरा ज्ञान है सम्यक् विभाव अर्थात् ज्ञान। देशावधि, परमावधि व सर्वावधिके भेदसे ज्ञान ३ प्रकारके होते हैं। जो थोड़ा जाने वह देशावधि है, जो बहुत विशाल जाने वह परमावधि है और जो सम्पूर्ण जान जाय जितना कि अर्थात्ज्ञानका विषय है तो वह सर्वावधि ज्ञान है। देशावधि ज्ञान तो नारकियोंके, देवोंके, मनुष्योंके भी होता है और सही तिर्यक्योंके भी होता है, किन्तु परमावधि और सर्वावधिज्ञान मुनियोंके ही होता है और वह भी मोक्षगामी मुनियोंके ही होता है।

ज्ञानावरणका क्षयोपशम— भैया ! जैसे जैसे इस जीवका उपयोग सहजस्वभावमें हृद् आश्रय कर जाता है वैसे-वैसे इस आश्रयमें ऐसी विशुद्धि प्रकट होती है जिससे ज्ञानावरणका क्षयोपशम बढ़ता है और यह ज्ञान सब प्रकट हो जाता है। वर्तमानमें भी देखते हैं कि लड़के तो सब एक ही किरमके हैं पर विद्या किसी को विलम्बमें आती है, किसी को जल्दी आती है इसका कारण क्या है कि पूर्वभव का क्षयोपशम जिसके विशाल है उसके इस भवमें भी थोड़े उपायसे शीघ्र आ जाती है। जिसका क्षयोप-

शम कम है, पूर्वभ्रममें भी कोई विशुद्ध परिणाम नहीं किया था जिससे श्लयोपशम नहीं बढ़ सका, तो इस भ्रममें भी देरसे विद्या आती है।

मनुष्यत्व— कोई लोग प्रश्न करते हैं—क्यों भाई मनुष्यका होना तो अच्छी बात है, दुर्लभतासे मनुष्यभ्रम मिलता है। पुण्यका उदय हो तो मनुष्य बनता है। तो आजके समयमें मनुष्योंकी संख्या बहुत बढ़ रही है तो कोई पुण्यका ही जमाना बहुत बढ़ रहा होगा जिससे मनुष्योंकी संख्या बहुत बढ़ गयी है। यदि यह कहना ठीक है कि पुण्य बढ़ रहा है तो सामने यह भी दिखता है कि बुद्धिहीन, मलिन, दीन, दरिद्र ऐसे लोग भी बहुत मौजूद हैं तो पुण्य कैसा है? आजके समयमें सब देश सुखपूर्वक नहीं रह पा रहे हैं। फलका कुछ भरोसा करके कोई नहीं सो पाते हैं। ऐसी स्थिति में पुण्य तो नहीं कहा जा सकता। और मनुष्य ऐसे बढ़ रहे हैं तो यह क्या बात है? अब ज्यों ज्यों समय खराब आता जाता है वैसे ही सिद्धान्तके हिसाबसे भी पंचम कालका समय ज्यों-ज्यों अधिक व्यतीत होता जाता है, त्यों-त्यों ये मनुष्य बढ़ रहे हैं तो एक कारण मालूम होता है कि समस्त विश्वमेंसे जिन-जिन जीवोंने मनुष्य आयुका बंध किया वह तो पुण्य प्रतापसे ही किया और उन्हें अच्छा ही मनुष्य होना चाहिए था, पर करनी पीछे उनकी बिगड़ी तो वे मनुष्य तो होंगे ही, परन्तु बिगड़ी करने वालोंको छोट-छोटकर आजकी इस परिचित दुनियामें मानों पैदा किये जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मनुष्य होकर भी जीवनका क्या लाभ उठा सकते हैं? मनुष्य हुए तो इस प्रकारसे जीवन व्यतीत करें कि अपनी रुचि केवल आत्महितके लिए बने। अन्य सब बातें गौण हो जायें।

ज्ञानीकी अनाकुलता— जो होता हो ठीक है, यों हो गया ठीक है, यों नहीं हुआ ठीक है। जितने भी दुःख होते हैं वे सब अपने अपराधसे होते हैं। दूसरे के कारण दूसरा कोई दुःखी नहीं होता है। अपने ही विचार अपनी ही कल्पनाएँ बनाई जाती हैं और उन्हीं कल्पनाओंसे प्रेरित होकर क्लेश भोगने पड़ते हैं। अपना ज्ञान सावधान रखें और अहितरूप कल्पनाएँ न बनने दें फिर देखो कैसे क्लेश होता है? तो अन्य बातें जो हमारे आत्महित की प्रयोजक नहीं हैं, चाहे बड़ासे बड़ा उपद्रव छा जाय तो भी इतना साहस सम्यग्दृष्टि पुरुषमें होता है कि वह परकी परिणतिसे अपने चित्तमें मूलमें आकुलता उत्पन्न नहीं करता।

निरापदताका मूल उपेक्षा— एक किसान और किसानिन थे, तो विवाह हुए १२ वर्ष हो गए। किसान था जरा उजड़ु परन्तु किसानिन थी चतुर व शान्त। सो १२ वर्षमें एक दिन भी किसानिनको वह पीट न सका

था। तो देहाती लोग तब अपनेको मर्द मानते हैं जब एक दो बार पीट लें स्त्रीको। तो उसने कई बार ऐसा उपाय किया कि किसी प्रकरणा में स्त्रीको थोड़ासा गुस्सा आये या कोई गड़बड़ बात तो बोले। बिना प्रयोजन कैसे मारा जाय ? एक युक्ति उसे सूझी। अषाढ़के दिनोंमें दोपहरके समयमें खेत था, तो रोज रोटी लानेका उसका कार्यक्रम था। किसानने सोचा कि आज के दिन ऐसा करें कि एकदम ऊटपटांग काम करें जिसे देखकर स्त्री कुछ तो बोलेली। बस हमें पीटनेका मौका मिलेगा। सो हलमें जो जुधा होता है—सो उसने एक बैलका पूरबको मुंह कर दिया और एक का मुंह पश्चिमको कर दिया और गलेपर जुधां घर दिया। अब हल कैसे चलेगा ? बताओ तो सोचा कि स्त्री ऐसा देखकर कुछ तो कहेगी ही। बच्चे कैसे पालोगे, अनाज कैसे होगा, कुछ दिमाग तो सुधारो, कुछ तो बोलेली हीं, बस ठोंकनेका मौका मिल जायेगा।

स्त्री जब रोटी लेकर दोपहरको आई तो दूरसे हीं देख लिया और समझ गयी कि आज तो पीटनेके लक्षण दिखते हैं क्योंकि अभी तक तो ऐसा बेवकूफीका काम कभी नहीं किया, आज भरमें तो ये पागल हो नहीं गए। ऐसा आँधा सुधा क्यों जाता, इसमें कोई रहस्य है। वह जब खेतमें आ गयी तो रोटी घरकर कहती है कि चाहे आँधा जोतो, चाहे सीधा जोतो इससे तो हमें कुछ मतलब नहीं है। हमारा तो काम रोटी देनेका है तो लो और खाओ, रोटी देकर वापिस चली गयी। किसान यों ही देखता रह गया। उसने तो बड़े फंद रचे थे कि वह यों कहेगी तो यों उत्तर देंगे, यों कहेगी तो यों उत्तर देंगे, मारने का मौका मिल जायेगा। तो बुद्धिमान हो और पिटाईसे बचना हो तो उसका उपाय इस किसाननिसे सीख लो।

ज्ञानबलका सत्फल—भैया ! परपदार्थके परिणामन चाहे आँधे हों चाहे सीधे हों, जो कुछ है ठीक है, अपनेमें क्यों आकुलता बाना ? इतनी हिम्मत ज्ञानबल उत्पन्न करता है और फिर परपदार्थकी परिणति आधीन किसीके नहीं होती है, वह तो जिस तरह होनी है होती है, पर अपनी कल्पनाके अनुसार उनके परिणामनमें बात फिट बैठ गयी तो मानते हैं कि इनका परिणामन मेरे आधीन हुआ है। इतनी गम्भीरता उत्पन्न होना ज्ञानके ऊपर निर्भर है। प्रस्तुती स्वतंत्रताका निर्णय करके जिसने अपने आपमें यह देखा है, लो मैं यह हूँ और इस रूप बन रहा हूँ, अपने उपादान से बन रहा हूँ हम छोटे हैं तो हम बाहरमें कुछ निमित्त बनाकर कल्पनाएं करके दुःखी होंगे। हम सही हैं तो बाहरमें चाहे कोई पदार्थ किसी ढंगमें

भी परिणामता हो किन्तु वह तो उचित कल्पनाएं बनायेगा।

अन्तर्भावके अनुसार प्रवृत्ति— भीतरमें जिसकी जैसी दृष्टि होत है, बाहरमें परबस्तुविषयक वैसी कल्पना करते हैं। अभी बहुत बाल बच्चे हैं और किसीने कोई चीज चुराई हो तो कहें कि देखो सावधानी से बैठना, जिसने चीज चुरायी होगी वह लड़का अभी पकड़ा जायेगा। वेना हम मंत्र पढ़ेंगे, जब स्वाहा बोलेंगे तब जिसने चोरी की होगी उसकी चोटी खड़ी हो जायेगी। वह झूठमूठका मंत्र पढ़ने लगा, जब स्वाहा सुना तो जिस लड़के ने चोरी की वह लड़का अपनी चोटी पकड़ कर देखने लगता है। स्वभावतः उसका हाथ उसके सिर पर चोटी पकड़कर देखनेके लिए उठ ही जायेगा। तो भीतरमें जैसी श्रद्धा होती है उसके ही अनुसार संसारवृत्ति बनती है। हमारी अगर पापभावना है तो बाहरमें पाप भरी कल्पनाएं ही बनेंगी। क्योंकि स्वयंमें तो पापभावना बर्सी हुई है। और स्वयंमें यदि शुद्ध है तो चाहे दूसरा कोई गलत भी हो तो भी बहुत समझनेके बाद वह गलत मान पायेगा। सुगमतया उसको सब शुद्ध ही दिखेगा।

ज्ञानीकी भाषना और वृत्ति— जैसी दृष्टि होती है वैसी बाहरमें प्रवृत्ति होती है। जिस ज्ञानी पुरुषने अपने आपमें सहज स्वरूपका दर्शन करके उसकी भाषना द्वारा स्थिरता उत्पन्न की है वह अपनी उस स्थिरता के अनुसार बड़ा हुआ ज्ञान पाता है और इस ही सहजज्ञानदेवकी भक्त के प्रसादसे ऐसा ज्ञान प्रकट होता है, जिसे वेद शब्दसे कहा गया हो, सकल प्रत्यय शब्दसे कहा गया हो, तीन लोक, तीन कालके समस्त पदार्थों को जानने वाला होता है।

ज्ञानीकी आकांक्षा— ये तीन लोक इस जाननेमें आयें चाहे न आयें, हे प्रभु मुझे कोई आकांक्षा नहीं है कि मैं सारे विश्वको जान लूं, किन्तु हमारे ऐसा ज्ञान प्रकट हो कि मैं अपने आत्माके शुद्धसहज पक्व स्वरूपको जानता रहूं। उस यथार्थ जाननेकी इच्छा करता हूं। सारे विश्वको जाननेकी चाह नहीं करता। मुझे केवल दर्शन मिले चाहे न मिले यह चिन्ता नहीं है कि मैं सारे विश्वका द्रष्टा बन जाऊं, क्या प्रयोजन पड़ा है? किन्तु इतना दर्शन मेरे अर्थय प्रकट हो कि मैं अपने आपके आत्मरूप का दर्शन किए रहूं। मुझे अनन्त सुख मिले या न मिले, इसकी मुझे कोई चाह नहीं है। किन्तु इतनी बात तो मुझमें आए कि आधुनिकता उत्पन्न न हो। मुझे अनन्त आनन्दकी कोई चाह नहीं है, किन्तु मुझमें आकुलता तो रहे ही नहीं। मुझमें अनन्त बल प्रकट हो चाहे न हो। क्या होगा उससे? बलशाली हो गए तो क्या, किन्तु इतना बल तो प्रकट हो कि मैं अपने

आपके ज्ञानस्वरूपमें समा सकूं ।

स्वरूप समावेशबल— अपने आपके स्वरूपमें समाने के लिए भी बल चाहिए । जैसे अपने शरीरमें जो धातु उपधातु हैं उनको संभालने के लिए बल चाहिए । जब देखो कमजोर हो जाते हैं तो मुखसे राल बहने लगती है, नाकसे पानी बहने लगता है, आंखसे पानी भरने लगता है, मैं ये मूल हड्डाने के लिए, ये बाहर न निकल जायें इसके लिए कुछ बल चाहिए ना, तो जब इस नकली बलके लिए नकली इस देहमें ठीकठाक बने रहने के लिये, इसे साधवान बने रहने के लिए इस देहकी चीज देहमें ही समायी रहे. बाहर न निकल पाये, इतनी बातके लिए भी बलकी जरूरत है । तो आत्माका गुण आत्माका वैभव आत्मामें ही समाये रहें, अपने आपमें अपने आपको लीन कर सके, बाहर-बाहर न भटकते फिरें मुखकी तलाशमें; तो ऐसी स्थिति पानेके लिए भी बल चाहिए । हे प्रभो ! मुझमें वह बल प्रकट हो और अनन्त बल मिले, न मिले उसकी आकांक्षा नहीं है ।

आत्मवैभव और अनन्त वैभव— आत्मज्ञान, आत्म दर्शन, आकुलता न होना अपने आपमें समाये जानेका बल—ये चारों बातें अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त बलको प्रकट करने वाली होती हैं । हो जायें, पर जीवका प्रयोजन तो केवलमात्र आकुलताके न होने से है । यों इस शुद्ध ज्ञानके प्रतापसे आत्मामें कैसे-कैसे ऐश्वर्य बढ़ते हैं, उसका यह प्रसंग है; यह सम्यक्विभाव ज्ञान तृतीय ज्ञान अथविज्ञान है ।

चतुर्थ सम्यक् विभावज्ञान— सम्यक् विभाव ज्ञानोंमें चतुर्थज्ञान है मनःपर्यय ज्ञान । ऋद्धिधारी साधुजनोंके ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता है । मनःपर्ययज्ञान जो दूसरेके मनकी बात जान ले सो मनःपर्ययज्ञान है । मनःपर्यय ज्ञानसे मनका विकल्प भी जान लिया जाता है और जिस पदार्थ के सम्बन्धमें विचार किया वह पदार्थ भी जान लिया जाता है । ऐसा ज्ञान ऋद्धिधारी जनोंके प्रकट होता है । मनःपर्ययज्ञान सम्यक् रूप ही होता है । मिथ्यादृष्टि जीवके मनःपर्ययज्ञान नहीं होता और सम्यक् दृष्टियोंमें भी विशिष्ट ऋद्धिधारी साधुके होता है । मनःपर्ययज्ञान दो प्रकारका है एक ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान और दूसरा विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान । दूसरेके मनकी सीधी सरल बात हो उसे जानें यह तो है ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान और दूसरेके मनमें कैसी ही कुटिल बात हो, मायाचारपूर्ण हो अथवा धुरा विचार हो या आगे पीछे जाने उस सबको विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान जान लेता है ।

ऋजुमति व विपुलमतिमें अन्तर— ऋजुमतिसे विपुलमतिक

क्षयोपरम अधिक है, विशुद्धि अधिक है। ऋजुमति मनःपर्यय वाला तो केवलज्ञान होनेसे पहिले छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है, पर विपुलमय मनःपर्ययज्ञान तो केवलज्ञान उत्पन्न होने पर ही छूटता है, पहिले नहीं छूटता है। विपुलमति मनःपर्ययज्ञान वाला जीव नियमसे मोक्ष चला जाता है।

अवधिज्ञान व मनःपर्ययज्ञानमें अन्तर— अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें इतना स्थूल अन्तर है कि अवधिज्ञान तो रूपी पदार्थोंको ही जानता है और मनःपर्ययज्ञानरूपी पदार्थोंके सम्बन्धमें कोई कुछ विचार करे तो वह मनकी पत्र ड़को भी जानता है और उसके विषयको भी जानता है। अवधिज्ञानके स्वामी ब्रह्मलोककी दुनियामें बहुत मिलेगे, मनःपर्ययके स्वामी बहुत कम। अवधिज्ञान नारकोंके, देवोंके, संज्ञी-ब्रह्मचेन्द्रियके और मनुष्योंके, चारों गतियोंके जीवोंके होता है, किन्तु मनःपर्ययज्ञान तो मनुष्यमें ही होता है और उनमें भी सम्यग्दृष्टियोंके, उनमें भी साधुओंके और उनमें भी संयमी साधुओंके होता है, किन्तु विशुद्धि मनःपर्ययज्ञानमें बहुत होती है। अवधिज्ञान बहुत लम्बे क्षेत्र तकके जीवोंमें पाया जाता है। स्वर्गोंमें सर्वार्थसिद्धि तक अवधिज्ञान है। नारकोंमें, सभीमें अवधिज्ञान हो सकता है और तिर्यकक्षेत्रमें तो समस्त तिर्यक लोकमें जो कि एक राजू विस्तार वाला है, अवधिज्ञान हो सकता है, किन्तु मनःपर्ययज्ञान जो ढाई द्वीपके अन्दर ही संयमी जनोंके होता है, उनके ही हो सकता है। अवधिज्ञान मोटी बात जानता है मनःपर्ययज्ञानकी अपेक्षा। मनःपर्ययज्ञानी अवधिज्ञानीसे बहुत सूक्ष्म बात जान सकते हैं। मनका विकल्प तो अवधिज्ञानके विषयसे बहुत सूक्ष्म है। इस प्रकार सम्यक्बिभावज्ञानोंमें ये चार ज्ञान बताये हैं। ये चारों ज्ञान सम्यग्दृष्टि जीवके ही होते हैं। जो आत्मा के सहज परमभावमें स्थित हो, उसके ही ये चारों ज्ञान होते हैं।

कुज्ञानमें कुत्सितता— इनमें ये अतिज्ञान, अज्ञान और अवधिज्ञान यदि मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं तो ये कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञानरूप होते हैं। कुमतिज्ञानमें सब अहितरूपसे ही जाना जाता है, कुश्रुतज्ञान में खोटे ही खोटे जो विचार हैं, वे उत्पन्न होते हैं। बड़े-बड़े बम बनाने लिये जाते हैं, जो एक इरादेसे कहीं गिरा दिये जायेंगे तो वहां सैकड़ों मीलके मनुष्य मरेंगे—ऐसी शक्ति वाले बमोंको बनाना यह क्या काम है? दिव्यारीकी बात है? कितना दिमाग लगाते हैं? किन्तु वह कुश्रुतज्ञान है, जो जीवोंकी हिंसाका ही प्रयोजक है। कुअवधिज्ञानसे देखते हैं परोक्षकी बात, पर जो अहितरूप ही, वह दिखता है, हितरूप बात नहीं दिखती।

कुअवधिज्ञानीकी संस्कृतिका एक उदाहरण— जैसे एक कथानकमें आया है कि राजा अरविन्द बुखार होनेसे दुःखी बैठे थे। भीत पर दो छिपकलियां लड़ गयीं और ऐसी तेज लड़ी कि उनकी पूंछ टूट गयी और दो-चार खूनकी बूंदे राजाके शरीर पर गिरीं। वे बूंदे राजाको बड़ी टण्डी लगतीं, बड़ी अच्छी लगतीं। वे ठरही बूंदे चाहे पानीकी हों, चाहे खूनकी हों, चाहे किसी चीजकी हों, अच्छी तो लगेंगी ही। सो राजाने सोचा कि इस से हमें बड़ी शान्ति मिली है। सो लड़कोंको बुलाया और कहा कि घरमें खूनकी एक बावड़ी भरवा दो, हम उसमें स्नान करेंगे। पिताकी ऐसी आज्ञाको वे लड़के कैसे टालें? सो पूछा कि कहां इतना खून मिलेगा, जो घरकी बावड़ी खूनसे भर जाये? वह राजा अवधिज्ञानी था, मगर खोटा अवधिज्ञानी। सो कुअवधिज्ञानसे देखकर राजा बताता है कि देखो इस दिशामें अमुक जंगलमें बहुतसे जंगली जीव रहते हैं, वहां बहुतसे हिरण मिलेंगे, कुछ स्थानोंमें खरगोश भी मिलेंगे, कुछ स्थानोंमें बनगाय भी मिलेंगी, सो वहां जाओ और उनको मारकर उनके खूनसे इस घरकी बावड़ीको भर दो।

अब वे लड़के विषय होकर चले। उसी जंगलमें एक मुनि महाराज बैठे थे। लड़कोंने प्रणाम किया। मुनि मनःपर्ययज्ञानी था। वह साधु स्वयं बोलता है कि ऐ बच्चों! कुबुद्धि पिताके प्रीति तम लाखों जीवोंकी हिंसा करने आये हो? इस बातको सुनकर लड़कों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लड़कोंने पूछा कि आपने कैसे सारी बातें जान लीं कि इनका पिता कुबुद्धि है? वह साधु बोला कि तेरा पिता अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है। वह खराब बातें तो बता देगा, पर अच्छी बातें न बतायेगा, क्योंकि उसके खोटा अवधिज्ञान है। कहा कि महाराज! कैसे परीक्षा करें? कहा कि खोटकर उनके पास जावो और पूछो कि वहां और कुछ भी है कि नहीं? तो वे यह न बता-पायेंगे कि कहीं कहीं वहां साधु महाराज रहते हैं।

लड़के गए, उन्होंने पितासे पूछा तो राजाने बताया कि उधर दस सिंहांकी टोली है, उधर खरगोश हैं, वहां कुछ बनगाय भी हैं, वहां पर हिरण भी बहुत हैं—ये सारी बातें बता दीं, पर यह नहीं बताया कि वहां एक कोनेमें साधु महाराज बैठे हैं। लड़कोंने जाकर ऐसा ही साधु महाराजको बताया। साधुने बताया कि देखो वह राजा सब खोटी ही खोटी बातें बताएगा। संत, धर्मात्मा, संन्यासीमें उसका उपयोग नहीं जाता है। लड़कोंकी समझमें सब आ गया और सोचा कि पापका फल स्वयंको ही भोगना पड़ेगा।

लड़कोंका विवेक— वे लड़के वापिस चले गए और लाखका रंग लाकर उस बावड़ीको भर दिया और कहा कि पिता जी तैयार है खूनसे भरी बावड़ी, खूब नहावो। राजाने देखा तो उसमें खूनका सा स्वाद न आया, सो सोचा कि यह खून नहीं है, यह लड़कोंने हमारे संग छल किया है। सो नंगी कटार लेकर वह मारने के लिए लड़कों को दौड़ा। लड़के आगे-आगे भागते चले जा रहे थे। रास्तेमें राजाको ठोकर लगी, गिर गया और उसकी कटारी उसके ही पेटमें लग गयी। वह राजा मरकर नरकमें गया।

कुअवधिज्ञानमें कुत्सितज्ञान— भैया ! कुअवधिज्ञानमें सब खोटा ही खोटा दिखता है। भला नहीं दिखता है। यह अंदाज कर लो कि आप का यदि खोटा आशय है, कोई भ्रम है तो आपको अच्छी बात न दीखेगी। अच्छी भी बात होगी तो अर्थ उसका यों लगायेंगे, यों घटायेंगे कि जिससे कोई क्लेशकी बात उत्पन्न हो। तो जिसका आशय मलिन है ऐसे पुरुष अच्छी बातोंको कहां देखेंगे ? तो कुमति, कुश्रुति, कुअवधि ज्ञान ये केषल विभावरूप होते हैं। इन्हें मिथ्याविभाव ज्ञान कहना चाहिए।

स्वभावज्ञानका विवरण— इस प्रकरणमें सबसे पहिले प्रत्यक्ष ज्ञान बताया गया था स्वभाव ज्ञान—वह स्वभाव ज्ञान दो प्रकारका कहा है। कारणस्वभाव ज्ञान और कार्यस्वभाव ज्ञान। कार्यस्वभाव ज्ञान तो केषल-ज्ञानका नाम है और कारणस्वभावज्ञान आत्माके सहज ज्ञानका नाम है। ज्ञानस्वभाव, ज्ञानशक्ति, चैतन्यस्वभाव यही है कारणस्वभाव ज्ञान। ये आत्माके दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान है, किन्तु कार्यस्वभाव ज्ञान तो है सकलप्रत्यक्ष और कारणस्वभाव ज्ञान है स्वरूपप्रत्यक्ष। केषलज्ञान समस्त पदार्थोंको तीन लोक, तीन कालवर्ती सकल द्रव्य, गुण, पर्यायोंको एक साथ स्पष्ट जानता है, आत्माके द्वारा जानता है, इन्द्रियकी सहायता बिना। इस कारण केषलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है और सहजज्ञान यह शुद्ध अंतस्तत्त्वमें अथवा परमतत्त्वमें व्यापक है। अपने ही स्वरूपमें अपने ही आत्माश्रित है इस कारण इसे स्वरूपप्रत्यक्ष कहते हैं।

सम्यक् विभावज्ञानोंमें प्रथम विकलप्रत्यक्षज्ञान— अब सम्यक् विभाव ज्ञानोंमें कौनसा ज्ञान प्रत्यक्ष है और कौनसा ज्ञान परोक्ष है ? यह बताते हैं— प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहते हैं कि आत्मीय शक्तिसे स्पष्ट जान लेना और जो इन्द्रियके निमित्तसे अविशद जाने, एक देश जाने वह है परोक्षज्ञान। जैसे सामने संदूक रखा है, इन्द्रियज्ञान तो सामनेका भाग ही जान सकेगा। छे कैसा है, अन्दर कैसा है यह तो नहीं जाना। और अविधिज्ञानसे

जाना गया तो आगा पीछा भीतर सब जाननेमें आ जायेगा। यह अवधि ज्ञान इन्द्रियकी सहायताके बिना हुआ है, सो अवधिज्ञान है। विकल प्रत्यक्ष क्योंकि वह समस्त पदार्थोंको नहीं जान पाता किन्तु रूपी पदार्थोंको ही जानेगा। अवधिज्ञान मोटी चीजको ही जानता है और एक परमाणु तक का भी ज्ञान करता है।

उत्कृष्ट अवधिज्ञानोंके द्वारसे जानकारी की विशालता— भैया! उत्कृष्ट कक्षाका अवधिज्ञान हो, परमावधि सर्वावधि ज्ञान हो, तो उस ज्ञान के द्वारा परम्परया सम्यक्त्व और चारित्र परिणमन भी जान लिया जाता है। सम्यक्त्व और चारित्र परिणमन सीधा अवधिज्ञानका विषय नहीं है क्योंकि यह अमूर्त है। अवधिज्ञान तो रूपी पदार्थोंको ही जानता है किन्तु कर्म कितने हटे हैं, कर्म कितने धरे हैं यह तो अवधिज्ञानी जान सकता है ना, क्योंकि कार्मण द्रव्यरूपी पदार्थ है और जहां यह जान लिया आगमज्ञानी संतने कि अमुक प्रकृतिके कर्म इतने कम हैं, इतने मौजूद हैं तो उससे सम्यक्त्व और चारित्रकी बात अज्ञानसे जान लिया जाता है। अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान विकल प्रत्यक्ष है, एक देश जाननहार है।

सांन्यावहारिक प्रत्यक्षता— मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये वास्तवमें तो परोक्ष हैं इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न होते हैं, पर व्यवहारसे ये भी प्रत्यक्ष हैं। जैसे आंखसे अभी देखा, जान लिया कि यह भिड़ी है, लौकी है तो बताओ ऐसा ज्ञान कर लेना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलायेगा या परोक्ष? यह परोक्ष कहलाता है। इन्द्रिय और मनके निमित्तसे जो कुछ जाना जाय वह सब परोक्ष है। लोकव्यवहारमें इसे प्रत्यक्ष कहते हैं, कहते हैं ना, बाह जी बाह मुझे प्रत्यक्ष दीखा और केवल देखनेको ही प्रत्यक्ष नहीं कहा गया है किन्तु पंचेन्द्रियके ग्रहणसे प्रत्यक्ष बोला करते हैं। कोई-कोई तो आंखसे भी पूरा समझमें नहीं आता। खरकर या छूकर समझमें आता है। जैसे सामने मीठा फल या मिठाई रखी है तो आंखोंसे देखनेसे आपको पूरा समझमें न आयेगा। तो कैसे समझमें आयेगा? उसे स्वाकर समझमें आयेगा कि यह अच्छी मिठाई है या यह अच्छा फल है।

सांन्यावहारिक प्रत्यक्षकी विशदता— अग्निके सम्बन्धमें कोई वकील मान लो युक्ति लेकर उसे ही सिद्ध करने लगे—आग ठंडी होती है क्योंकि पदार्थ है, जो-जो पदार्थ होते हैं वे सब ठंडे होते हैं—जैसे पानी पदार्थ है वह ठंडा होता है और यह अग्नि गरम होती है यह समझानेके लिए क्या करना चाहिए? अरे चीमटेंसे आग उठाकर उसके हाथमें धर देना

चाहिए, तुरन्त समझमें आ जाएगा। अरे...रे...रे... ! यह तो आग है। कोई चीज स्पर्शसे समझमें आती है, कोई चीज चलकर समझमें आती है, कोई चीज देखकर समझमें आती है—इन सबमें प्रत्यक्षका व्यवहार होता है। बाह्य, हमने स्वयं प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष सुना—यह सब व्यवहारसे प्रत्यक्ष है। आत्माके स्वरूपकी और कलाकी दृष्टिसे वे सब परोक्ष हैं, क्योंकि वे इन्द्रिय और मनके निमित्तसे वे उत्पन्न हुए।

युक्तिसे व्यावहारिक विशदताकी प्रबलता—एक वकील साहब घूमने जा रहे थे। आगे एक तेलीका घर मिला। वहां कोतहू चल रहा था। उस बैलके एक घण्टी बंधी थी। वह बैल चलता था तो उसके गलेकी घण्टी बजती थी। वकील साहब बोले कि क्यों तेली भैया ! इस बैलके तुमने घंटी क्यों बांध रखी है ? तेली बोला कि इसके घण्टी बंधी रहनेसे हमें इसके पीछे-पीछे नहीं चलना पड़ता, हम अपना काम करते रहते हैं। जब तक घण्टी बजती रहती है, तब तक तो समझते रहते हैं कि चल रहा है और जब घण्टी बजना बंद हो जाती है तो हम समझ जाते हैं कि अब बैल खड़ा हो गया है। सो आकर एक ढण्डा बैलके जमा जाते हैं और फिर बैल चलने लगता है। बैल चलता रहता है, हम अपना काम करते रहते हैं। इसलिये यह घण्टी इस बैलके बंधी है। वकील साहब बोले कि अगर खड़े-खड़े ही यह इस घण्टीको हिलाता रहे तो क्या तुम जान पाओगे कि बैल खड़ा है ? वह तेली बोला कि अभी हमारा बैल वकील नहीं बना है, जिस दिन वकील बन जाएगा, उस दिन दूसरा उपाय सोचेंगे। युक्तिबलसे कुछ भी सिद्ध किया जाए यहां, किन्तु सांव्यावहारिक प्रत्यक्षमें तो बोध विशद और प्रत्यक्ष होता है।

ज्ञानव्यक्तियोंका स्रोतभूत विशदज्ञान— इस ज्ञानमें से हमें क्या देखना है और क्या शिक्षा लेनी है ? इसमें साक्षात्-मोक्षका मूलभूत केवल एक सहजज्ञान है जो एक निज परमात्मतत्त्वमें निष्ठ है, रहता है। कहाँ दृष्टि देनी है ? यह ज्ञानपरिणामन जिस शक्तिसे उद्भूत होता है, उस सहज-स्वभावमें दृष्टि देनी है, वही उपादेय है। उस सहजज्ञानके अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है, क्योंकि भव्यजीवोंके वह परमस्वभावरूप है। पारिणामिक भाव-स्वभावसे सहजतत्त्वकी दृष्टिके प्रतापसे भव्यजीवोंके भव्यत्व गुण का विपाक होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। इस कारण एक यह सहजज्ञान उपादेय है। बड़े-बड़े योगीजन आरम्भ और परिग्रहकी त्यागकर एकान्तमें निवास करके किसकी धुनि बनाए रहते हैं कि उनके रात-दिन बड़े आनन्द से गुजरते हैं और कोई आकुलता नहीं होती ? वह धुनि है इस आत्माके

इसी अन्तस्तत्त्वके दर्शनकी । जब उपयोग जाता है, सफलता मिलती है तो और दृढ़ताके साथ इस पुरुषार्थमें वे लगते हैं और इसके स्मरणके प्रतापसे ही बहुत समय तो उनका आनन्दमें व्यतीत होता है ।

सहजज्ञानकी ईप्सिततमता— भैया ! लोकमें सब कुछ वैभव रहना सुगम है, किन्तु एक इस निज आत्मतत्त्वके, इस सहजस्वरूपके दर्शन होना कठिन है । सब कुछ मिल जाए, क्या होगा इससे ? अन्तमें मरण होगा, छोड़कर जाना होगा ? यह आत्मा फिर क्या पायेगा अगले भवमें ? एक इस सहजज्ञानकी दृष्टि जगी हो तो इस निर्मलताके प्रतापसे आगे भी यह सन्मार्ग पा सकेगा और यों ही विषयाकांक्षाओंमें समय गुजरा तो ये तो कोई साथ न रहेंगे, किन्तु पापका फल ही सामने नजर आएगा ।

ज्ञानविबरणमें ग्राह्य तत्त्व— ज्ञानके इस प्रकरणमें ग्रहण करने योग्य बात कही गयी है कि इस संकटहारी नाथकी भावना करना चाहिये । यह आत्मदेव नाथ है । न अथ—जिसकी आदि नहीं है । यह सुक्त लक्ष्मीका नाथ स्वभावतः समस्त संकटोंसे परे अपने स्वरूपमात्र है । प्रभुमें व्यक्त अनन्त चतुष्टय है तो इस आत्मतत्त्वमें स्वभाव अनन्त चतुष्टय है । कारणरूप ज्ञान, दर्शन, आनन्द और शक्ति इस आत्मदेवके हैं और कार्यरूप यही चतुष्ट प्रभु परमात्मामें है । इस अत्यन्त निकट वर्तमान परम चित्स्वरूपके, श्रद्धान्के द्वारा अपने आत्माकी निरन्तर भावना चरनी चाहिए । जिसके प्रतापसे प्रभुत्वदर्शन और प्रभुत्वपरिणामन होता है । वह वृत्ति जिस वृत्तिके द्वारा अपने आत्माकी भावना होती है, वह है सहज चिद् विलासरूप । प्रभुके दर्शन बनावट, दिखावट, सजावटसे नहीं हो सकते । आत्मतत्त्वका अनुभव धनके आधीन नहीं है, लोकमें पोजीशन बढ़ जाय, इसके आधीन नहीं है, यह तो सहज चिद् विलासरूप वृत्तिके द्वारा दृष्ट होता है ।

स्वरूपाचरणकी विभुता— ज्ञानीकी वृत्तिमें सहज वैराग्य है । सम्यक्त्व होने पर ज्ञान और वैराग्य सम्यक होता है मूलतः, फिर ज्ञानकी पूर्ति वैराग्यकी पूर्ति असलरूपमें पश्चात् होती है, किन्तु सम्यक्त्वके होते ही ज्ञान और चारित्र प्रारम्भ हो जाता है । अविरत सम्यग्दृष्टि इसलिए कहा जाता है कि वह प्रगतिरूपमें अणुव्रत और महाव्रतरूपसे तैयारी करके आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए उसका नाम अविरत सम्यग्दृष्टि है । फिर भी सम्यक्त्वके होने पर स्वरूपका आचरण व जानना वहां होता है, उस दृष्टि से उसके चारित्र भी होगा । स्वरूपाचरण चतुर्थ गुणस्थानमें है और उस स्वरूपाचरणकी वृद्धिके लिये अणुव्रतका पालन होता है, महाव्रतका पालन

होता है और अन्तमें जहां अगुप्त और महागुप्त भी शांत हो जाते हैं, वहां स्वरूपाचरणका विशिष्ट विकास हो जाता है। स्वरूपाचरण इस सम्बन्धिका साथ नहीं छोड़ता। अगुप्त और महागुप्त तो किसी स्थितिसे चलते हैं और किसी स्थिति तक चलते हैं, किन्तु स्वरूपाचरण चतुर्थ गुणस्थानमें भी उसकी पदवीके योग्य प्रकट हुआ है और यह स्वरूपाचरण आपनी-अपनी पदवीके विकारके अनुरूप ऊपरके सभी गुणस्थानोंमें प्रकट होता है और यह सिद्ध होने पर भी नहीं छूटता। स्वरूपाचरण वहां परिपूर्ण बना ही रहता है। सहज चिद् विलासरूप जो कि वीतराग आनन्द-अमृतको साथ लिए हुए है, उस चिद् विलासरूप पुरुषार्थके द्वारा इस आत्माकी भावना करनी चाहिये।

ज्ञानमात्रभावनाका महत्त्व— यह आत्मतत्त्व निरावरण व्याघातसे रहित परमचैतन्यशक्तिरूपसे सदा अन्तःप्रकाशमान है। त्रिकाल—कभी भी वियुक्त नहीं होता है—ऐसे इस स्वभाव अनन्त चतुष्टय करि सम्पन्न परमपारिणामिकभावमें स्थित इस आत्मतत्त्वकी उपासना करनी चाहिए। सीधीसी बात यह है कि जैसे अपने-अपने नामकी सबके अन्दर भावना भरी है—मैं अमुक हूँ। जैसे उस नामके प्रति श्रद्धा, रुचि, वृत्ति बनी हुई है। इसी प्रकार यह नामकी वृत्ति न रहकर मैं ज्ञानव्योतिमात्र हूँ—इस तरहकी रुचि और भावना बने तो आत्मतत्त्वके अनुभवका अवसर मिलता है। अहो, कैसा व्यामोह है मनुष्यको कि नामके अक्षर परिमित हैं, थोड़ा अदल-बदल कर रखे जाते हैं? वे ही १६ स्वर और ३३ व्यञ्जन उत्तनेका कितना बड़ा विस्तार बना रखा है कि जिसने जिसका जो नाम रख दिया, अब वह उस नाममें अपना आत्मसर्वस्व जानता है। किसीका नाम लेकर जरा गाली तो दे दो, फिर देखो कि वह कितनी उचक-फांद करता है? ऐसा नाममें व्यामोह पड़ गया है। यह व्यामोह हटे और मैं तो केवल ज्ञानमात्र हूँ—ऐसी भावना जगे तो इस आत्मभावनाके द्वारा संसारमें संकट कट सकते हैं।

भोगकी कधी भूख एक महान् घोका— भैया ! जैसे बीमारीमें कधी भूख लगती है तो पककी भूख तो यह मनुष्य सह लेता है और उस कच्ची भूखमें जब न खाए, थोड़ा धैर्य रखे तो वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही इस संसारकी जन्म-मरणकी लम्बी बीमारीमें भोगोंकी आकांक्षाकी कधी भूख लगती है। यह यदि एक ही भवमें गम खा जाए तो इसे मोक्षमार्ग मिल जाता है। अनेक भवोंमें तो भोग भोगा है, केवल एक भव ही ऐसा मान लो कि हम मनुष्य न होते तो हमारे लिए तो कुछ भी न था। सौभाग्यसे

मुनाय हो गये तो अन्य कर्मोंके लिए हम नहीं हैं, हम आत्महितके लिए हैं—ऐसा जानकर, साहस बनाकर इन भोगोंसे मुख मोड़कर आत्मभावना में अपना समय और उपयोग लगायें तो यही मेरे जीवनकी सफलताका उपाय है।

सर्वउपदेशोंका प्रयोजन शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी भावना— इस ज्ञान प्रसंगमें भेदविज्ञानकी बात भी गंभीर है। यह विभावज्ञान मेरा स्वभाव तो है नहीं और स्वभावके अनुरूप शुद्ध विकास भी नहीं है, परन्तु यह केवल ज्ञानस्वभाव तो नहीं है, किन्तु स्वभावके अरु रूप शुद्ध विकास है। फिर भी केवल ज्ञानरूप श्रष्टिक वृत्तिपर उपयोग आ जाय तो उस उपयोगमें स्थिरता लीनता समाधिपना नहीं आ पाता, क्योंकि मात्रज्ञानके स्वरूपमें, स्वभावके अनुभवमें उपयोग लगे तो यहां विषय ध्रुव और निज होनेके कारण निर्विकल्पता और समाधिभाव उत्पन्न होते हैं। इस भेदविज्ञानको पाकर एक आत्माकी ही भावना भायें और समस्त सुख-दुःख, शुभ-अशुभ अनात्म-तत्त्वोंका परिहार करें। इस विधिसे यह जीव सम्यक् ध्रुव आनन्दको प्राप्त करता है।

शान्तिके ख्यालसे कोरा अनर्थका श्रम— यह जीव शान्तिके लिए कितने ही आश्रय बनाना है और जब शान्ति नहीं मिलती, तब उस पुराने आश्रयको छोड़कर किसी नवीन आश्रयकी तलाश करता है। तो अब तक के निर्णय से बताओ कि इन रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दका आश्रय करके कौनसी संतोषजनक स्थिति पायी है कि जिससे यह देखे कि हमने अपने आनन्दके लिए इतने तो काम कर लिए हैं, अब इतना काम सिर्फ और शेष है। जैसे मकान बनाते हो तो उसमें इतना तो मालूम होता रहना है कि लो भीत तो उठ चुकी, अब भीत नहीं बनानी है, बल्कि छत डालनी है। इतना ही काम रह गया, छत तो अब डल चुकी है, अब तो मासूली थोड़ासा सीमेण्टका पलस्तर करनेका काम बाकी है। जैसे वहां पूर्णियां नजर आती हैं, ऐसे ही भोगनेमें ऐसा कौनसा काम नजर आया कि हमने इतना पुष्ट काम कर लिया है, जो अब करनेके लिए नहीं रह गया है? ऐसी स्थिति भोगसुख, लौकिक आनन्द विषयोंमें नहीं जमती। ये तो कोरेके कोरे ऐसे जंचते हैं कि पूरे मूर्ख फिरसे अ आ इ ई पढ़ते हैं। चालीसों वर्षके सुख भोग डाले, पचास-साठ वर्षके सुख भोग डाले, फिर भी आज गीतेके रीते हैं। भीतके उठनेमें इतना तो मालूम होता है कि अब इतना काम रह गया है, परन्तु इन सुखोंके उपायमें तो कुछ भी नहीं है।

भोगमें आखिर रीताका ही रीता— जैसे अंधा जोरी बलता जाए, पीछे बछड़ा खाता जाए तो उसका तो कुछ भी काम नहीं बना। घन जोड़ते हुएमें इतना तो मालूम होता है कि अब चालीस हजार हो गए, अब पचास हजार हो गए, पर यहाँ सुखोंके उपायोंमें, अन्तरमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। सुबह खाया, अब पेट ज्योंका त्यों खाली है। कल खानेकी फिर आ पड़ेगी। देखने सूँघने आदि सभी विषयोंकी क्षण-क्षणमें अब आ पढ़नी पढ़ती है। ऐसा नहीं लगता कि इतना सुख भोगा तो हमारा इतना काम बन गया, अब इतना काम रह गया, कोरेके कोरे बने रहते हैं। कैसा व्यर्थ का उपाय है ? ऐसे व्यर्थके प्रयत्नोंमें रहकर कितने दिन बितायेंगे ?

विपरीत प्रयोजनोंमें कल्पित धर्मका श्रम— भैया ! कभी कुछ थोड़ी सी सुधि आती है फिर थोड़ी देरके बाद ज्योंके त्यों हो जाते हैं। थोड़ासा साहस बँधता है कि ये क्षण निर्विकल्प होकर सहज आत्मस्वभावकी दृष्टिमें गुजरें पर बादमें फिर वह ही बोझ सामने आ जाता है। कोई खोद विनोद न करे, ये सब कहने सुननेकी बातें हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है।

एक पांडे जी थे बिल्कुल थोड़े पढ़े अनपढ़े से थे। सो भाँवर पढ़ने के लिए एक धुनियाके यहाँ विवाहमें गए। सो मंत्र पढ़े “ॐ विस्तुं विस्तुं स्वाहा धरो टका।” वहाँ टके तो थे ही नहीं। सो वह गरीब धुनिया बोला कि हमारे पास टके तो हैं नहीं। तो तुम्हारे पास क्या है ? हमारे पास तो महाराज सिर्फ रूई है। फिर अपना मंत्र पढ़ा— “ॐ विस्तुं विस्तुं स्वाहा धर रूई। धर दिया रूई। फिर पढ़ा “मंत्र ॐ विस्तुं विस्तुं स्वाहा धर रूई। फिर रूई धर दिया। इस तरहसे उसके चारों ओर रूई ही रूई इकट्ठा हो गई। सो इतनेमें एक पढ़े लिखे पांडे जी आ गए। तो पांडे जी ने कहा कि ऐसा मंत्र कबहुँ, नहीं देखा आसम्पास कपाखा तो वह बोला कि खोद विनोद करो मत पांडे अद्धम अद्धं स्वाहा। अरे पांडे जी खोद विनोद मत करो, आधी कपास हमारी और आधी तुम्हारी है। तो इस धर्मपालनमें भी किसीका कुछ प्रयोजन है, किसी का कुछ प्रयोजन है।

ज्ञानस्वरूप अहंकी प्रतीतिका बल— भैया ! इतना प्रयोजन इस प्रसंगमें क्यों नहीं आ जाता कि मेरा किसी भी अन्य वस्तुसे प्रयोजन नहीं है। मैं तो अपने इस अंतस्तत्त्वको ही देखने और जाननेमें रहना चाहता हूँ, ऐसा किसी भी क्षण अपने आपमें साहस नहीं जगता। करना नहीं पड़ेगा। अपने को संकटोंसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए यही कार्य करना पड़ेगा। जब तक नहीं करते तब तक संसारके क्लेशोंका तांता ही बनता जाता है। सर्वपरिग्रहका आग्रह तजकर, चेतन और अचेतन संगोसे हट

कर, यहां तक कि इस एकक्षेत्र-धर्मगाह देहमें भी उपेक्षा करके एक अनाकुल चैतन्यमात्र सहज ज्योतिस्वरूप अपने आत्मतत्त्व की भावना करनी चाहिए। सीधी सी बात और सुगम बात इतनी सी तो है कि हम अपने को बारं बार हम रूपमें निरखें कि शरीर तकसे भी परे विषिक्त केवल ज्ञानस्वरूप हूं। मैं ज्ञानमात्र हूं—ऐसी भावना रुचिपूर्वक भाये कि यह भान ही न रहे कि शरीर भी मुझसे चिपका है। ऐसे अपने ज्ञानस्वरूपकी भावना यों भाता रहे कि मैं ज्ञानमात्र हूं, इस ही प्रकार निरखते रहे तो इस भावनासे सब मार्ग खुल जाता है।

एक धर्म व एक पालनपद्धति— करनेका काम यदि एक ही सोचो तो बड़ा आराम मालूम होता है। घर गृहस्थीमें दुकानमें प्रपंचोंमें एक काम किसी एकके जिम्में सौंपा जाय तो अच्छी व्यवस्था बने। अब एकको दसों काम करने पड़े तो बेचारा व्यग्र हो जायेगा। वह अवेला क्या-क्या करे? एक काम ही रहे, अन्य चिंताएं न हों तो कुछ उन्नति की बात बनायी जा सकती है। इसी प्रकार कोई कहे कि धर्म करने के लिए भी एक बात बता दो तो एक काम तो हम रुचिसे निभा ले जायेंगे। अब यहां तो पचासों काम धरे हैं धर्मको अब पूजा है, अब सामायिक है, अब स्वाध्याय है, अब यह उत्सव आ रहा है, अब वह उत्सव आ रहा है, अब अष्टाहिका लग गयी, कहां तक करें ये पचासों काम? हमें तो एक काम बतावो जिस को चित्तमें रखकर अच्छी तरह निभायें। तो आचार्यदेव कहते हैं कि धर्मके लिए एक ही काम करना है, पचासों काम नहीं करने हैं। पचासों काम तो तुमसे तब करवाते हैं जब तुम इस एक कामको मना करते हो या इसमें डील डालते हो।

वास्तविकतामें न रहने पर व्यवहारधर्मक्रियावर्षोंकी विवशता— भैया! एक काम करना है धर्मके लिए। मैं ज्ञानमात्र हूं, इस तरह खूब सोचें और इस तरहसे अपनेको निरख डालें। इसके सिवाय और कुछ काम नहीं देते हैं तुम्हें, किन्तु इन कामोंमें जब हम नहीं लग पाते तब तुम्हें ये दसों काम करने पड़ते हैं, मंदिर जावो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, सुनो प्रवचन बोलो प्रवचन। सीधासा काम सौंपा है और उसे न करें तो फिर मालिक तो दसों काम ऐसे कठिन बतावेगा कि जिनके बाद वह कहे कि अब न हम से दसों काम करवावो। हम वह ही काम करेंगे जो पहिले बताया। जो धर्मके लिये एक ही काम बताया है आचार्य देवने। जब तुम नहीं करते हो तो दसों काम बताये जाते हैं। तो फिर हम खुद ही दसों कामोंसे शिक्षा लेकर अथवा ऊबकर अब कहां जावोगे? सो इहदेवके स्मरण और अनु-

भवनकी रुचि जगोगी। जब तुम्हें ये काम सुहायेंगे नहीं, तो तुम ऊबकर अपने आप इस ठिकाने आ जावोगे कि मुझे अब और कुछ नहीं करना है। मात्र एक ज्ञानस्वरूप मैं हूँ—ऐसा अनुभवन करके ऐसा चैतन्यमात्र है विग्रह जिसका ऐसे इस शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावना करनी चाहिए।

ब्रह्मोपदेश—यहां इस ज्ञानवंशका विस्तारपूर्वक वर्णन करके यह उपदेश किया गया है। जिस उपदेशका नाम है ब्रह्मोपदेश, जिसमें ब्रह्मस्वरूप के निहारने का उपदेश किया गया हो कि एक चित्तसे एक इस आत्माकी भावना करनी चाहिए जब तक कि रागद्वेषसे सर्वथा मुक्ति न हो जाय। जब तक यह ज्ञान इस ज्ञानमें प्रतिष्ठित न हो जाय तब तक एक ही ज्ञान है अपनेकी इस प्रकार भावें कि मैं मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ, अमूर्त हूँ। शरीर तक का भान नहीं रहना चाहिए। उपयोग यदि इस ज्ञानतत्त्वको निरखता है कि इस शरीरमें यह मैं आत्मा रह रहा हूँ, इस शरीरसे मैं भिन्न वस्तु हूँ—ऐसी दृष्टि होने से शरीरका भी भान नहीं रहता। ऐसे एकाग्र मनसे निज आत्मतत्त्वकी भावना करने वाले ज्ञानी संत रुख, दुःख, पुरुष, पाप, शुभ, अशुभ, आदि तत्त्वोंसे छुटकारा पाकर निकट कालमें ही सदा कालके लिए आनन्दके पात्र होते हैं।

कारणसमयसार—कारणस्वभाव ज्ञान जो कि अनादि अनन्त अहेतुक है, जिसका आश्रय करने से मोक्षमार्ग चलता है। इस कारण समयसारके सम्बन्धमें यह कैसे प्रकट होता है? इसके उपायमें यह जानना चाहिए कि शुभ राग और अशुभराग सर्वप्रकारके रागोंका विलय हो जाने से और मोहका मूलसे विच्छेद हो जाने से और साथ ही द्वेषके जलसे भरे हुए मानस घटके फूट जानेसे अर्थात् मोहका तो मूलसे छेद हो, राग और द्वेषका विलय हो तो इस उपायसे यह पवित्र सर्वोत्कृष्ट ज्ञानव्योति प्रकट होती है जो कि उपाधि रहित है, निश्च उदित है, भेद विज्ञानका वारत-विक फल है, ऐसा यह मंगलस्वरूप शरणभूत लोकोत्तम यह कारणसमय-सार बंदनीय है। इस कारणसमयसारकी भक्ति, रुचि, दृष्टिरूप हमारा भाव नमस्कार हो।

प्रभुमें कारणसमयसार व कार्यसमयसारका योगपथ—यह सहज-ज्ञान, कारणसमयसार, परमपारिणामिक भाव प्रत्येक जीवके अंतः प्रकाशमान रहता है और सम्यग्दृष्टि जीवके किसी की दृष्टि रूप, प्रतीति-रूप, आलम्बनरूप और किसीके स्वभाव परिणामरूप व्यक्त रहता है। यह सिद्ध प्रभुमें भी है और अविरत सम्यग्दृष्टिमें भी है। कारण न हो जाने पर कारणज्ञान समाप्त नहीं हो जाता। कार्यसमयसार और कारण

समयसार इस दोनोंका एक साथ सद्भाव है, पर्यायरूप ज्ञान जिस स्वभाव से प्रकट हुआ है वह स्वभाव कहीं स्वत्म नहीं होता। सिद्धभगवान्‌के भी इस कारणसमयमःरगं से निरन्तर कार्यसमयसार प्रवाहित हो रहा है। हां जो पर्यायरूप कारणसमयसार है वह बारहवें गुणस्थान तक रहता है, इससे ऊपर नहीं चलता, पर शक्तिरूप स्वभावरूप जो कारणसमयसार है वह सिद्धमें भी है और वही कार्यसमयसार भी है। यदि कारणसमयसार न हो तो कार्यसमयसार कहाँसे प्रकट हो ?

प्रतिक्षण शुद्धपरिणमन— भैया ! सिद्ध भगवान्‌में प्रतिक्षण नया नया कार्य हो रहा है, नया-नया ज्ञान हो रहा है, फिर भी वे सब ज्ञान पूर्ण समान होते हैं। पहिले समयमें सर्व जाना और दूसरे समयमें भी सर्व जाना तो पहिले समयमें पहिले समयकी शक्तिके प्रयोग द्वारा सर्व जाना और दूसरे समयमें दूसरे समयकी शक्तिके प्रयोगसे सर्व जाना। एक समान ज्ञान चलते रहते हुए भी ज्ञानपरिणमन प्रति समयमें भिन्न-भिन्न है। जैसे बिजलीका लट्टू आधा घण्टे तक बराबर जले, ८ बजेसे लेकर ८॥ बजे तक जले तो देखनेमें तो ऐसा आएगा कि यह बिजलीका लट्टू वैसा ही काम कर रहा है, जैसा कि आध घण्टे पहिले करता था, पर ऐसी बात नहीं है। वह प्रतिक्षण अपना नया-नया परिणमन कर रहा है। जो कार्य ८ बजे किया, वह कार्य अगले क्षणमें समाप्त हुआ, उसके अगले क्षणमें ही उसका नया परिणमन हो गया। प्रतिक्षण पूर्व-पूर्व परिणमन विलीन होता है और नया-नया परिणमन चलता है। प्रभु व परमात्मामें समान-समान ज्ञान होता रहता है। प्रतिक्षण नवीन समयके ज्ञानका उत्पाद है और पूर्व-समयके ज्ञानपरिणमनका विलय है।

बंधन व अबन्धनकी परिस्थितियां— शुद्धात्मामें तो इतनी जल्दी ज्ञान बदलता है कि इस संसारी जीवका ज्ञान एक दृष्टिसे अन्तमुहूर्त तक वही रहता है। अन्तमुहूर्तके बाद फिर दर्शन होकर फिर दूसरा ज्ञान हुआ। पर प्रभुके एक-एक समयमें नया-नया ज्ञान हो जाता है, वह समान ज्ञान है। जो शुद्ध वस्तु होती है, वह द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे, भावसे, एकत्वको लिए हुए होती है। जो विकृत परिणमन होता है, वह द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे, भावसे अनेकत्वको लिए हुए होता है। द्रव्यसे अशुद्ध अवस्थामें यह आत्मा केवल एक ही हो तो बंधन नहीं हो सकता। बंधनकी अवस्थामें दो द्रव्यस्वरूप होने चाहिएं, बन्धनकी अवस्थामें दो क्षेत्र होने चाहिएं, तब बन्धन है। बन्धनकी अवस्थाके परिणमन दो समयों तक चलने चाहिएं तो तब बन्धन है। बन्धनके समयके भाव भी अनेकताको लिए हुए ही होना

चाहिये ।

बद्धमें अबद्ध स्वरूप— यद्यपि बन्धनकी अवस्थामें भी निश्चयदृष्टिसे देखा जाए तो वहां भी प्रत्येक द्रव्य एक है, उसका क्षेत्र एक है और पदार्थ का प्रत्येक समयमें एक ही परिणामन है और भाव भी अपने स्वतंत्ररूप है, लेकिन इस दृष्टिमें बन्धन कहां है ? बन्धनकी दृष्टि जब रखी जाएगी तो दो द्रव्य जाने बिना, देखे बिना, सम्बन्ध पाए बिना बन्धन काहेका ? इस प्रकार दो क्षेत्रोंकी अवगाह बिना, संयोग बिना, सम्पर्क बिना बन्धन काहेका ? वर्तमानमें जीव और कर्ममें अनेक द्रव्य हैं, इनका बन्धन है और इनका क्षेत्र है, अनेक निज क्षेत्र उनका बन्धन है, एक क्षेत्रावगाह है और बन्धनके समयकी जो परिणति है, वह एक समय तक ही रहकर अपना विपाक बनाले, ऐसा नहीं होता । अनेक समयों तककी कल्पनाएँ रागका समूह विपाक कहलाता है । एक समयका रागपरिणामन अनुभवमें नहीं आ सकता । वह देखो तो उसके विकल्प बने बिना ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है । समय बहुत छोटे कालका नाम है । किसी विकल्पको करते हुएमें अनगिनत समय बनते हैं, तब विकल्पोंकी शकल आ पाती है । इसी तरह वह भाव भी अनाकुलता और विषमताको लिए हुए होगा, तब वह बन्धन होता है ।

शुद्धावस्थामें सर्वथा एकत्व— शुद्ध अवस्थामें जैसे कि सिद्ध भगवान् हैं, वहां द्रव्यका एकत्वस्वरूप है, दूसरी उपाधिका संबन्ध नहीं है, क्षेत्रका एकत्वस्वरूप है, वहां निमित्तनैमित्तिकरूप क्षेत्रावगाह नहीं है । यद्यपि एक सिद्धके स्थानमें अनेक सिद्ध विराजमान् हैं तो भी वे वित्कुल अलग हैं । जैसे एक घरमें रहने वाले १० परिजन हैं और उनका किसीसे परस्परमें मन नहीं मिलता है तो कहते हैं कि एक घरमें रहते हुए भी वे सब न्यारे-न्यारे हैं । इसी तरह एक क्षेत्रमें अनन्त सिद्ध बस रहे हैं, फिर उनका परिणामन जुदा-जुदा है, निमित्तनैमित्तिक संबन्ध रंच भी नहीं है, अतः वे जुदा-जुदा हैं । उनका काल परिणामन भी एक-एक समयमें पूर्ण-पूर्ण होता है और एक समयके परिणामनके साथ दूसरे समयके परिणामनका संबन्ध वित्कुल नहीं है, जिससे कि विकल्प और अनुभवकी शकल न बन सके ।

छद्मावस्थामें सामायिक परिणामनोंका उपयोगद्वारासे संबन्ध— प्रश्न यहां हो सकता है कि पहिले समयका रागपरिणामन विलीन हो गया । दूसरे समयका रागपरिणामन अन्य पर्यायरूप है, फिर निज जो एक समयके रागपरिणामनका दूसरे समयके रागपरिणामनसे

सन्बन्ध कैसे बनेगा ? उत्तर यह है कि उन परिणमनोंका साक्षात् सन्बन्ध तो नहीं है किन्तु इस उपयोगके द्वारके लिए न होते हुए भी सम्बन्ध बना है, अन्यथा विकल्पकी शकल बन नहीं सकती। केवल दो अवसरोंको छोड़ कर किसी भी अवसरमें संसारी जीवोंके ऐसा नहीं होता है कि एक समय क्रोध भाव हो तो दूसरे समय मानभाव आ जाय, दूसरे समय अन्य भाव आ जाय— ऐसा नही होगा। क्रोधभाव आयेगा तो अनगिनत समयों तक क्रोध ही क्रोध परिणमन चलेगा। मानपरिणमन आयेगा तो अनगिनत समयों तक याने अन्तर्मुहूर्त तक मान मानका ही परिणमन चलेगा। इसी तरह प्रत्येक विभावपरिणामकी यही बात है और इसी कारण उपयोग द्वारसे उनका अनुभव होता है, विकल्प होता है और प्रवृत्ति बनती है। केवल दो अवसरोंमें ऐसा होता है कि जहां कोई एक कषाय एक समय को ही रहे। किन्तु उन परिस्थियोंमें होने वाली कषायका अनुभवन नहीं हो पाता, विकल्प नहीं बन पाता।

एक समयमात्र विशिष्ट कषाय रहने का प्रथम अवसर— वे दो अवसर कौन हैं ? जिनमें किसी एक कषायका एक समय अवस्थान है। एक तो है व्याघात का अवसर और एक है मरण का अवसर। कोई जीव यानी कषाय में आया है, एक समय को आ पाया था कि इतने में कोई लट्ट बरस जाय, बिजली तड़क जाय, कोई व्याघात हो जाय जिससे यह क्षुब्ध जाय तो वहां क्रोध कषाय आ गया। मान कषाय एक समय को ही रह पाया। वहां मानकषाय का विकल्प नहीं बन पाता, किसी के एक समय को मानकषाय आया और व्याघात हो गया तो उसके उसका भी बावः क्रोध ही कषाय आयेगा। व्याघात के समयमें क्रोध एक समय रहे सो नहीं होता। मान, माया और लोभकषाय—ये तीन कषाय व्याघात के समयमें रह सकते हैं, बादमें नहीं रहते। व्याघातके कालमें क्रोध कषाय ही चलता है दूसरा कषाय नहीं आता।

एक समयमात्र कषाय रहने का द्वितीय अवसर— दूसरी परिस्थिति है मरण की। किसी जीव को नरकगति में जाना है। मरण के एक समय पहिले उस जीवके मानकषाय आया था कि एकदम मरण हो गया। जश्न मरणके समय उसके क्रोधकषाय आ गया क्योंकि नरक में जा रहा है। जो जीव नरकमें जायेगा, मरण समयमें क्रोध कषाय आयेगी जो जीव तिर्यञ्च गतिमें जायेगा मरण समयमें मायाकषाय आयेगी। देवगतिमें जन्म लेने वालेको मरण समयमें लोभकषाय आयेगी और मनुष्यगतिमें जन्म लेने वालेको मरण समयमें मानकषाय आयेगी। सो कदाचित् मरण

समयमें ऐसी स्थिति बन सकती है लेकिन उस एक-एक समयके कषाय परिणामनोंसे कोई हित नहीं होता है कि लो एक ही समय रहा फिर नहीं रहा तो ठीक रहा। कुछ ठीक नहीं रहा। उसके बाद अनुभाव्य अन्य कषाय जग गयी। तो यह छद्मस्थ अवस्था में जीवके विकल्प निर्माणमें ऐसी स्थितियां बनती हैं

सिद्ध प्रसुक्ती अभिरामता— सिद्ध भगवान्के एक समयकी बात का दूसरे समयके परिणामनके साथ ऐसा सम्बन्ध नहीं बनता। अगर सम्बन्ध हो तो केवल ज्ञान काम नहीं कर सकता। प्रत्येक समयमें स्वतंत्रतासे परिपूर्ण केवलज्ञान चलता रहता है। वह केवल ज्ञानरूप कार्य-समयसार प्रति समय कारणसमयसारसे उठकर चल रहा है, वह सहज ज्ञान आनन्दसे तन्मय है अर्थात् आनन्दमय है। व्यग्रताको लिए हुए नहीं है, बाधरहित है। जिसकी यह सहज अवस्था सदा अन्तःप्रकाशमान है, जो अपनेमें सहज धिलास करता हुआ चैतन्य चमत्कार मात्रमें लीन है, स्वयं प्रकाश रूप है, नित्य अभिराम है—ऐसा सहज ज्ञान सदा जयवन्त हो।

सुन्दर, मनोहर, अभिरामकी उत्तरोत्तर बुद्धि— देखो भैया ! भली बात बतानेके लिए तीन शब्द आया करते हैं—सुन्दर, मनोहर और अभिराम। इसमें सुन्दर शब्द तो बड़ा ओछा शब्द है, उससे बढ़कर तो मनोहर शब्द है और उससे बढ़कर अभिराम शब्द है। सुन्दर ने क्या किया ? भली प्रकारसे तड़फाकर क्लेश पैदा किया। यह शब्दमें आये हुए अर्थकी बात कह रहे हैं। सु उन्द अर, जो भली प्रकारसे क्लेश करे उसे सुन्दर कहते हैं। सो देख लो जगतकी हालत। जिसको जो सुन्दर लगता है उस ही से वह आफतमें पड़ता है। सुन्दरसे अच्छा तो मनोहर है, जो मनको हरे। इस शब्दमें तड़फानेकी बात नहीं भरी हुई है। अगर वह तड़फता है तो उसमें सुन्दरताका सम्बन्ध है, किन्तु मनोहर शब्दके अर्थमें भी थोड़ा बिगाड़ है, मनको हर लिया। जैसे कोई किसीके घनको हर ले तो उसमें पाप लगता है ना ? इन सबसे अच्छा शब्द है अभिराम। हैं तीनों एकार्थक शब्द, पर अभिराम मायने जो अपनी आत्मामें सर्व-प्रकारसे श्रेष्ठि और सम्पन्नता बतें उस परिणतिको नाम है अभिराम।

कारणसमयसारकी अभिरामता— यह कारणसमयसार सुन्दर नहीं है, मनोहर नहीं है किन्तु अभिराम है। ऐसा नित्य अभिराम जो अन्वकारसे परे ज्योतिस्वरूप है ऐसा कारणसमयसार सदा जयवन्त प्रवर्तो, जिसके प्रकाशके कारण भव भवके बन्धे हुए कर्म कट जाते हैं,

अनन्तकालके संकट टल जाते हैं—ऐसा यह सहजज्ञान कारणसमयसार सदा जयवंत प्रवर्ती। हो गया सब। जैसा प्रस्ताव किया जाता है, बात बतायी जाती है तो चार छः आदमी जब बता चुकते हैं तो उसके बाद जो कोई कहेगा वह यही कहेगा कि अब बताने का समय नहीं है, अब तो यह कार्य करनेका समय है। कारणसमयसारके सम्बन्धमें बहुत समयसे वर्णन चल रहा था। अब वर्णन चलते-चलते धैर्य नहीं रहा कि इसको सुनते ही रहें। सो ज्ञानीके अब यह भावना जगती है कि ऐसा शुद्ध चैतन्य-मात्र यह कारणसमयसार जिसमें सहजज्ञानका साम्राज्य भरा हुआ है। अरे यह मैं ही तो हूँ। अब यह मैं निविकल्प होकर इस कारणसमयसार स्वरूपरूप उपयोगी होता हूँ।

उपयोगके मूल स्वलक्षण— इस प्रकार जीवके स्वरूपके वर्णन करने के प्रसंगमें पहिले कहा गया था कि यह उपयोगमय है। उपयोगमयकी व्याख्या ही यह सब चल रही है। उपयोग दो प्रकारका है—ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग दो प्रकारका है—स्वभावज्ञान और विभावज्ञान। स्वभावज्ञान दो प्रकारका है—कारणरूप स्वभावज्ञान, कार्यरूप स्वभावज्ञान। विभावज्ञान दो प्रकारका है—संज्ञानरूप विभावज्ञान, कुज्ञानरूप विभावज्ञान। इस प्रकार ज्ञानके विस्तारमें मूल उपदेश इस बातका बताया है कि इस सर्वपर्यायरूप ज्ञानोंके स्रोतभूत जो ज्ञानस्वभाव है, सहजज्ञान है, ध्रुवज्ञान शक्ति है तद्गुरु अपने आपको स्वीकार करें।

ध्रुवरूप होनेकी आकांक्षा— जैसे आपको कुछ दिनके लिए राजा बना दिया जाय या अरबपति बना दिया जाय और यह कह दिया जाय कि कुछ दिनके बाद जो तुम्हारे पास है उसे भी छुड़ाकर साधारण कपड़े पहिनाकर हटा दिया जायेगा तो क्या आप ऐसा राज्य लेना पसंद करेंगे ? मैं कुछ दिनके लिए राजा बन जाऊँ ? आप तो यही पसंद करेंगे कि जो सदा निभ सके, मेरी तो यह ५०० रूपतलीकी दुकान ही भली है, कुछ दिन को राजा बनना या अरबपति बनना आप पसंद न करेंगे। तब आप अपने बारेमें वैसा क्यों नहीं सोचते जो आप सदा रहते हैं। इन पर्यायों-रूप अपनेको क्यों विचारते हो जो कुछ समयको होती है और फिर स्वतः हो जाती हैं। परको ध्रुवरूप माननेकी आदत तो है भीतरमें, किन्तु उसका प्रयोग और उपयोग नहीं करना चाहते। कौन चाहता है कि मैं वह होऊँ जो मिट जाऊँ ? तो फिर ऐसा ही प्रयोग करो कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वभाव मात्र हूँ, चिन्तप्रकाशमात्र हूँ, अन्यरूप नहीं हूँ, ऐसे ध्रुवरूपस्वभाव रूप अपने आपकी प्रतीति करो। यही है अपने प्रभुके दर्शन और प्रभुकी

प्रभुताई पानेका उपाय । अब इसके बाद दर्शनोपयोगके सम्बन्धमें कुछ वर्णन चलेगा ।

सह दंसेण उबओगो ससहावेदरवियप्पदो हुवि हो ।

केवलमिदिपरहिदं असहायं तं सहावमिदि भणिदं ॥६३॥

दर्शनोपयोगके भदोंमें स्वभावदर्शनोपयोग— जीवके स्वरूप वर्णन करनेके प्रकरणमें दर्शनोपयोगका स्वरूप यहां बताया जा रहा है । जैसे ज्ञानोपयोग बहुत प्रकारके भदोंसे सहित है, इस ही प्रकार दर्शनोपयोग भी नाना भेद करके सहित है । प्रथम तो दर्शनोपयोगके दो भेद हैं—स्वभावदर्शनोपयोग और विभावदर्शनोपयोग । स्वभावदर्शनोपयोग दो प्रकारका है—कारण स्वभावदर्शनोपयोग और कार्यस्वभाव दर्शनोपयोग । इसे कारण स्वभावदर्शनोपयोग कहिए या कारणदृष्टि कहिए अथवा दर्शनस्वभाव कहिए यही है शुद्ध आत्माका स्वरूप श्रद्धानमात्र । दर्शनका और सम्यग्दर्शनका निकट सम्बन्ध है । वैसे दर्शनका व्यक्तिरूप जो दर्शनोपयोग होता है उसका स्रोतरूप है कारण दर्शन; किन्तु उसको जरा शीघ्र समझ पायें इस पद्धति के अनुसार बताया जा रहा है कि जो नित्य निरञ्जन शुद्ध ज्ञानस्वरूप है उसका स्वरूप श्रद्धानमात्र कारण दर्शन होता है । यहां श्रद्धान पर्यायरूप नहीं लेना, किन्तु स्वरूप प्रत्यक्षरूप जैसा कारणस्वभाव ज्ञान है तो इस ही प्रकार इसे स्वरूप प्रत्यक्ष कह दिया जाय जिसका स्वरूप श्रद्धान मात्र प्रयोजन है ।

स्वभावदर्शनकी सहजरूपता— दर्शनकी व्यक्तियोंके मूल आधारको बताने का उपाय है सहज आत्मस्वरूपको दिखाना जो आत्मस्वरूप सदा पावनरूप है, पवित्र है । औद्यिक औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक भावका अथवा विभाव स्वभावात्मक परभावोंका अगोचर है, नैमित्तिक भावसे परे है यह आत्मस्वरूप । जीवके ५ भावोंमें से पारिणामिक भाव तो स्वरूपमात्र भावका नाम है और शेष चार भाव नैमित्तिक भाव हैं । कोई कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर हुआ तो कोई कर्मोंके उपशमका निमित्त पाकर हुआ तो कोई कर्मोंके क्षयोपशमका निमित्त पाकर हुआ, तो कोई कर्मोंके विनाशका निमित्त पाकर हुआ । उन नैमित्तिक पद्धतियोंसे पृथक् जो सहज पारिणामिक स्वभाव भाव है उसका स्वरूप दर्शन मात्र कारण दर्शन कहलाता है । यह आत्मस्वरूप कारणसमयसार रूप है, निरावरण इसका स्वभाव है । द्रव्यकी शक्तिपर आवरण नहीं होता, किन्तु शक्तिकी व्यक्तिका आवरण होता है । शक्ति तो अपने स्वभावकी सत्ता मात्र है । किसी भी वस्तुका स्वरूप बताया जाय तो कुछ हद तक तो उसका निरूपण

चल सकता है, पर पूरी बान आ जाय ऐसा तो कोई वचन ही नहीं है। यह अपने आत्मतत्त्वकी बात है।

वस्तुके व.स.विक स्वरूपकी अवकव्यता— कोई सी चीज खार्थी है भैया ! उसका ही स्वरूप नहीं बता सकते। अच्छा बतावो इमरतीका स्वरूप कैसा है ? बोलोगे मीठा, कैसा मीठा ? खूब मीठा ? अभी तो समझमें नहीं आया तो कैसे समझमें आए ? जिसको समझाना हो उसे खिला दो, उसकी समझमें आ जायेगा। वचनोंसे तो समझमें न आ पायेगा। बड़ा मीठा। अरे मीठा तो रसगुल्ला भी होता है। तो क्या रसगुल्ला जैसा ? अरे नहीं, उससे भी बिलक्षण स्वाद है। बात तो इस तरहसे पूरी समझमें नहीं आ सकती। तो फिर कहते हैं कि इमरती तो इमरती ही है। क्या बताया जाय, खाकर देखलो। आत्मस्वरूप कैसा है ? उसको बतानेका बहुत बहुत प्रयास किया। मामूली प्रयास तो यह है कि पर्यायमुखेन वर्णन किया संसारी जीव ५ प्रकारके हैं— एकेन्द्रिय जीव, दो इन्द्रिय जीव, तीन इन्द्रिय जीव, चार इन्द्रिय जीव और पांचइन्द्रिय जीव। और और जीव समास बताया। फिर और अधिक प्रयास किया तो गुणोंका वर्णन करने लगे, और अधिक प्रयास किया तो १ स्वभावका वर्णन करने लगे। अब इससे भी और अधिक वर्णन करें तो यों कहेंगे कि वह न कषाय सहित है, न कषाय रहित है। वह न वीतराग है, न सराग है। किन्तु वह तो ज्ञायकभाव मात्र है। ज्ञायक भाव मात्र ? अभी कुछ व्यादा समझमें नहीं आया। तो भाई क्या बताएं वह तो नाथ जैसा है सोई है अनुभव करके देख लो।

स्वभावसत्तामात्र आत्मस्वरूप— तो स्व स्वभावकी सत्तामात्र यह आत्मस्वरूप है, परम चैतन्य सामान्यस्वरूप है यह आत्मस्वभाव। २४ घंटेमें कुछ ध्यान तो लावो। कहां तो उस परम चैतन्यस्वभावमात्र तरंग भी इसका स्वरूप नहीं है। हलन चलन रागद्वेष कुछ भी परिवर्तन इसका स्वरूप नहीं है और मानते फिर रहे हैं जड़ पदार्थोंको भी अपनी चीज। कितना हम अपने हितके स्थानसे दूर भागे जा रहे हैं ? इस पर दृष्टि न दीं, संभाल न की तो बतावो इस ज्ञानस्वभावके दर्शनका फिर मौका कहां आयेगा ? जो अबसर मिला है वहां तो चेतते नहीं हैं और जहां इतनी सब मलिनताएं हैं दुर्दशायें हैं वहांका उत्साह बनाया है। हमारे प्राचीन ज्ञानी संत आचार्योंने आत्महितके लिए बना बनाया भोजन रख दिया है। अब कुछ सोचने की भी दिमाग लगानेकी भी कोई मेहनत नहीं करनी है। सीधी सी बात है सामने। अब इतना भी न किया जाय तो फिर और

क्या उत्तर दिया जाय यही कि फिर रहते रहो संसारमें ।

कर्त्तृत्वके अभिमानका व्यर्थ गौरव—विषयसुखके लोभी जनोंको धार्मिक आनन्दकी भावना कहां जगती है ? उन्हें तो विषय सुख ही सुगम दीक्षा करते हैं और पा लेवें विषयसुखके साधन तो मारे गर्वके ऐंठके जमीन आसमान एक कर डालते हैं । जैसे सांड गांवके आसपाम के घूरे को सींगसे उछालकर अपनी ही पीठ पर डाल लिया और यह देखकर कि मैंने कितना बड़ा जबरदस्त काम कर डाला है सो टांगे पसार कर पीठको लम्बी करके पूंछको हिलाकर गर्वसे देखता है कि मैंने बहुत बहुत बड़ा काम कर डाला है । इसी प्रकार यह संसारी जीव कुछ वैभव पा ले या स्त्री पुरुषोंको अपने अधिकारमें पा ले या दीन हीन मित्रजनों को अपनी गोष्ठीमें देखे तो उनमें अपनी करतूत पर अभिमान रखकर यह अपने स्वरूप को बिल्कुल भूल जाता है । इसका फल क्या होगा ? केवल संसारभ्रमण । देखो अपने आत्मस्वरूपको । इसका अछत्रिम स्वरूप है, बनावटी नहीं है ।

बनावटीकी अशोभनीयता— भैया ! बनावटी स्वरूप तो बड़े भूढ़े लगते हैं । जैसे कोई पाउडर लगाकर, लाली लगाकर अपनी बनावटी सुन्दरता जाहिर करे तो देखने वाले तो उसे भद्दा और बेवकूफीके रूपमें देखते हैं । पर न जाने कैसा मन है कि ऊंची पड़ीकी जूती पहिनकर, राख से मुंह पोतकर बेचारी ऐंठके साथ निकलती है ? विचित्र बात देखो कि किसी-किसी आदमीको भी यही शौक हो जाता है—इन बनावटी बातोंसे ये बिल्कुल असुन्दर हो जाते हैं । बनावटी धर्म—मनमें तो धार्मिक भावना नहीं है । धर्मके मर्मका पता नहीं है, किन्तु न जाने किन-किन ख्यालोंसे यह धर्मका अनुष्ठान किया जाता है तो उन प्रकरणोंमें न करने वालेको शांति, न करने वालेको शांति और प्रायः न देखने वालेको शांति । बनावटसे परे है यह आत्मतत्त्व और धर्मपालन, इस बातको नहीं भूलना । यह दिखावट, बनावट, सजावटसे बिल्कुल परे बात है ।

आत्मतत्त्वकी अछत्रिमता— यह आत्मस्वरूप अछत्रिम है, अविचल स्थिति करके सहित है । शुद्ध ज्ञानमात्र रहनेरूप चारित्र संयुक्त है—ऐसा निश्च शुद्ध निरञ्जन बोधस्वरूप आत्मतत्त्वका स्वरूपदर्शनमात्र यह कारणदर्शन है । जिसको दर्शन हो जाए तो समस्त पापवैरियोंकी सेना ध्वस्त हो जाती है—ऐसा यह कारणदर्शन है और स्वभावकार्यदर्शन केवल दर्शन है । दर्शनावरणीय आदिक घातिया कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होने वाली दृष्टि स्वाभाविक कार्यदृष्टि है । यह प्रभु अरहंतमें; सिद्धदेवमें केवलज्ञानकी

तरह यह भी एक साथ लोकालोकमें व्यापक है अर्थात् समस्त सत्का ज्ञान होना जैसे केवलज्ञानमें था, इसी प्रकार समस्त सत्का दर्शन होना इस केवलदर्शनमें है। इस क्षायिक जीवके, इस प्रभु-परमात्माके जिसने कि समस्त निर्मल केवलज्ञानके द्वारा तीनों लोकको जान लिया है और अपने आत्मासे उत्पन्न हुए वीतराग आनन्दरूपरूपासागरमें अवगाहन किया है और जैसा आत्माका सहजस्वरूप है, उसी प्रकार जिसका स्वरूप व्यक्त हुआ है—ऐसा जिसका शुद्ध चारित्र है—ऐसे अरहंतप्रभुके, सिद्धदेवके यह केवल दर्शन एक साथ लोकालोकका दर्शक है।

केवलदर्शन और स्वभावदर्शन—केवलदर्शन व्यवहारनयका विषय है और दर्शनस्वभाव निश्चयनयका विषय है अर्थात् केवलदर्शन शुद्ध निश्चयनरूप व्यवहारका विषय है और दर्शनस्वभाव परमशुद्धनिश्चय-रूप निश्चयका विषय है। यहां क्या प्रकट हुआ ? केवलदर्शन। इसका आदि है, परन्तु परमशुद्ध निश्चयनयके विषयकी आदि नहीं होनी है। हां, केवलदर्शन अनिघन अवश्य है। कभी केवलदर्शन नहीं मिटेगा, लेकिन स्वरूपसे देखो तो प्रतिसमय मिटता रहता है। प्रतिसमय जैसे नया-नया केवलज्ञान होता है, इसी प्रकार प्रतिसमय नया-नया केवलदर्शन होता है। हालांकि उस दर्शनमें जो विषय है, वह एक समान है, रंच भी फर्क नहीं है, मगर परिणामन तो दूसरे समयका है। शक्ति तो बराबर नवीन-नवीन लग रही है।

प्रतिक्षण परिणामनका एक उदाहरण—जैसे कोई शीर्षसन लगाता है और ५ मिनट तक लगाए तो देखने वालोंको यों ही लगेगा कि क्या कर रहा है यह। ८ बजे यह औंधा खड़ा हुआ था सिर नीचे करके, ५ मिनट हो गए, अभी वही काम कर रहा है, मगर देखा नहीं है, प्रतिक्षण उसकी नवीन-नवीन शक्ति लग रही है। एक काम वह नहीं कर रहा है, प्रतिक्षण वह नवीन-नवीन प्रयत्न कर रहा है। देखने वालोंका क्या है ? जो कर रहा है, वह जाने। जैसे देखनेमें वह एकसमान कार्य होनेसे एक कार्य कहा जाता है, परन्तु वहां प्रतिक्षण नवीन-नवीन शक्ति द्वारा वह शीर्षसनसे खड़ा है, इसी तरह विषयोंकी समानताके कारण केवलदर्शन सदा रहता है, अनन्त है, किन्तु वह चूँकि परिणामन है, प्रतिसमय नवीन-नवीन उसमें उत्पाद है और पूर्व-पूर्व दर्शनपर्यायका वहां विलय है। इस ही तरहसे प्रतिसमय नवीन-नवीन केवलदर्शनरूपसे ही यह परिणामता चला जाता है।

स्वभावदर्शनकी महनीयता-- यह शुद्ध अवस्था भव्यजनोंके द्वारा

वन्दनीय है। शुद्ध अवस्था हितकारी अवस्था है, इस कारण समस्त लोकके भव्यजीवोंके द्वारा यह वन्दनाके योग्य है। सो प्रभुके केवलज्ञानकी तरह यह दर्शनकी अवस्था भी एक साथ लोकालोकको व्यापने वाली है। इस तरह स्वभावदर्शनोपयोग कार्य और कारणके रूपसे दो प्रकार कहा गया है। यह दर्शनोपयोगमें स्वभावदर्शनोपयोगकी चर्चा है। यह दो प्रकारका है— कारणरूपस्वभावदर्शन और कार्यरूपस्वभावदर्शन। देखनेकी शक्तिका भी नाम दर्शन है और देखनेका नाम भी दर्शन है। यों शक्ति, व्यक्तिके भेदसे यह दो प्रकारका है।

आत्माका शरण— विभावदर्शनोपयोग, जिसको कि अगले सूत्रमें बतायेंगे वह तीन प्रकारका है—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अर्वाधदर्शन। यहाँ शिक्षा लेनी है कि दर्शनज्ञानचारित्रात्मक एक चैतन्य सामान्यस्वरूप निजआत्मतत्त्व ही मुक्ति चाहने वालोंका आलम्बनरूप है। किसी वक्ते को कोई मारनेका डर दिखाये तो उसके लिये शरण उसकी माँकी गोद है। वह भागकर अपनी माँकी गोदमें बैठ जायेगा, कुछ बड़ा होगा तो पिताके पास जाकर बैठ जायेगा, वहाँ शरण पायेगा। जरा और बड़ा हुआ तो जिसे अपना मित्र माना है, उसके पास अथवा अपनी स्त्रीके पास जाकर बैठ जायेगा। जब और बड़ा हुआ तो सब तरफसे दुःख ही दुःख आने लगे, लड़के भी टीक नहीं बोलते हैं, स्त्री भी विपरीत हो गयी है, धन पर भी कितने ही लोगोंने छलबलसे संकट डाल दिया है तथा और भी सम्मान अपमान आदि अनेक प्रकारके क्लेश हैं, जिनके मिटनेका उपाय भी नजर नहीं आता तो किसी साधुके पास जाकर बैठ जायेगा, इसलिये कि कुछ धार्मिक ज्ञानकी बातें मिलें तो संकट दूर हो जायेंगे। जिन्दगी भर तो लड़कोंके लिये कमाया, सब कुछ कर डाला, परन्तु कोई सहायक नहीं होता है। अब कहाँ सहाय दूँटे ? जो विकल्परूप क्लेश है, उसकी जहाँ शांति हो, वहाँ जाये।

आत्माका परमशरण— अब शान्तिका अर्थी यह जीव बार-बार साधुजीके पास बैठता है, मगर वे विकल्पसंकट दृष्टते ही नहीं हैं। चोट तो लग गयी है बहुत, रह-रहकर ख्याल तो आता ही है। अब क्या करें ? अब और क्या उपाय रह गया करनेको ? स्वाध्याय करें, तिस पर भी बात फिट नहीं बैठती। एक उपाय रह गया है, वे सब विकल्प छोड़ें। जिस का जो होता है, वह हो। केवल अपने ज्ञानव्योतिर्मथरत्नत्रयात्मक इस आत्मतत्त्वको देखें, अन्तमें शरण यही मिलेगा, इसीको परमार्थशरण कहते हैं। इस मार्गके आलम्बन बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संकट

तो सिर्फ विकल्पमात्र है। जैसे संकट छोड़ा तो इसका अर्थ है विकल्पको छोड़ा। अपने आत्मस्वरूपको छोड़कर अन्यत्र हितकी आस्था न जगे तो यह मोक्षमार्ग प्राप्त हो सकता है। अब थोड़ी यहाँ आस्था की, थोड़ी वहाँ आस्था की तो इससे ठीक ठिकाना नहीं बन सकता। एक ही आस्था हो कि मेरा आत्मा अमूर्त है, ज्ञानमात्र है, स्वभावतः आनन्दमय है, इसमें कोई दोष नहीं है, यह तो केवल अपने स्वरूपमात्र है। भलकता है विभाव भलको, मेरी ओरसे यह परिणामन नहीं है। जगत्का जैसा रिवाज है, उसका निमित्तनैमित्तिक संबन्ध है, वंसा ही हो रहा है सब—ऐसा ज्ञानबल जहाँ जगता है और आत्मस्वभावमें आस्था बनती है, वहाँ संकटोंसे छूटने का मार्ग मिलता है।

चक्षु अचक्षु अहओही तिरणवि भण्णिदं विभावदिच्छित्ति ।

पञ्जाओ दुवियप्पो सपरावेक्खोय णिखेक्खो ॥१४॥

विभावदर्शनोपयोगके भेद— इस गाथामें विभावदर्शनोंको बताया जा रहा है। जैसे ज्ञानोपयोग स्वभाव और विभावज्ञानके भेदसे दो प्रकार का है, इस प्रकार दर्शन भी स्वभावदर्शन और विभावदर्शनके भेदसे दो प्रकार का है। जिसमें स्वभावदर्शनका तो वर्णन कल हो गया है। आज विभावदर्शनका वर्णन चलेगा। विभावदर्शन तीन होते हैं—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवविदर्शन। इनमें सम्यक् और केवलका भेद नहीं है। चक्षुदर्शन चक्षुरिन्द्रियसे उत्पन्न होने वाले ज्ञानसे पहिले होने वाले दर्शन को कहते हैं। आँखोंसे जो देखते हैं उसका नाम दर्शन नहीं है, यह ज्ञान है। इस आँखके निमित्तसे होने वाले ज्ञानसे पहिले जो आत्मस्पर्श होता है उसे चक्षुदर्शन कहते हैं। दर्शन ज्ञानबलको उत्पन्न करने की तैयारी का नाम है। एक पदार्थ जान रहे थे, अब एक छोड़कर दूसरा पदार्थ जाननेके लिए चले तो उस अन्य पदार्थके जाननेका बल आ जाय इसके लिए दर्शन हुआ करते हैं।

चक्षुदर्शन व अचक्षुदर्शनका स्वरूप— जैसे मतिज्ञानावरणीय कर्मों के क्षयोपशमसे ज्ञान मूर्तिक वस्तुको जानता है इस ही प्रकार चक्षुदर्शनावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे यह दर्शन मूर्तिक वस्तुको देखता है। वास्तवमें दर्शन मूर्त वस्तुको नहीं देखता पर मूर्तिक वस्तुको जानने वाले आत्माका जो दर्शन कर सकता है तो उसे भी मूर्त वस्तुका देखना कहा करते हैं। दूसरा दर्शन है अन्यदर्शन। लोग जल्दी जल्दीमें चक्षुदर्शन अन्यदर्शन बोला करते हैं, पर चक्षु शब्दमें व शब्द अन्तमें पड़ा है सो शब्द चक्षुष है। जिसके रूप चक्षुः, चक्षुः, चक्षुवि चलते हैं। इसके रकार हो जाता

है वह ऊपर लिख दिया जाता है। चक्षुरिन्द्रियजन्य ज्ञानसे पहिले जो दर्शन होता है उसे चक्षुर्दर्शन कहते हैं। चक्षुरिन्द्रियके अतिरिक्त बाकी इन्द्रिय और मनके द्वारा जो ज्ञान होता है उस ज्ञानसे पहिले होने वाले दर्शनको अचक्षुर्दर्शन कहते हैं। जैसे श्रुतज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशम होनेके कारण श्रुतके द्वारा द्रव्यश्रुतमें बनाये गए मूर्तिक और अमूर्तिक समस्त वस्तुओंको यह ज्ञान परोक्षरूपसे जानता है। इस ही प्रकार अचक्षुर्दर्शनावरणीय कर्मके क्षयोपशमके कारण इन ४ इन्द्रियों व मनके द्वारा उस योग्य विषयको अचक्षुरिन्द्रियदर्शन कहते हैं।

दर्शनकी आत्माभिमुखता— दर्शन आत्माभिमुख चित्तप्रकाशको कहा करते हैं। ज्ञानदर्शन मूर्त अमूर्त वस्तुओंको जाने और यों जानने वाले आत्माको देखा दर्शनने तो दर्शनसे भी सब दिख गया, ऐसा कहा जा सकता है। यह ज्ञानकी अधिक सूक्ष्म चर्चा है। ज्ञानकी बात जरा शीघ्र समझमें आ जाती है, इसका कारण यह है कि ज्ञान साकार होता है और दर्शन निराकार होता है। किसी मनुष्य पर जिसके बारेमें कुछ भी विकल्प बना तो वह ज्ञान बन जाता है, दर्शन नहीं रह पाता, ऐसी सूक्ष्म विषयकी बात है। होती सबमें है, पर अपनी बात अपनेको कठिन लग रही है। चक्षुर्दर्शन और अचक्षुर्दर्शन—ये दो दर्शन तो हम आप सब मनुष्योंके हैं पर इनका भान नहीं हो पाता।

अवधिदर्शन— तीसरा विभावदर्शन है अवधिदर्शन। अवधिज्ञानसे पहिले होने वाले दर्शनको अवधिदर्शन कहते हैं। जैसे अवधिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे शुद्ध पुद्गल पर्यन्त मूर्तद्रव्यको अवधिज्ञान जानता है इसी प्रकार अवधिदर्शनावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे समस्त मूर्त पदार्थोंको यह अवधिदर्शन देखता है। इस प्रकार ये तीन दर्शन विभाव दर्शन हैं।

विभावदर्शनों विभावताके व्यपदेशका कारण— कर्मोंके क्षयोपशमके निमित्तसे ये उत्पन्न होते हैं। इस कारण ये विभावदर्शन अधिप्राधिक हैं और विभाव हैं, फिर भी दर्शनमें खोटेपनका व्यवहार नहीं होता। जैसे कुमतिज्ञान था इसी तरह कुछ ज्ञान हो जाय, ऐसा नहीं होता क्योंकि जिस प्रतिभासमें विकल्प नहीं है, निराकार सत् सामान्यका प्रतिभास है उसमें क्या बुरा कहा जाय ? कोई आकार हो, विशेष ग्रहण हो तो वहां सम्यक् और कुत्सितपना माना जा सकता है। ये दर्शन छद्मस्थ जीवोंके होते हैं। अवक्षुर्दर्शन स्पर्शनइन्द्रिय ज्ञानसम्बन्धी होता है और रसना, घ्राण, कर्ण और मन सम्बन्धी भी होते हैं। हाथसे किसी वस्तुके स्पर्शसे

ज्ञान होता है तो उस ज्ञानसे पहिले जो आत्मस्पर्श होता है उसे कहते हैं स्पर्शनइन्द्रिय सम्बन्धी अचक्षुर्दर्शन इसी प्रकार रसना इन्द्रियके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उससे पहिले जो दर्शन होता है उसे रसनाइन्द्रिय सम्बन्धी अचक्षुर्दर्शन कहते हैं ।

मतिज्ञानकी निर्विकल्पता— भोजन किया तो तत्काल जो ज्ञान हुआ वह हुआ मतिज्ञान और जहां ऐसा खयाल आया कि मैं अमुक चीज खा रहा हूं, बड़ी मीठी है, ठीक बनी है, थोड़ी खराबी आ गयी है, नमक कम हो गया है, ऐसा कुछ भी ज्ञान जगे तो वह श्रुतज्ञान है, मतिज्ञान नहीं है । मतिज्ञान निर्विकल्प होता है और श्रुतज्ञान सविकल्प होता है । ५ ज्ञानोंमें एक श्रुतज्ञान तो सविकल्प है और शेष चार ज्ञान निर्विकल्प हैं । आंखोंसे देखा नहीं कि जाननेमें आ गया तो हुआ मतिज्ञान और जहां यह जाना कि यह सफेद है, यह काला है, यह इतना बड़ा है, यह अमुक साधनसे बना है, कुछ भी ज्ञान जगे वह हो जाता है श्रुतज्ञान । सफेद पीला जाननेमें आये, मगर सफेद पीले रूपमें विकल्प न हो तब तक तो है मतिज्ञान और जहां सफेद पीला आदि विकल्प बना तो हो जाता है श्रुतज्ञान ।

आत्माभिमुख मतिज्ञानकी स्वानुभूतिसे निकटता— भैया ! अब आप समझ लीजिए कि मतिज्ञान कितना स्वच्छ ज्ञान है ? श्रुतज्ञान परमोपकारी है, पर स्वानुभवके लिए सीधा काम आने वाला मतिज्ञान है । स्वानुभवकी निर्विकल्पता अवस्थासे पहिले मतिज्ञान होता है क्योंकि निर्विकल्पज्ञान निर्विकल्प ज्ञानस्वरूपके स्वानुभवको करनेमें समर्थ हो सकता है । अब आप जान लीजिये कि मतिज्ञानका कितना बड़ा महत्व है ? जो सुनने बतानेमें ऐसा साधारण जंचता है ।

मतिश्रुतकी संसारी जीवोंमें व्यापकता— मतिज्ञान सब जीवोंमें है । श्रुतज्ञान यह भी सब संसारी जीवोंके होता है । एकेन्द्रियके भी श्रुत ज्ञान है, पर उसके श्रुतज्ञानका हम क्या बर्णन करें ? हम मतिज्ञानकी भी बात नहीं बता सकते हैं । हम आप सब मनुष्य हैं सो हमारे अनुभव की जो बात है वैसा ही आप सबके अनुभवमें आना है इसलिए पता चलता है, पर इन पेड़ोंको किस तरहसे मतिज्ञान हो ? श्रुतज्ञान होता है यह उनमें ही घटित हो रहा है । चारों संज्ञायें तो पेड़ोंमें भी पायी जाती हैं और चारों मन्तव्योंका कैसा कर्त्ता काम हो रहा है । तो इनके भी श्रुतज्ञान है । ये इन्द्रिय तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रियके भी मतिज्ञान और श्रुतज्ञान है । है कुमति और कुश्रुत, किन्तु दर्शन उनका वैसा ही

विशुद्ध है, जैसा सबके हुआ करता है।

अध्यात्मक्षेत्रमें दर्शनका महत्त्व— लोकमें दर्शनका महत्त्व कम है, ज्ञानका महत्त्व ज्यादा है और यहां आत्महितके प्रसंगमें ज्ञानसे भी अधिक महत्त्व दर्शनका है कि दर्शनके विषयका तो ग्रहण कर ले अर्थात् यह मैं हूँ, इस प्रकारका अनुभव करते तो उसके मोक्षमार्ग प्रकट हो जाता है। अब आप देखिये कि दर्शनके समय सम्यग्दर्शन उत्पन्न करनेकी योग्यता नहीं बतायी है। जो साकारोपयोगी जीव हो उसके सम्यक्त्व जगता है, किन्तु दर्शनके विषयभूत आत्मदर्शनके सम्बन्धमें वह साकारोपयोगी बनकर सम्यग्दृष्टि होता है। इस प्रकार उपयोगका व्याख्यान यहां समाप्त होता है। जीवके संबन्धमें जो उपयोग गुणकी मुख्यताको लेकर स्वरूप चल रहा था, उसमें ज्ञान और दर्शनके सर्वभेद बन्ताये गये हैं और उन सब भेदोंकी आधारभूत जो भी मूलदृष्टि है, वह ज्ञप्ति है और उस शक्तिको पहिले बता दिया गया है।

पर्यायका निरूपण— अब उपयोगकी व्याख्याके अन्दर पर्यायका स्वरूप कहा जा रहा है। पर्यायका अर्थ है कि परि आय है। परिका अर्थ है सर्व औरसे और आयका अर्थ है भेदको प्राप्त करो। “परि समतात् भेद एति गच्छति इति पर्यायः।” जो भेद करने चले उसे पर्याय कहते हैं। अध्यात्मशास्त्रकी सूक्ष्मदृष्टिमें ज्ञानदर्शनादिक भेद बताना भी पर्याय कथन है, क्योंकि भेद किया, पर वू कि वह सब शाश्वत है। अतः मध्यम अध्यात्मवर्णनमें उसे पर्यायमें सम्मिलित नहीं किया, किन्तु गुणमें सम्मिलित किया। तिर्यकरूपसे भेद करनेसे तो गुण बता दिया गया और ऊर्ध्वरूपसे भेद करनेसे पर्याय बताया। एक आत्मा है और उसमें तिर्यकरूपमें अर्थात् एक साथ फैसला हुआ कि यह ज्ञान है, यह दर्शन है, यह चारित्र है। यह तो हुआ गुणोंका बताना, किन्तु समयभेदको दृष्टिमें लेकर यह अमुक समयका परिणामन है, यह अमुक परिणामन है, इस प्रकारसे समय भेद करके बताना पर्यायस्वरूप है। यद्यपि एक द्रव्यमें एक साथ अनन्त-पर्यायोंका भी कथन है, क्योंकि जितने गुण होते हैं, उतने उसमें परिणामन भी हैं, लेकिन उस एक साथ अनन्तपरिणामनोंको बतानेके गर्भमें यह आशय पड़ा हुआ है कि यह सब समय-समयके परिणामनमें परिणामने वाले हैं। तब तो इस तिर्यकभेदका नाम गुण हो गया और ऊर्ध्वभेदका नाम पर्याय हुआ।

निर्यग्विशेष और ऊर्ध्वविशेष— जैसे एक साथ इतने मनुष्य बैठे हैं, इनमें बालक, बूढ़े और जवान सभी हैं, किन्तु एक साथ सबको देखा जा

रहा है तो यह हुआ इसका तिर्यकरूपसे जानना । एक ही व्यक्तिके बारेमें ऐसा ज्ञान करे कि यह बालक था, अब जवान है, अब बूढ़ा होगा, यदि इस तरह समयभेद लेकर उस एक व्यक्तिके बारेमें ज्ञान किया तो वह पर्याय अथवा ऊर्ध्वपर्यायके रूपमें ज्ञान कहलायेगा । ऊर्ध्व मायने हैं ऊपर ही ऊपर और तिर्यक मायने हैं एक समयमें तिरछे ही तिरछे । जब कोई भी मनुष्य किसीकी दशाओंका वर्णन करता है तो उसकी अंगुली ऊंचे-ऊंचे उठती है । खूब विचार करके देख लो कि यह आदमी पहिले बालक था, फिर जवान हुआ, अब धनपति बना, अब लखपति बना, अब करोड़पति होगा, बूढ़ा होगा, मर जायेगा—ऐसा वर्णन करते हुए अंगुली ऊपर उठ जायेगी । देख लो कि इस भारतवर्षमें ब्राह्मण भी रहते हैं, क्षत्रि भी रहते हैं, अमुक भी हैं, अमुक भी हैं—ऐसा वर्णन करनेमें अंगुली ऊपर-ऊपर न उठेगी, किन्तु बार-बार तिरछी-तिरछी गिरेगी । आत्मामें एक साथ पाथी जाने वाली शक्तिको बताना तो तिर्यकरूपसे वर्णन है और आत्माके संबंध की पर्यायको बताना है पर्यायरूपसे वर्णन ।

द्रव्यकी गुणपर्यायात्मकता— द्रव्यगुण पर्यायात्मक होता है । केवल गुण मानकर रहे तो द्रव्यकी सिद्धि नहीं है, केवल पर्याय मानकर चले तो द्रव्यकी सिद्धि नहीं है । जैसे हाथमें ५ अंगुली हैं तो यदि पांचों ही रह जायें तो कार्यसिद्धि अच्छी होती है और अगर उनमें से एक या दो अंगुलियां भी टूट जायें, मान लो कि यह बेकार अंगूठा ही टूट जाये तो देखलो फिर काम करना कैसे होता है ? जितने संगठन में ये अंगुलियां काम करती हैं, बिखरी हुई दशामें नहीं करतीं ।

समवायात्मकतामें व्यवस्था पर एक दृष्टान्त— एक बार इन पांचों अंगुलियोंमें लड़ाई हो गई । लड़ाई किस बात पर हुआ करती है ? हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े माननेसे । घरमें देख लो, समाजमें देख लो, किसी भी वर्गमें देख लो, इसी बातसे लड़ाई भगड़े होते हैं । अब एक जज साहब के पास पांचों अंगुलियां पहुंचीं । जज साहबने कहा कि अच्छा अपने-अपने बयान लिखावो । सबसे पहिले अंगूठा बयान देनेके लिये खड़ा हुआ और बोला कि हम सबसे बड़े हैं, हमारी धाक विश्वभरमें चलती है । जब किसी बूढ़ेकी पेंशन हो जाती है तो सरकारका केवल दस्तखत ले लेनेसे ही तो काम नहीं चलता है । सरकार उससे अंगूठा लगवा लेती है, चाहे वह कितना ही पढ़ा लिखा हो । ज्यादा साल बनायी हो तो अंगूठेकी निशानी लेते हैं । अब अंगूठेने कहा कि सारे विश्वमें हमारी धाक जमती है, इसलिये हम बड़े हैं ।

अब इस पहिली अंगुलीसे कहा कि तुम अपने बयान लिखावो । तो उसने कहा कि महाराज सारे विश्व पर हमारी हुकूमत चलती है । अभी कोई किसीको आर्डर दे तो हमी पहिले उठती है । तो महाराज हमी तो बड़ी है । अब तीसरी अनामिका अंगुलीसे कहा कि तुम बयान लिखावो । अभी बीचकी अंगुली को छोड़ दिया । उस अंगुलीने कहा कि महाराज हम तो बड़े धार्मिक जीव हैं । यज्ञमें, हवनमें, माला फेरने में तिलक लगानेमें आगे-आगे चलती हैं । तो महाराज हम बड़ी हुई । अब इस छोटी बहिन छिगुली से कहा कि तुम अपना बयान लिखावो तो उस छिगुली ने कहा महाराज हम तो सारे विश्वकी रक्षा करती है, हमारी होड़ कौन लगा सकता है ? कोई लाठी मारता है तो सबसे पहिले मैं ही उसका प्रहार सहती हूं । कोई लाठी मारेगा तो सबसे पहिले उसका प्रहार छिगुली पर होगा । तो हम दूसरेकी मुसीबत अपने ऊपर लेती हूं और दूसरेकी रक्षा करती हूं । हमसे बड़ा कौन हो सकता है ? अब बीच वाली, अंगुलीसे कहा कि तुम भी अपना बयान दो । तो उसने कहा कि अरे हम क्या बयान दें, हमारा बड़प्पन तो इन पांचों अंगुलियोंमें ही देखलो ।

बहुत विचारकर जजने कहा कि देखो गर्व मत करो, तुम पांचों ही रहती हो इसलिए पांचों ही बड़ी हो, अगर इनमें से एक भी न रहे तो समझो कि सारा हाथ बेकार है । कोई उत्सुकतासे तुम्हारी ओर भावेगा भी नहीं । तो जैसे पांचों अंगुलियोंके संगठनमें कार्यकारिता सिद्ध है । वैसे ही समझलो कि समस्त शक्तियां और समस्त पर्यायोंके समूहमें हमारा वस्तुज्ञान व्यवस्थित होता है ।

पर्यायविवरण— अब पर्यायका स्वरूप कहा जायेगा । पर्यायें यों ही असत् पदार्थोंकी निराधार नहीं हो जाया करती हैं किन्तु किसी शक्तिका परिणामन है । भले ही इससे शक्तिको न विशद ज्ञान सकें किन्तु मुक्ति बनलाती है कि शक्ति न हो तो परिणति किसकी कहलाए ? जैसे आमफल में पहिले कौनसा रंग आता है ? सबसे पहिले जब हल्का आम फूलके साथ लगा होता है उस समय उसका रंग काला होता है, फिर होता है नीला, फिर होता है हरा, फिर होता है पीला फिर लाल हो जाता है । और जब सड़ जाता है तो उस पर सफेदी आ जाती है । आम इतने रूप बदलता है, उन प्रसंगोंमें काला नीला हुआ तो रूपमें व्यक्ति तो बदल गयी किन्तु रूपशक्ति नहीं बदली । जिस रूप शक्तिका प्रकटरूप कालापन था अब उस ही रूप शक्तिका प्रकट रूप नीलापन हो गया । तो रूपशक्ति और रूपव्यक्ति—ये दो होती हैं, लेकिन रूपव्यक्तिसे तो लोग परिचित

होते हैं पर रूपशक्तिका भान नहीं होता है, शक्तिके परिद्वानमें विशेष प्रतिभाकी आवश्यकता होती है, और यों तो पर्यायोंको भी लोग जानते तो हैं पर पर्यायरूपसे जान जायें इसमें भी प्रतिभाकी आवश्यकता होती है। मोही अज्ञानी जीव पर्यायको ही तो जान रहे हैं किन्तु उन्हें पर्यायरूप से नहीं जान रहे हैं, यही वस्तुसर्वस्व है ऐसा जान रहे हैं।

सूक्ष्मदृष्टि और स्थूलदृष्टिसे पर्यायोंका सूक्ष्म और स्थूल दर्शन— पर्यायमें भी सूक्ष्मदृष्टिसे परिणामन देखना और स्थूल दृष्टिसे परिणामन देखना—ये दो पहिचान ज्ञात होती हैं। जैसे यह बत्ब जल रहा है तो इसमें सूक्ष्म परिणामन एक-एक सेबे रडमें सैंकड़ों बार हो जाता है पर उसका पता नहीं चलता है। जब एकदम महीसे जाय एकदम तेज हो जाय या बुझ जाय फिर जल जाय तो ज्ञात होता है कि इसमें तो नाना अवस्थाएँ बन रही हैं। इसी तरह इस द्रव्यमें और प्रसंग प्राप्त इस आत्मामें सूक्ष्मदृष्टिसे परिणामन हो रहा है और स्थूलदृष्टिसे लक्ष्यमें आने वाला भी परिणामन हो रहा है। इसमें सूक्ष्मदृष्टिसे कहे जा सकने वाले परिणामनका नाम स्वभाव-पर्याय है और स्थूल परिचयमें आने वाले परिणामनका नाम विभावपर्याय है। इनमें से स्वभावपर्यायकी बात अब कही जायेगी जो कि समस्तपदार्थों में निरंतर पाया जाता है। यहां शुद्ध पर्यायका मतलब निर्दोष द्रव्यकी पर्यायसे नहीं है किन्तु उसका द्रव्यत्व गुणके कारण प्रतिसमय निरन्तर होने वाली पर्यायसे प्रयोजन है। उस स्वभावपर्यायका वर्णन अब आगे बताया जायेगा।

अर्थपर्यायरूप स्वभावपर्याय— जीवके गुणोंका वर्णन करके अब पर्यायोंका वर्णन किया जा रहा है। पर्यायें स्वभावपर्याय और अशुद्ध-पर्याय यों दो प्रकारकी कही गयी हैं। स्वभावपर्यायमें द्रव्यत्व गुणके कारण जो अपने आपमें बड़गुणभाग वृद्धि हानिको लिए हुए परिणामन होता है उसे सम्मिलित किया है। यह स्वभावपर्याय जहाँ द्रव्योंमें साधारणरूप है इसका नाम है अर्थपर्याय। यह अर्थपर्याय न तो मानसिक विकल्पोंसे जाना जा सकता है और न बचनोंसे जाना जा सकता है। अस्यन्त सूक्ष्म है, आगमकी प्रमाणतासे वह जानने में आता है। ६ प्रकार की हानि वृद्धिके विकल्प हैं। जैसे पूरे पावरसे जलते हुए लट्टूमें भी सूक्ष्मतासे हानि वृद्धियां चल रही हैं। देखनेमें ऐसा लगता है। कि यह प्रकाश तो वैसा का ही वैसा है पर यदि उसमें हानि वृद्धियां न चलती होतीं तो परिणामन नहीं हो सकता। प्रति समय उस प्रकाशका रहना एक अनन्त वृद्धि हानि परिवर्तनको लिए हुए है।

स्वभावपरिणामन— जैसे केवल ज्ञानादिकमें अनन्तगुण वृद्धि आदिक परिणामन हो रहे हैं और फिर भी कहीं उन हानियोंके फलमें यह नहीं हो जाता कि केवलज्ञान पहिले जितना जानना था उससे कभी कम जानने लगे। उतनाका ही उतना जानता है फिर भी केवलज्ञानपरिणामन में भी अनन्तगुण वृद्धि और अनन्तगुण हानि रूप परिस्थितियां होती हैं। ये वस्तुके सत्त्वके कारण ऐसी अपने आप होती हैं। आपका यह जो शरीर दिख रहा है, जैसा कल दिखता था वैसा ही आज दिख रहा है, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इस शरीरमें भी अनन्तगुण हानियां हो गयी हैं, अनन्तगुण वृद्धियां हो गयी हैं और उनका कुछ मालूम नहीं पड़ता।

प्रतिक्षण परिणामन— जैसे कल बालक जितना ऊँचा था कलकी अपेक्षा आज उस बालकमें कुछ लम्बाई बढ़ी या नहीं? दिखता तो ज्योंका त्यों है। पर यदि आज लम्बापन नहीं बढ़ा तो ऐसे-ऐसे बहुतसे आज निकल जायें तो लम्बाई ही न बढ़े। फिर वह कभी बढ़ा ही नहीं हो सकता है। परन्तु जिसने एक साल पहिले देखा हो उसकी दृष्टिमें तो साफ नजर आता है कि बढ़ा हो गया है। तो जैसे १ वर्ष बाद बच्चे को देखने पर मालूम होता है कि यह ८ अंगुल लम्बा हो गया है तो क्या वह ११ महीने २६ दिन २३ घंटा और ५६ मिनटमें कुछ भी नहीं बढ़ा हुआ? क्या वह एक मिनटमें ही ८ अंगुल बढ़ गया? ऐसा नहीं है। तो क्या हर महीने पौन-पौन अंगुल बढ़ा? ऐसा भी नहीं है कि वह २६ दिन २३ घंटा और ५६ मिनट न बढ़ा हो और आखिरी १ मिनटमें ही पौन अंगुल बढ़ गया हो, ऐसा भी नहीं है, किन्तु रोज रोज प्रति मिनट प्रति सेकेण्ड वह बालक बढ़ रहा है। मालूम पड़ता है साल भर बाद। तो ऐसा भी वस्तुका सूक्ष्म परिणामन होता है जो हमारे मनकी पकड़में नहीं आ सकता है। और फिर भी होना वहां आवश्यक है।

आधारके आधारपर आधारित विभाव द्वारा आधारका तिरोभाव— यह अर्थ पर्यायरूप परिणामन जो कि प्रत्येक पदार्थमें अपने ही चक्रके कारण हो रहा है वह स्वभावपर्याय कहलाता है। इस स्वभावपर्यायके साथ साथ विभाव बन रहा है तो विभावपर्याय भी लिपट गयी। इस स्थितिमें स्वभावपर्याय गौण हो गयी और विभावपर्याय दृष्टा हो गयी। यहां स्वभावपर्याय जो कह रहे हैं उसका अर्थ निर्दोष शुद्ध पर्यायसे नहीं है किन्तु वस्तुमें वस्तुत्वके कारण जो षडगुणहानिवृद्धि रूप परिणामन चलता है उस परिणामनेसे प्रयोजन है। जैसे कालद्रव्य अपने षडगुण हानिवृद्धिसे

निरन्तर परिणाम रहा है, धर्म अघर्म द्रव्य आकाश द्रव्य षड्गुणहानि वृद्धिसे निरन्तर परिणाम रहे हैं, आकाश अमूर्त होने पर भी कुछ कुछ ख्याल आता है, वह आकाश निरन्तर परिणाम रहा है, और यों नहीं परिणाम रहा है, प्रति समय अनन्तगुणवृद्धि अनन्तगुणहानि इतने बड़े बड़े फर्कके साथ परिणाम रहा है, लेकिन वहां जरा भी फर्क नहीं मालूम होता है। तो ऐसे ही सत्त्वके नाते हमें आप जीवोंमें निरन्तर यह विस्तार परिणामन चल रहा है। यही है स्वभावपर्याय।

प्रगतिशील परिणामन और स्थिरताका समन्वय— इसके अनन्त भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यातगुण वृद्धि और अनन्तगुण वृद्धि इतने तो बढ़ जाते हैं और अनन्तभागहानि, असंख्यातभाग हानि, संख्यातभाग हानि, संख्यातगुण हानि, असंख्यातगुण हानि और अनन्तगुण हानि इतने अधिक घट जाते हैं और फिर भी परिवर्तन मालूम नहीं होता है। यह वस्तुत्वके नातेसे परिणामनकी बात चल रही है। आपको दिखता होगा कि यह बत्त कितनी स्थिरतासे एकरूप जल रहा है, कुछ मालूम पड़ता है कि इसमें कभी प्रकाश घट गया और कभी प्रकाश बढ़ गया ऐसा यहाँ कुछ मालूम पड़ रहा है क्या? नहीं मालूम पड़ रहा है। कोई पावरमें ही कमी आ जाय, बिगड़ जाय तो मालूम पड़ने लगेगा। इस समय तो ऐसा एकरूपसे जल रहा है, जरा भी प्रकाशमें कमी होना नजर नहीं आ रही है और न कुछ अधिक होता नजर आ रहा है ऐसा लग रहा नहीं, फिर भी यह इतना ज्यादा बढ़ जाता है प्रकाश कि जिसको अनन्तगुण वृद्धि तक कहा जाय, अनन्तगुण बढ़ गया है प्रकाश और अनन्तगुण घट गया है प्रकाश, इतना बढ़ाव और घटाव हो गया है, और हमें ऐसा लगता कि ज्योंका त्यों बना हुआ है। मालूम पड़नेकी बात यह है कि बहुत ही घटे तब मालूम पड़ता है। तो जितना घटने पर आपको मालूम पड़ा कि प्रकाश घटा उससे आधा भी तो घटा होगा उससे हजारवां हिस्सा भी घटा होगा, उससे लाखवां हिस्सा भी तो घटा होगा। पर सबको अपनेका परिचय नहीं होता। कभी एकदम प्रकाश बढ़ गया यह आपकी समझमें आया तो कभी उससे आधा भी तो बढ़ता होगा, हजारवां, लाखवां, करोड़वां हिस्सा भी तो बढ़ता होगा, पर उनका परिचय नहीं होता।

अस्तित्व और परिणामनका अनिवार्य सम्बन्ध— यह वस्तुके स्वभाव परिणामनकी बात चल रही है। वस्तु है तो स्वभावतः परिणामनशील है और इतने लम्बे ही। वृद्धिसे निरन्तर परिणामता रहता है। तो यह

परिणामन तो मूलमें प्रत्येक द्रव्यमें चल रहा है जिसका आधार पाकर अशुद्ध उपादान हुआ तो विभावपरिणामन भी उसमें फिट बैठ जाता है। जैसे एक चक्र शुद्ध जिसमें और कुछ चीज नहीं लिपटी, बिजलीका करण्ट सा एकदम चल रहा है तेज, वह उस चक्रका शुद्ध भ्रमण हो रहा है और रुईके छोटे २ हिस्से कण उड़कर उस चक्रमें लग जाये तो उस मूलमें घूमते हुए चक्रके आधारमें वे रुईके सारे कण भी उसी तरह भ्रमण करेंगे, इसी तरह प्रत्येक पदार्थ अपने सत्त्वके नातेसे अपने आपमें षड्गुण वृद्धि हानिरूपसे निरन्तर परिणामते हैं। वहां विभावपरिणामन होना है तो भी उस परिणामनमें आ जाता है। विभावपरिणामनका आधार तो वह मूल परिणामन है। यद्यपि दृष्टान्तमें दिए गए चक्र और रुईके पिंडोंके भ्रमण जैसी वहां दो बातें अलग नहीं हो पातीं, फिर भी स्वरूपदृष्टिसे वे दो बातें अलग मालूम होती हैं। ज्ञान दृष्टि इतनी तीक्ष्ण होती है कि एक ही आत्माके स्वभावको ज्ञान दर्शन आदि गुणोंमें विभक्त करके और परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध बता दे, ऐसी ऐसी ज्ञानदृष्टियोंका जौहर होता है।

षड्गुणहानिवृद्धिरूप शुद्ध परिणामन— यह षड्गुणहानिवृद्धिरूप शुद्ध परिणामन प्रत्येक पदार्थमें निरन्तर पाया जाता है, किन्तु जो विभाव परिणत है वहां उस आधारमें अपने आपको ऐसा जमाये हुए होता है कि कहीं वहां भिन्न २ रूपसे दो परिणामन नहीं हो गये किन्तु आधारआधेय-पन ज्ञानदृष्टिसे समझमें आता है। जैसे समुद्र होता है तो २० हाथ नीचे समुद्रमें और तरहका परिणामन है समुद्रके ऊपर और तरहका परिणामन है, ऐसा यहां नहीं लगाना है कि इस जीवमें भीतरमें तो यह स्वभाव परिणामन चल रहा है और ऊपरसे विभावपरिणामन चल रहा है। स्वरूपदृष्टिसे षड्गुणहानिवृद्धिरूप शुद्ध परिणामन द्रव्यके अन्दर पड़ा रहता है, पर वही परिणामन विभावपरिणामन रूपसे विभावपरिणामन वालेमें उदित होता है। हो उदित, फिर हम विभावपरिणामनको न तर्क और मूलपरिणामन षड्गुणहानि वृद्धि परिणामनसे देखें तो क्या ज्ञान नहीं सकते? जानते हैं, ऐसा वस्तुका यह स्वभावपरिणामन है।

व्यञ्जनपर्याय— अब अशुद्ध पर्याय पर दृष्टि दें। जीवके नर, नारक, तिर्यञ्च और देव पर्याय—येविभाव व्यञ्जनपर्याय हैं और ये अशुद्ध पर्याय हैं। अशुद्ध पर्यायके मायने कई द्रव्योंके सम्बन्धमें हुई पर्याय, शुद्ध पर्यायके मायने एक ही द्रव्यका परिणामन। शुद्ध और अशुद्धका अव्यात्म ग्रन्थोंमें प्रायः यह ही अर्थ चलता है—केवल एक द्रव्यके परिणामन

का नाम शुद्ध परिणामन है और अनेक द्रव्योंके संबन्धसे होनेवाले परिणामनोंका नाम अशुद्ध परिणामन है। द्रव्यकर्म और विभावपरिणत जीव तथा शरीररूप बने हुए नोकर्म इनका संबन्ध है और जो परिणामन बना, वह है अशुद्ध परिणामन। इस ही का नाम है शुद्ध व्यञ्जनपर्याय। इस तरह जीव पदार्थके संबन्धमें गुणका भी वर्णन किया गया है और गुणपरिणमनों का भी वर्णन किया गया है तथा यहां द्रव्यपर्यायोंका भी संकेत दिया गया है।

शुद्धआत्मतत्त्वके भजनका परिक्राम— इन समस्त परभावोंके होने पर भी जो भव्यआत्मा एक शुद्धआत्माको ही भजता है, सेता है, वह पुरुष उत्कृष्ट लक्ष्मीका स्वामी होता है। उत्कृष्ट लक्ष्मी क्या है? मोक्षलक्ष्मी, जिससे उत्कृष्ट और कुछ न हो, जिसमें कभी आकुलता ही नहीं है, शुद्ध और स्वच्छ विकास है, उसे कहते हैं उत्कृष्ट लक्ष्मी। यहां की मानी गयी लक्ष्मी तो रुपया, पैसा, सोना, चांदी आदि ये सब वैभव हैं। कोई लक्ष्मी नामकी चार हाथ वाली और हाथियोंकी सूँडसे उसके सिर पर माला गिरायी जा रही हो— ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है। अगर ऐसी कोई लक्ष्मी होवे तो दूकान धन्वा सब कुछ छोड़कर उसी लक्ष्मीको दूँढनेमें लग जावो, सब काम छोड़ दो। वह कहीं मिल जाये और आपको अपना ले, फिर तो आप बहुत ही मालोमाल हो जायेंगे, पर लक्ष्मी तो है ही नहीं। इसी वैभवका नाम लोकमें लक्ष्मी रखा है।

लक्ष्मीपति और लक्ष्मीपुत्र— भैया ! कोई कहलाता है लक्ष्मीपति और कोई कहलाता है लक्ष्मीपुत्र। इन्हीं दो शब्दोंसे बोलते हैं—लक्ष्मीपति और लक्ष्मीपुत्र। लक्ष्मीपति वह कहलाता है जो लक्ष्मीको खर्च करे, दान करे, भोग करे, उसका नाम है लक्ष्मीपति और लक्ष्मीपुत्र उसका नाम है कि जैसे पुत्र माताके चरण छूवे, हाथ जोड़े, पूजा करे, मांको भोग न सके, स्पर्श न कर सके। इसी तरह लक्ष्मीपुत्र, जिसका यह पुत्र है, उस लक्ष्मी मांको, धन-पैसेको पूजे, उसके चरण छूवे, उसकी सेवा करे, उसकी आराधना करे, उसको हृदयमें स्थान दे, पर एक भी पैसा न खर्च कर सके, उसका नाम है लक्ष्मीपुत्र। वह तो लक्ष्मीका पुत्र है, उस लक्ष्मीका कैसे भोग करे, पुत्र होकर मांके साथ अन्याय करे, यह कैसे हो सकता है? यही सब व्यवहारमें लक्ष्मी कहे जाते हैं।

परमधी— बस्तुतः लक्ष्मी तो आत्माकी ज्ञानलक्ष्मी है। उस ज्ञान-लक्ष्मीका वही पति होता है, जो परभावोंके होते रहने पर भी शुद्ध षडगुण हानिवृद्धि पर्यायपरिणत एकस्वभावमात्र आत्मतत्त्वको निरखता है, जो

आत्मतत्त्व सहजगुणका पिंड रूप है, पूर्ण ज्ञानस्वभावमय है उसको जो पुरुष शुद्ध दृष्टि बनाकर भजता है, सेवता है वह पुरुष संसारके समस्त संकटोंसे मुक्त हो जाता है। यहां बहुत कुछ वर्णन किया गया है। आत्माके गुण, आत्माकी पर्यायें, अशुद्ध पर्यायें ये सब बताया गयी हैं। पर जिस पुरुषके चित्तमें केवल कारणसमयसार ही विराजमान रहता है वह शीघ्र समयसारको प्राप्त होता है। जिसकी जहां तीव्र रुचि होती है उसका मन वहां ही लगा रहता है, चाहे बीचमें नाना और प्रसंग आ जायें और उनमें भी कुछ पढ़ना पड़े तो भी अपनी मूलरुचि उसकी ही ओर आकर्षित रहती है तो ज्ञानी जीवके भी विभावपरिणामन चल रहे हैं। तिस पर भी चूँकि उसकी रुचि कारणसमयसारकी है अतः उसकी प्रतीतिमें एक कारण-परमात्मतत्त्व विराजमान रहता है। यह कार्यसमयसार ब्रह्म जो अपने आपमें उठता है, अपने आपमें सुगमतया सहजदृष्टिसे उत्पन्न होता है उसको जो भजते हैं और इस कारणपरमात्मतत्त्वको भजते हैं वे संसारके संकटोंसे मुक्त हो जाते हैं।

आत्मतत्त्व— यह आत्मतत्त्व कैसा है कि इसमें कभी तो शुद्धगुण दृष्ट होते हैं और कभी अशुद्ध गुण दृष्ट होते हैं, कहीं सहज पर्यायोंसे विलयमान होता है कहीं अशुद्धपर्यायोंसे वह मुक्त होता है। यह जीव एक दृष्टिसे तो सनाथ दिख रहा है और एक दृष्टिसे अनाथ दिख रहा है। जिसको अपने आपके सहजस्वरूपका परिचय नहीं है वह तो अनाथ है और जिसे परिचय है वह सनाथ है। ऐसे विचित्र जौहर वाले इस कारण-परमात्मतत्त्वको, चैतन्यस्वभावात्मक आत्मतत्त्वको मैं नमस्कार करता हूँ, भावना करता हूँ और उस रूपमें मैं उतारता हूँ, ऐसी हृद् भावनाके साथ ज्ञानी पुरुषका इस कारणपरमात्मतत्त्वकी ओर आकर्षित रहता है, जिसके फलमें उसे समस्त अभीष्टोंकी सिद्धि हो जाती है। इस प्रकारसे केवल यह शिक्षा ग्रहण करनी है कि हमको सहजस्वरूपकी दृष्टि प्राप्त हो और उसमें ही हमारा निरन्तर रमण हो, अन्य कुछ हमको आवश्यक नहीं है।

एरण्यारयतिरियसुरा पञ्जाया ते विभावमिदि भण्डिवा ।

कम्मोपाधिविविज्जयपञ्जाया ते सहावमिदि भण्डिवा ॥१५॥

व्यञ्जनपर्याय— जीवतत्त्वके परिद्वानके सम्बन्धमें स्वभाव और गुण पर्यायोंकी मुख्यतासे वर्णन किया है। अब द्रव्यपर्यायकी दृष्टिसे कुछ वर्णन किया जाता है। गुणोंका वर्णन आंतरिक निरूपण है और द्रव्यपर्यायोंका वर्णन बहिर्दृक् निरूपण है। पदार्थका लक्षण स्वभावसे जाना जाता है और वह स्वभाव प्रदेशरूप होता है। उन समस्त गुणोंका जो एक आधारमें पिंड

बना हुआ है वही तो प्रदेशात्मक चीज है और जब वस्तु प्रदेशात्मक होती है तो उसकी प्रदेशपर्याय भी होगी अथवा प्रदेशान्वयगुण के विकारका नाम व्यञ्जनपर्याय है अथवा द्रव्यपर्याय है ।

स्वभावपर्याय और विभावपर्याय— जीवमें द्रव्यपर्यायकी मुख्यता से वर्णन किया जा रहा है । यहाँ । द्रव्यपर्याय भी दो प्रकारके हैं—स्वभाव-द्रव्यपर्याय और विभावद्रव्यपर्याय । नर, नारक, तिर्यक्चक्षुष—ये पर्याय विभावपर्याय हैं । ये द्रव्यके या प्रदेशात्मगुणके विभावरूप पर्याय हैं और कर्मोपाधिसे रहित पर्यायें स्वभावपर्याय कहलाती हैं । इन स्वभावपर्याय और विभावपर्यायोंमें स्वभावपर्याय दो प्रकारसे देखना चाहिये, एक कारण शुद्धपर्याय दूसरा कार्य शुद्धपर्याय । परमपारिणामिक भाव तो कारण शुद्ध पर्याय है और सिद्ध भगवानकी अवस्था प्रसुकी सिद्ध अवस्थामें जो आकार होता है वह कार्यशुद्ध व्यञ्जनपर्याय है । पारिणामिक भाव भी एक भेदरूप है और द्रव्यपर्यायात्मकतासे सम्बन्ध रखने वाला है, इस लिए उस पर्यायको लिए हुए है किन्तु वह कारणशुद्धपर्याय है अर्थात् उस पारिणामिक भावका आधार करके सर्वपर्यायें प्रकट हुई हैं और है वह पारिणामिक भाव भेदरूप । इस कारण इसे कारणशुद्धपर्याय कहा है ।

पारिणामिक शब्दका अर्थ— परिणामः प्रयोजनं यस्य सः पारिणामिकः । जिसका परिणामन प्रयोजन हो उसे पारिणामिक कहते हैं । पारिणामिक शब्दका सीधा अर्थ ध्रुवभाव स्थिर भाव नहीं है वह तो फलितार्थ है । पारिणामिक भावका सीधा अर्थ है— जिसका परिणामन प्रयोजन हो उसे पारिणामिक कहते हैं । अर्थात् जिसका आधार करके प्रति समय निरन्तर परिणामन होता रहता है, परिणामन ही जिसका प्रयोजन है, पारिणामिक शब्द पर्यायको ओम्नल करके नहीं बना है, इसलिए पारिणामिकभाव पर्यायरूप भाव है किन्तु वह द्रव्यका मौलिक शुद्धभाव है । इस कारण उसे शुद्धपर्याय कहते हैं और वह समस्त पर्यायोंका कारणभूत है । इस कारण उसे कारणशुद्ध पर्याय कहते हैं ।

कारणशुद्ध पर्याय— सहज शुद्ध निश्चयके द्वारा अनादि अनन्त अमूर्तिक अतीन्द्रिय स्वभाव शुद्धसहजज्ञान, सहजदर्शन, सहजचारित्र और सहज परमवीतराग आनन्द—इन चतुष्टयात्मक जो आत्माका शुद्धअंतस्तरव है, स्वरूप है वही हुआ स्वभाव अनन्तचतुष्टय । उस स्वभाव अनन्तचतुष्टय स्वरूपके साथ लगी हुई जो पारिणामिक भावकी परिणति है उसको कारण शुद्धपर्याय कहा है । यहाँ द्रव्यपर्यायके कथनमें बड़ी सूक्ष्मदृष्टिसे शुद्धपर्यायों का मंतव्य बनता है उसके स्वभावको छुवे बिना वह नहीं बनता, इसी कारण

शुद्धपर्यायके वर्णनमें भले ही द्रव्यपर्यायकी मुख्यतासे धोला जाये, फिर भी स्वभावको स्पर्श करके शुद्धपर्यायका अवगम होता है। जैसे पूछें कि सिद्ध भगवान्‌के व्यक्तजनपर्याय क्यों कहा है? तो सिद्धभगवान्‌के जहां न शरीर है, न कर्म है, न अन्य कोई परभाव है, केवल एक आत्माका ही आकार है, जानने तो चलेंगे आकारको, पर उसे जानते हुए स्वभाव और गुणके परिचयमें ही जाना पड़ेगा। यह पारिणामिकभावकी परिणति है कारण शुद्धपर्याय।

कार्य शुद्धपर्याय— कार्य शुद्धपर्याय आदि सहित है, किन्तु अन्तरहित है। विभावके बाद जो शुद्धपर्याय होती है, वह किसी समयसे ही तो होती है, परन्तु जीवकी पर्याय एक बार शुद्ध हो जाये तो अनन्तकाल तक फिर अशुद्ध न बनेगी। जो गत चतुर्थकालमें मुक्त हुए हैं, वे भी पूर्वकालमें संसारी थे। उन्होंने भ्रमण किया और उनके आदिमें निगोद अवस्था थी और जो अभीसे १०-२० कल्पकाल पहिले भी चौथे कालमें मुक्त हुए, उनके भी पहिले संसारीपर्याय थी और पहिले निगोद अवस्था थी। जो बहुत ही पहिले जहां तक दृष्टि जाये, अनन्तकाल पहिले जो भी मुक्त हुए हैं, उनके भी संसारीपर्याय तो थी ही और उनके भी मूलमें यह निगोद अवस्था थी।

मुक्तिकी अनादिता— यह मुक्ति कबसे चली आ रही है? अनादिकालसे। इसका कहीं आदि है क्या कि कबसे जीवको मोक्ष होता चला आ रहा है? यदि इसका आदि बन जाये कि इस समयसे जीवको मुक्ति होना प्रारम्भ हुआ तो फिर संसारकी भी आदि रखनी पड़ेगी कि तो इससे कुछ अधिक ८ वर्ष पहिले संसार बना था, क्योंकि मोक्षका जो समय हुआ, उससे पहिले ८ वर्ष तो जीव संसारमें ही रहा है तो मुक्तिकी आदि मानने पर सत्पदार्योंमें आदि माननी पड़ेगी। इसलिये मुक्ति अनादिसे है और संसार भी अनादिसे है, फिर भी मुक्तिसे संसार ८ साल बढ़ा है। इतने पर भी न मुक्तिकी आदि है और न संसारकी आदि है। कितना अद्भुत स्वरूप है।

कार्य शुद्धपर्यायकी विशेषता— जो भी मुक्त हुआ है, वह पहिले अशुद्ध अवस्थामें था, तत्पश्चात् शुद्धअवस्थामें आया और उसका आदि हुआ, पर अन्त नहीं है। यह प्रसंग चल रहा है कार्य शुद्धपर्यायका। जो जीव सर्वप्रकार निर्दोष हो गये हैं, उन्नत बने गये हैं, उनकी क्या विशेषता है, यह बतायी जा रही है। वह शुद्धपर्याय तो आदि सहित है व अन्तरहित है, अमूर्त है, अतीन्द्रियस्वभावी है, शुद्धसद्भूत व्यवहारियका विषय है। शुद्ध

है, सद्भूत है किन्तु पर्यायकथन है, उस शुद्ध सद्भूत व्यवहारसे यह अनन्त चतुष्टयात्मक है। जहां केवलज्ञान केवल दर्शन अनन्त आनन्द और अनन्त शक्ति प्रकट हुई है ऐसी परमउत्कृष्ट क्षायकभावकी जो शुद्धपरिणति है उसे कहते हैं कार्यशुद्धपर्याय।

केवलज्ञानकी क्षायिकता और प्रवर्तमानता— क्षायिकता क्षयके काल में होती है। प्रभुके जब केवलज्ञान हुआ था, वह प्रथम समयमें केवलज्ञान कर्मके क्षयका निमित्त पाकर हुआ था। उसके बाद अब सदाकाल केवलज्ञान केवलज्ञान चल रहा है तो वह आत्माके स्वभावसे हो रहा है या क्षयसे हो रहा है? आत्माके स्वभावसे हो रहा है। जैसे धर्म अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य आदि शुद्ध द्रव्योंका परिणमन उनके स्वभावसे चल रहा है। इसी तरह परमात्माका केवलज्ञानादिक परिणमन स्वभावसे चल रहा है। हां जो प्रारम्भका समय था उस समय यह क्षायकभाव कहलाता था, सो अब तक भी उन केवलज्ञानादिक भावोंको क्षायक कहना यह उपचार कथन है। क्यों कि प्रारम्भ समयमें यह केवलज्ञानादिक कर्मोंके क्षयका निमित्त पाकर हुआ था। इस कारण वह तब क्षायिक भाव कहलाया था और उनका स्मरण अब तक बना हुआ है कि आखिर होता तो कर्मोंके क्षयके निमित्त से ही ना, इसलिए क्षायिकभावका व्यपदेश हुआ करता है।

निमित्तक्षयकालमें क्षायिकता— वस्तुस्थिति ऐसी है कि कर्मोंके क्षय का समय एक है, क्षय माने वियोग। वियोग कहते हैं अंतिम संयोगको। संयोगके व्ययके प्रथम समयका नाम वियोग है फिर तो रहितपना है। वियोग नहीं कहलाता। जैसे कोई आदमी आपको स्टेशन पहुंचाने गया और आप आगे चले गए तो आपसे पूछा जाय कि तुम्हारे मित्रका वियोग कहां हुआ था? तो आप क्या उत्तर देंगे? कहां हुआ था? स्टेशन पर। अरे स्टेशन पर तो संयोग था। तो संयोगके अंतिमसमयको, संयोगके व्ययके कालको वियोग कहा करते हैं। ऐसी क्षायिकता कर्मके वियोग होनेके समयमें है, फिर बादमें तो मात्र परमपरिणामिक भाव है। उस शुद्ध परिणमन को चूँकि उत्पत्ति हुई थी उसकी क्षयका निमित्त पाकर इस लिए अब भी कहते जाते हैं क्षायिक। ऐसी जो शुद्धपरिणति है उस परिणतिको कार्यशुद्धपर्याय कहते हैं।

सूक्ष्म अर्थपर्याय— द्रव्यदृष्टिसे शुद्धपर्याय देखी जाय तो सूक्ष्म ऋजूसूत्रनयसे जो तका गया है अशुक्लध्रुत्व गुण द्वारा सूक्ष्म परिणमन जो कि छहो द्रव्योंमें एक समान पाया जाता है वह शुद्ध अर्थपर्याय कहलाता है। यह शुद्ध परिणमन जैसा जीवमें है वैसा पुद्गलमें है। छहों द्रव्योंमें

साधारणरूपसे पाया जाता है। जैसे अस्तित्व गुण सब द्रव्योंमें एक समान है या कुछ विलक्षणताको लिए हुए होता है? एक समान है। विलक्षणता को लिए हुए तो असाधारण गुण है और असाधारण गुणका मनमें आशय रखकर अस्तित्वका मन्तव्य बनाएँ तो विलक्षण जंचता है, तब उसका नाम पड़ता है आवांतर सत्ता। अस्तित्व गुणका कार्य आवांतरसत्ता बनाना नहीं है। अस्तित्वगुणका कार्य तो सामान्य सत्तरूप बनाना है, जो छहों द्रव्योंमें सामान्यरूपसे पाया जाता है। आवांतर सत्ता तो असाधारण गुण और अस्तित्व गुण दोनोंके समवायात्मक दृष्टिका परिणाम है। तो जैसे अस्तित्व गुण छहों द्रव्योंमें एक समान है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व अगुरुलघुत्व, प्रवेशत्व, प्रमेयत्व छहों साधारणगुण छहों द्रव्योंमें एक समान हैं। इस ही प्रकार द्रव्यत्वगुण अगुरुलघुत्व गुणादिकके कारणसे परिणामनशीलताके कारण जो मूलमें परिणामन चलता है वह परिणामन भी छहों द्रव्योंमें एक समान है। केवल छहोंद्रव्योंमें साधारणरूपसे पाया जाने वाला जो सूक्ष्म परिणामन है, जो अव्यक्त है वह है शुद्धपर्याय।

व्यञ्जन अर्थात् व्यक्त परिणामन— भैया! जितने भी व्यक्त परिणामन है वे सब स्थूल परिणामन हैं। जैसे एक बहुत बड़ा चक्का घूमता है, तो चक्केकी आखिरी कोर घूमती हुई स्पष्ट नजर आती है और ज्यों-ज्यों उस छोरसे अन्दरको देखते जायें त्यों-त्यों घुमाव कम नजर आता है और कीलके ही पास जो अंश है उसका घुमाव विदित ही नहीं हो पाता। तो इस प्रकार पदार्थकी परिणामनशीलताके कारण मूलमें जो परिणामन है वह सूक्ष्म है, सब द्रव्योंमें एक समान है। अब असाधारण गुणको साथ रखकर जो परिणामन दीखेगा वह व्यक्त परिणामन है, स्थूल परिणामन है, उनमें शुद्ध और अशुद्धका भेद होता है। पर परिणामनशीलताके कारण जो परिणामनमात्र है वह तो अपने एकत्वको लिये हुए है। उसमें शुद्ध और अशुद्धका भेद नहीं है।

व्यञ्जनपर्यायोंका व्यक्तरूप— पर्यायके विषयमें ये सब भेद जान लेने चाहिये और उनकी जो व्यञ्जन पर्यायें हैं अर्थात् व्यक्त पर्यायें हैं जो इन्द्रिय तकसे भी जान लिये जायें वे सब हैं नर, नारक तिर्यञ्च देवरूप स्वर और व्यञ्जन होते हैं ना, तो स्वर तो उसे बोलते हैं जो अकेला बोला जा सके, जैसे अ आ इ ई आदि खल अच्छी तरह बोल लो। पर व्यञ्जन को भी कोई स्वरका सहारा लिए बिना बोला जा सकता है क्या? जैसे क बोलो, पर उसमें अ मत लगाना। क्या बोल सकते हो? आप कहेंगे कि हम बोलते हैं आधा क क्या? इसमें बोला तो शुद्ध क मगर उस शुद्ध क

को बोलने के लिए य उत्तरवर्ती आ का सहारा लिया गया। कहीं भी अ न लगा हो, स्वर न लगा हो तो आप व्यञ्जन बोल ही नहीं सकते। व्यञ्जनमें स्वर होना ही चाहिए तब बोला जा सकता है और स्वर स्वयं आधाररूप है। उनके लिए और आधार न चाहिए।

स्वरपर्याय और व्यञ्जन पर्याय— इसी प्रकार नर नारकादिक व्यञ्जन पर्याय हैं। इसके लिए कोई आधार चाहिए, वह आधार है कारण शुद्धपर्याय अथवा अर्थपर्याय। अशुक्लघुत्वगुण द्वारसे होने वाले परिणामन को और आधार न चाहिए। इसलिए वह है स्वर पर्याय और नर नारकादिक हैं व्यञ्जन पर्याय, ये स्वरसे विलक्षण हैं व्यञ्जन पर्याय आदि सहित हैं व अंत सहित हैं, विजातीय विभाव स्वभावरूप हैं। विजातीय अर्थात् मूर्तपदार्थके सम्पर्कसे हुए हैं, इनका विनाश देखा जाता है, ये नर नारकादिक पर्याय विभावव्यञ्जनपर्याय कहलाती हैं। इस सम्बन्धमें फिर और वर्णन चलेगा।

व्यञ्जनपर्यायों की अज्ञानकारणकता— अब व्यञ्जन पर्यायका वर्णन करते हैं। पर्यायवान् पदार्थोंके ज्ञानके बिना पर्यायके स्वभावसे शुभ अशुभ और मिश्र परिणामोंके द्वारा यह आत्मान्द्वारसे मनुष्य बनता है। उसको जो मनुष्यके आकाररूप व्यञ्जन पर्याय है वह मनुष्यपर्याय नामक व्यञ्जनपर्याय है ये व्यञ्जन पर्यायोंके प्रकार चारगतियों रूप हैं। इन पर्यायोंकी उत्पत्तिका मूल कारण क्या है? तो पर्याय जिसमें प्रघट हुई है ऐसी पर्यायोंका ज्ञान न होना, सो पर्यायोंके पाते रहनेका मूल कारण है। सम्यग्दर्शन होने के बाद भी जो कुछ पर्याय और पानी पड़ती हैं, उनके भी मूल सम्यग्दर्शन से पहिले जो अज्ञान था वह कारण है। क्योंकि उसी अज्ञानसे जो सिलसिला बना था उस सिलसिलेके अन्तर ही शेषपर्याय उसे मिलती हैं।

मनुष्यपर्यायकी उत्पत्तिका कारण— मनुष्य बनना न केवल पाप-परिणामसे होता और न केवल पुण्य परिणामसे होता, किन्तु पाप और पुण्य दोनोंके मिश्र परिणामसे होता है। यह मनुष्यपर्याय धस्तुगत दृष्टि से देखा जाय तो न केवल जीवके है, न केवल कर्मके है, न केवल उनकी वर्गणाओंके है, और ऐसा भी नहीं है कि सूक्ष्म अंशरूप पर्याय इन तीनों की मिलकर बनी हो अर्थात् तीनोंको मिलकर भी कोई एक परिणामन नहीं है। फिर भी स्थूलरूपसे ज्ञानमें आने वाली यह मनुष्यपर्याय जीव, कर्म व आशरीरवर्गणा इन तीनोंका पिरकरूप है।

नारकत्वका साधन व गतिके अनुकूल भाव— नरकपर्याय भी द्यंजन

पर्याय है। केवल अशुभ कर्मों के द्वारा यह आत्मा नारकी बनती है, यह नारक पर्याय व्य-हारनयसे ज्ञात होती है। जो नरकके आकार पर्याय हुई उसे नरक पर्याय कहते हैं। जिस पर्यायमें जीव पहुंचता है उस जीव की परिणति पर्यायके अनुकूल बनती है। आज कोई मनुष्य है तो मनुष्य के अनुकूल उसके भाव चलेंगे। जैसे मनुष्य खाते हैं, जैसे मनुष्य रहते हैं उस तरहकी वृत्ति होती है। वही जीव मनुष्य पर्याय छोड़कर यदि बैल, घोड़ा आदि तिर्यच बन गया तो उसकी वहांके अनुकूल परिणति चलेगी। वहां घास खानेको, उस तरह बैठनेको, अपनी ही विरादरी सुहानेके सब परिणामन हो जाते हैं। ये अनन्त चतुष्टयकी योग्यता रखने वाले जीव एक अज्ञानके फैलमें आकर कैसी कैसी दशाओंको भोगते हैं ? ये सब बातें इन व्यंजनपर्यायोंसे ज्ञात होती हैं।

मनुष्योंके प्रकार— मनुष्य कितने प्रकारके हैं ? संक्षेपमें मनुष्य तीन प्रकारके हैं—लब्धपर्यायक मनुष्य, कर्म भूमियां मनुष्य और भोग भूमिया मनुष्य। इन तीनों मनुष्योंकी आदतें अपनी अपनी परिस्थितिके अनुसार होती हैं। कर्मभूमियां मनुष्योंमें देखो कितने प्रकारके मनुष्य हैं ? हिन्दुस्तानमें गुजरातियोंका ढंग उन जैसा, महाराष्ट्रियोंका ढंग उन जैसा, मध्यप्रदेश वालोंका ढंग उन जैसा, काश्मीर वालोंका ढंग उन जैसा—रहन सहन रूप ढंग, बोलचाल कितनी भिन्नता हुई है ? तो यह तो मोटे रूपमें दिखता है। वैसे तो एक मनुष्यसे दूसरा मनुष्य नहीं मिलता है। आदतमें, परिणाममें सब एक समान हों ऐसे कोई दो मनुष्य नहीं मिलते हैं। तो कितनी विभिन्नताएं हैं इन पर्यायोंमें ?

नारकी जीवोंका संक्षिप्त विवरण— नारकी जीव नीचे ७ पृथिवियोंमें रहते हैं। पहली पृथ्वीमें नारकी जितनी अवगाहनाके होते हैं उससे बूनी देह की अवगाहना वाले दूसरे नरकमें हैं। तीसरीमें उससे दूने शरीर वाले चौथे, पांचवे, छठे और सातवेंमें क्रमसे दूने दूने शरीर वाले होते हैं। ये दूसरेको देखकर रोष ही रोष किया करते हैं। पूर्वभवमें चाहे किसीका उपकार किया गया हो, आंखमें अंजन लगाकर आंखका रोग ही मिटाकर, चाहे वह मां ही क्यों न हो, उपकार किया गया हो, नरकमें जब वे दोनों पैदा हो गए तो उन्हें उल्टा सूकेगा। इसने तो मेरी आंख फोड़नेका ही प्रयत्न किया था और उल्टा सोच सोच कर लड़ते रहेंगे। प्रसिद्ध बात है यहां भी कोई मनुष्य आपसमें यदि लड़ते हैं तो कहने लगते हैं कि नारकियोंकी तरह आपसमें लड़ रहे हैं।

तिर्यक पर्यायकी उत्पत्तिका कारण व तिर्यचोंके प्रकार— तिर्यच

पर्याय भी व्यञ्जन पर्याय है। इसमें जब कुछ शुभ मिला हो और शुभ अशुभ मिश्र परिणाम होता हो लेकिन साथमें माया परिणामन हो तो माया चारकौ अधिकतासे तिर्यच शरीरमें जीव उत्पन्न होता है। उसका जो आकार है उसको तिर्यकपर्याय कहते हैं। तिर्यच तो बहुत प्रकारके हैं। प्रथम पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें देखो—पशुपक्षी सर्पादिकके ढंगके जमीन पर रेंगने वाले पंचेन्द्रिय जीव हैं। पशुओंमें कितनी विभिन्नताएं हैं? बैल, घोड़ा, हाथी, हिरण, बारहसिंहा, खरगोश और और भी नाम लेते जावो, कितने तरहके पशु हैं, कितने तरहके पक्षी हैं। कई तो दिखते भी नहीं हैं, कभी दिख जायें तो बड़ी विचित्र मालूम होती हैं। जलचर तिर्यच देखो, पंचेन्द्रिय देखो, मछलियां, कच्छ, मगर कितना विस्तार है तिर्यचोंका? चौइन्द्रिय कितनी तरहके हैं—चौइन्द्रियमें मच्छर, टिड्डी, पतिंगा, भबखी, भंबरा, ततैया नाम लेते लेते पूरा नहीं पढ़ सकता है। कहां तक नाम लोगे? ये इतने हैं कि मालूम भी नहीं हैं। तीन इन्द्रिय कितने प्रकारके हैं, दो इन्द्रिय कितने प्रकारके हैं, एकेंद्रियकी तो शुमार ही नहीं है। १० लाख जातिकी तो बनस्पति ही बतायी जाती है। लाखों जातिके तो तो बनस्पति ही बतायी जाती है। लाखों जातिके तो पेड़ पाये जाते हैं। पृथ्वीके जीव, जलके जीव, आगके जीव, हवाके जीव, निगोदराशि कितनी तरहके तिर्यच पर्यायें हैं, कोई नाम लेनेसे पूरा पढ़ सकता है क्या?

तिर्यचोंके प्रकारोंकी जातियां तक भो गिनानेकी अशक्यता--एक बार रात्रिके समय राजा बोला कि मन्त्री ऐसा किस्सा तो सुनावो कि जो रात भरमें पूरा न हो सकें। दस घंटे तक बराबर चलता रहे। क्या ऐसा किस्सा किसीको याद है? सभीको ऐसे याद होंगे कि भिनटोंमें पूरे हो जाएं, एक घंटेमें पूरे हो जायें, और १० घंटेमें भी पूरा न हो सके ऐसा किस्सा किसीको याद है क्या? नहीं याद है। तो हम सुनायेंगे रात भर तो न बोलेंगे पर थोड़ा बताये देते हैं कि इस तरहका किस्सा है। मन्त्री बोला, कि महाराज एक बार हम एक बागमें गए थे उस बागमें कई हजार इमलीके पेड़ थे, और एक एक पेड़में १-१० बड़ी डालियां थीं, एक एक डालीमें २०-२० छोटी डालें निकली थीं और एक एक छोटी डालीमें ५०-५० जिसके आंगुर पर पत्ते रहते ऐसी सीकें थीं। और एक एक सीकेंमें १००-१०० पत्ते थे। एक भंबरा आया तो एक पत्ते पर बैठ गया। राजा पूछता कि अच्छा फिर क्या हुआ? मन्त्री बोला, कि भंबरा फुरसे चढ़ा सो पासके दूसरे पत्ते पर बैठ गया। फिर क्या हुआ? फिर तीसरे पत्ते में बैठ गया। फिर? फिर और पत्ते पर बैठ गया। अब बतावो रात भर

तो क्या ऐसा किस्सा तो द महीनेमें भी पूरा नहीं हो सकता है। अरे ! कितने पत्ते होंगे उन-इमलोंके पेड़ोंमें ? सो चाहे कितना ही बोलते जावो, महीनोंमें भी किस्सा पूरा नहीं हो सकता। ऐसे ही कितनी जातिके तिर्यच हैं ? गिनते जावो। कुछ गिनती है क्या ?

महामोहमदपानका फल— तिर्यच पर्यायोंमें जन्म लेना अज्ञानभाव में होता है, मोह भावसे होता है, जो मोह इतना इतना प्रिय लग रहा है कि कल्पित अपने ही अपनेको सुहायें, दूम्मेको गौर मानें, ये ही मेरे सब कुछ हैं। तन, मन, धन, वचन सब कुछ अपने लड़कोंके लिए, स्त्रीके लिए, परिजनके लिए हैं, औरोंके लिए कुछ बात ही नहीं है—ऐसा प्रबल मोह होता है, इस मोहका फल है ऐसी ऐसी तिर्यच पर्यायोंमें रहलते रहना। किसके लिए यह बड़ी शान और पोजीशन बनायी जा रही है ? ये दिखने वाले सब कौड़े साथ न जायेंगे। इनमें कुछ सारकी बात नहीं है। ये सब स्वप्न जैसे दृश्य हैं। कोई किसीका सहायक नहीं है। बस जो पाप भाव बनाते हैं उनका फल ही हाथ आयेगा और बाह्य समागम ये कुछ भी हाथ न रहेंगे। ये तिर्यच पर्याय व्यंजनपर्याय हैं।

देवपर्यायकी उत्पत्तिका साधन— देवपर्याय भी व्यंजन पर्याय है। केवल शुभ कर्मके द्वारा यह आत्मा व्यवहारदेव बनता है। ये सब परिस्थितियां व्यवहारसे हैं, निश्चय तो पदार्थके स्वभावको ग्रहण करता है। देव बननेमें जो आकार है वह देवपर्याय है। देवपर्याय भी बहुत प्रकार की है। कितने तरहके भवनवासी देव, व्यंतरदेव, ज्योतिषीदेव और वैमानिक देव हैं। इनका बहुत बड़ा विस्तार आगमोंमें लिखा हुआ है, करणानुयोगके शास्त्रोंमें लिखा है। विशेष जानना हो तो वहांसे जान सकते हैं। कितनी प्रकारका यह व्यंजनपर्यायका प्रपंच है। यह तो सब एक व्यवहार दृष्टि करके जीवकी जो जो परिस्थियां बनती हैं उनका वर्णन किया है।

पर्यायविस्तार जाननेसे प्राह्य शिक्षा— भैया ! यह सब जानकर अपनेको शिक्षा क्या लेनी है ? 'म' जिस अन्तस्तत्त्वके ज्ञान बिना जीव ऐसी ऐसी पर्यायोंमें भटकता है उन सब पर्यायोंका मूल स्रोतरूप जो निज अन्नस्तत्व है, चैतन्यस्वभाव है उस चैतन्यस्वभावकी दृष्टि करनी चाहिए। भले ही ये परिस्थितियां नाना प्रकारकी हैं फिर भी इन परिस्थितियोंके होने पर भी जो पुरुष शुद्ध दृष्टि करता है, परमतत्त्वके अभ्यासमें जिसकी बुद्धि निपुण हुई है वह यह देखता है कि समयसारके अतिरिक्त मेरा अन्य कुछ स्वरूप नहीं है। ऐसा जानकर जो अपनी दृष्टि बनाये रहते हैं वे मुक्ति के अधिकारी होते हैं। यहां व्यंजनपर्यायके सम्बन्धमें सामान्यरूपसे

वर्णन करके अब विशेष रूपसे इसका निरूपण करते हैं।

मागुस्सा दुवियप्पा कम्ममहीभोगभूमिसंजादा ।

सत्तविहा गोरइया यादव्वा पुढविभेयेण ॥१६॥

च उदहभेदा भणिया तेरिच्छा सुरगणा चउभेदा ।

एदेसि वित्थारं लोयविभागेसु यादव्वं ॥१७॥

मनुष्यशब्दका व्युत्पत्त्यर्थ व मानवके प्रकार— चारों गतियोंका स्वरूप कहो या व्यञ्जनपर्यायका स्वरूप कहो, एक बात है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो मनुष्य तीन प्रकारके हैं, पर लक्ष्यपर्याप्तक मनुष्यको यहां अभी नहीं लिया गया है। मनुष्य शब्दकी व्याख्या है—जो मनुकी संतान हों, उन्हें मनुष्य कहते हैं। अन्य जगह भी यह बात प्रसिद्ध है कि सब मनुष्य मनुकी संतान हैं और जैनसिद्धान्तमें यह बताया है कि भोगभूमि मिटनेके बाद कुछ मनु हुआ करते हैं, जो कि कर्मभूमिकी एक नयी व्यवस्था बनाते हैं अथवा कुलकरोंके जो संतान हैं, उन्हें मनुष्य कहते हैं। मनुष्य कहो या कुलकर कहो, एक बात है। पश्चात् यह मनुष्य शब्द कुछ रूढिरूप हो गया। विदेहक्षेत्रमें तो कभी कुलकर नहीं होते, क्योंकि वहां स्थायीरूपसे कर्मभूमि है। कुलकर तो वहां होते हैं, जहां पहिले भोगभूमि हों और भोगभूमि मिटकर कर्मभूमि बने तो यद्यपि विदेहक्षेत्रमें स्थायी कर्मभूमि होनेके कारण कुलकर नहीं होते हैं, फिर भी मनुष्य शब्द रूढिसे वहांके लिये भी प्रुकारा जाता है। ये मनुष्य दो प्रकारके होते हैं—कर्मभूमिज मनुष्य और भोगभूमिज मनुष्य। जो कर्मभूमिमें पैदा हुए हों, वे कर्मभूमिके मनुष्य हैं और जो भोगभूमिमें पैदा हों, वे भोगभूमिके मनुष्य हैं।

भोगभूमिज मनुष्योंकी परिस्थितियां— कर्मभूमिमें कार्य करना पड़ता है, तब गुजारा होता है। लिखनेका काम, खेतीका काम, व्यापार का काम, सेवाका काम, अन्य कलाका काम या हथियारका काम आदि कुछ भी काम करें, तब वहां उसका गुजारा है, पर भोगभूमिमें आजीविका का कोई कार्य नहीं करना पड़ना है—ऐसा सुनकर कई लोग सोचें कि यार हम वही होवें तो अच्छा है, पर भोगभूमिके जीव कर्मभूमिसे कुछ विशेष नहीं माने जाते हैं। वे भोगमें मस्त रहते हैं, जो मनमें इच्छा हुई, वहां भोग उनके सामने आ जाते हैं। इसी प्रकारके वहां कल्पद्रुमकी रचना है। जीवनभर वे अपने भोगोंमें रत रहा करते हैं। एक सम्यग्दर्शन उनके हो, इतनी बात तक तो वहां है, पर देशभ्रत या साधुभ्रतरूपपर्यायकी प्रकृति कर पायें—ऐसी वहां प्रकृति नहीं है। भोगभूमिमें विकारका भी दुःख नहीं होता

है। पुरुष व स्त्री एक साथ मरते हैं और जब बच्चे हों तो लड़का और लड़की एक साथ पैदा हों और उनके पैदा होते ही मां बाप गुजर जायें तो न लड़केको हीड़ना रहे और न मां बापको हीड़ना रहे। ऐसे बड़े सुख प्रसंगमें ये भोगभूमिके मनुष्य रहते हैं। ये पाप भी अधिक नहीं कर पाते और पुण्य भी अधिक नहीं कर पाते। इसी कारण ये मरकर दूसरे स्वर्ग तकमें जन्म लेते हैं। इससे और ऊपर इनका जन्म नहीं है और देवगति के सिवाय अन्यपर्यायोंमें भी इनका जन्म नहीं होता है।

कर्मभूमिज मनुष्योंकी परिस्थितियां— किन्तु कर्मभूमियां मनुष्य, कैसे हैं अपन ? बाह रे हम जहां चाहे पैदा हो सकते हैं। भले ही इस कलिकालके कारण ऊपरके स्वर्गोंमें व मुक्तिमें नहीं जा सकते लेकिन मनुष्य ही तो जाया करते हैं। अपन तो मनुष्यके नाते बोल रहे हैं। कर्मभूमिके मनुष्य मोक्ष चले जायें, वैकुण्ठ चले जायें, स्वर्ग चले जायें, ऊर्ध्व लोकमें सर्वत्र उनका जन्म हो सकता है और मोक्ष भी हो सकता है। वैकुण्ठ किसे कहते हैं कि लोकके नक्षत्रोंमें कंठके जगहमें जो रचना बनी हुई है—प्रथमक है, अनुदिस है, सर्दारिसिद्धि है, ये सब वैकुण्ठ कहलाते हैं। इनमें से चिलबिलाहट से भरे हुए वैकुण्ठ तो प्रथमक हैं, जहां तक मिथ्यादृष्टि का भी जन्म है और ऊपरके जन्म हैं उनमें चिलबिलाहट नहीं पायी जाती है। इस प्रथमक वैकुण्ठमें सागरों पर्यन्त ये जीव रहते हैं। फिर इतना बड़ा कालावधि व्यतीत होने पर फिर उन्हें यहां जन्म लेना पड़ता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जीव ज्यादासे ज्यादा वैकुण्ठमें चला जाय तो यहां से बहुत दिनोंके बादमें धक्के देकर गिरा दिया जाता है, उसे फिर संसारमें आना पड़ता है, ऐसा प्रसिद्ध है कहीं कहीं। वह यही वैकुण्ठ है। तो ऊर्ध्वलोकमें जहां चाहे ये कर्मभूमियां पैदा हो लें।

कर्मभूमिज मनुष्योंके सर्वत्र जन्मकी संभवता— बाह रे हम मनुष्य नरकोंमें सब जगह पैदा हो लें, औरोंको तो कैद है। वैष नरकोंमें उत्पन्न नहीं हो सकते। चौ इन्द्रिय तकके जीव नरकमें उत्पन्न नहीं हो सकते और असंज्ञी पंचेन्द्रिय तो पहिले ही नरकमें जा सकते हैं। संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च और कर्मभूमिकी स्त्री छठी नरक नव जा सकती है, पर मनुष्य सब नरकोंमें जा सकता है। एकेन्द्रियमें भी पैदा हो ले, सब जगह इसका द्वार खुला है। अब जहां चाहे पैदा हो ले। तो वे दो प्रकारके मनुष्य हैं जिसमें अब कर्मभूमियाकी बात कही जा रही है।

कर्मभूमिज मनुष्योंके प्रकार— ये कर्मभूमियां आर्य और अलेच्छ इस तरह दो प्रकारके हैं। आर्य जीव तो वे लाते हैं जो पुरुष क्षेत्रमें

उत्पन्न होते हैं, और म्लेच्छ जीव वे कहलाते हैं जो पापक्षेत्रमें उत्पन्न होते हैं। इस व्याख्यासे जो पुण्य क्षेत्र है वहां जितने मनुष्य हैं वे सब आर्य हुए और जो पापक्षेत्र है जैसे कि लोग कहा करते हैं ऐसा स्थान है जहां अन्नका दाना नहीं मिलता वर्षाही जगह, समुद्री जगह तो वह पाप क्षेत्र है। ऐसे पापक्षेत्रमें रहने वाले म्लेच्छ मनुष्य कहलाते हैं, और भी इनके सम्बन्धमें विशेष वर्णन शास्त्रोंमें किया गया है, ये सब कर्मभूमिया मनुष्य हैं। अब भोगभूमिया मनुष्यकी बात कही जायेगी।

भोगभूमिके स्थान— जीवके स्वरूपका वर्णन पहिले तो अर्थपर्याय से बताया गया और स्वभावसे बताया गया, इसके पश्चात् मोटे रूपमें लोगोंको शीघ्र विदित हो सके, इस दृष्टिसे व्यञ्जनपर्यायोंका वर्णन चल रहा है। जिसमें मनुष्य व्यञ्जन पर्यायकी बात इस प्रकरणमें है। मनुष्य दो प्रकारके हैं— एक कर्मभूमिज और एक भोगभूमिज। भोगभूमिज जीव आर्य कहलाते हैं और कुछ भोगभूमियां निकृष्ट भोगभूमियां भी होती हैं। यह जो जम्बूद्वीप है, उस जम्बूद्वीपमें भरत व ऐरावत क्षेत्रमें आर्यखण्डमें अस्थिर भोगभूमि होती है। भरतक्षेत्रके बाद जघन्य भोगभूमि शुरू होगी जिसका नाम है हैमवत क्षेत्र, हरिक्षेत्र। इसके आगे उत्तम भोगभूमि मिलेगी जिसका नाम है देवकुरु, फिर उत्तरकुरु नाम उत्तम भोगभूमि मिलेगी, फिर उसके आगे है रम्यकक्षेत्र भोगभूमि, इसके बाद है हैरण्यवत।

जघन्यभोग भूमिजोंकी आयु— जघन्य भोगभूमिमें १ पत्यकी आयु वाले मनुष्य होते हैं। पत्य कितना बड़ा होता है? उसका प्रमाण समझना हो तो गिनतीसे नहीं समझ सकते हैं। वह उपमाप्रमाणसे जाना जायेगा। मान लो दो हजार कोस लम्बा चौड़ा गहरा गड्ढा है, उस गड्ढेमें बालके छोटे छोटे टुकड़े जिनका दूसरा हिस्सा न हो सके ऐसे रोम लूब कूटकर भरे हुए हों, उपमा ही तो है। इतने बड़े विस्तारकी बात गिनती द्वारा नहीं बतायी जा सकती है। उसका उपाय उपमा है और कल्पनामें मानलो उस गड्ढेपर हाथी फिरा दो, अब समझलो कि उस गड्ढेमें कितने बाल भरे हो सकते हैं? और बाल भी कैसे लो— अपने जो बाल होते हैं ना। ये जितने मोटे होते हैं उनसे ८ बां हिस्सा बारीक, जघन्य भोगभूमिके बाल जो होते हैं उनसे भी ८ बां हिस्सा कम पतले, मध्यम भोगभूमिमें उससे भी ८ बां हिस्सा कम पतले उत्कृष्ट भोग भूमिमें होते हैं। ऐसे उत्कृष्ट भोगभूमि के कोई ५-७ वर्षके बालके बाल ले लो या तो महीन बालोंमें मेढ़ा प्रसिद्ध होता है सो उसके पतले बाल हों और जिनका दूसरा अंश न हो सके वे उस गड्ढेमें भरे गए। १००-१०० वर्षमें १-१ बाल निकाला जाय, यों सब

बाल जितने वर्ष लगे उतनेका नाम है व्यवहार पत्य और उससे असंख्या-गुणा काल होता है उद्धार पत्यका और उससे अनगिनतेगुणा काल होता है अद्वापत्यका ऐसे एक-एक पत्यकी आयु बाले जघन्य भोगभूमिज मनुष्य और तिर्यञ्च होते हैं ।

भोगभूमिज जीवोंकी जीवनी— इतनी पत्यवाली आयु वैवल स्त्री पुरुषके वार्तालापमें ही इस मनुष्यने व्यतीत की । ये जीव पुरुषके उदय बाले हैं, अपने-अपने आरामसे इन्हें प्रयोजन है, विवाद भगड़ा वहां होते नहीं है ऐसा वहांका वातावरण है । एक तरहसे इसे असही मायनेमें साम्यवाद कह लो । ऐसा साम्यवाद वहां है । यहां हम आप क्या साम्यवाद कर सकते हैं । कोई क्या करेगा ? विचित्र उदय है कर्मभूमिके मनुष्योंका । जहां साम्यवाद भी हो वहां एक चीजका साम्य कदाचित् कर लेवे किसीके पास पैसा न रहे, सब राष्ट्रीय सम्पत्ति हो, लोग तो कमायें और सरकारी जगहोंमें स्वयं—ऐसा कदाचित् बना भी लो, प्रथम तो यह बहुत मुश्किल है, फिर भी किसी की स्थिति छोटी है किसी की बड़ी है, कोई चौबीदारका काम करता है कोई बड़े मिनिस्टर मंत्री बने हुए हैं तो उनके चित्तमें क्या रंज नहीं होता होगा कि हाय हम हुकम मान-मानकर मरे जा रहे हैं । कहां समता ला सकते हैं ? पहिनावेमें, भोजन पानमें, इज्जतमें, उनकी सवारियोंमें इन सब बातोंमें कौन समानता ला सकता है ? तो भोगभूमि मायने साम्यवादका क्षेत्र । जघन्य भोग भूमिमें जितने भी मनुष्य तिर्यञ्च हैं सबका एकसा काम है ।

मध्यम और उत्तम भोगभूमिजोंकी परिस्थितियां— जघन्य भोग भूमिसे मध्यमभोगभूमिमें उनकी डबल बात है । यहां एक पत्यकी आयु है तो वहां दो पत्यकी आयु है । उत्कृष्ट भोगभूमिमें तीन पत्यकी आयु बाले जीव हैं । तो ऐसे भोगभूमिके जीव मनुष्य व्यञ्जनपर्यायमें हैं ।

लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य— एक जीव है लब्ध्य पर्याप्त मनुष्य । ये लब्ध्य पर्याप्त मनुष्य महिलावोंके शरीरसे यों ही जहां चाहे जगहसे उत्पन्न होते रहते हैं और वे दिखते नहीं हैं । उनका नाम लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य है । एक स्वांसमें १८ बार जो जन्ममरण निगोदका बताता है ऐसा ही जन्म मरण वहां है । कोई अन्तर नहीं है, चाहे निगोद जीव हो और चाहे लब्ध्य पर्याप्त हो । हां, क्षयोपशमका अन्तर है । इनके पंचेन्द्रियग्रहण क्षयोपशम है, और मन भी वहां बताया जाता है । वे असंखी नहीं होते हैं । तो ऐसे विचित्र-विचित्र मनुष्यपर्यायके जीव हैं ।

नारकियोंकी आवासभूमियां— नारकियों को देखो । यह जो जमीन

है, जिस पर हम और आप चलते और बोलते हैं, यह जमीन बहुत मोटी है। इस मोटी जमीनके अन्दरके ३ हिस्से कर लो। पहिलेके दो भागोंमें भवनवासी और व्यन्तरजातिके देवोंके मकान हैं और नीचेका जो तीसरा भाग है, उसमें नारकी जीव रहते हैं, वहां बहुत नारकी हैं और उनसे नीचे बहुतसा आकाश छोड़कर दूसरी पृथ्वी है, उसमें दूसरे नरककी रचना है। फिर कुछ आकाश छोड़कर तीसरी पृथ्वी है, उसमें तीसरा नरक है। फिर नीचे कुछ आकाश छोड़कर चौथी पृथ्वी है, वहां चौथा नरक है। फिर नीचे कुछ आकाश छोड़कर पांचवी पृथ्वी है, वहां पांचवी नरक है। इसी तरहसे छठी पृथ्वीमें छठा और सातवी पृथ्वीमें सातवां नरक है। इनमें रहने वाले जीव मदा क्रोधी बने रहते हैं, वे एक दूसरेको कुत्तेकी तरह देख कर लड़ते मरते हैं। उनमें ऐसा पापका उदय है कि उनके शरीरके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी थारेकी तरह मिलकर फिर उनका पूर्ण शरीर बन जाता है।

नरकभूमियोंके बिल— उन नरकोंमें बड़े-बड़े बिल हैं। कितने बड़े बिल हैं? कोई १० हजार कोसका समझो, कोई ५० हजार कोसका समझो, इतने ही नहीं, बल्कि इनसे भी बड़े। ये तो कुछ भी बड़े नहीं हैं और बड़े बड़े हजारों योजनोंके लम्बे-चौड़े बिल हैं। उनका नाम बिल क्यों रखा गया? इतनी बड़ी लम्बी चौड़ी जगहका नाम बिल बां है कि वहां उजाला भी नहीं है। उन बिलोंमें किसी ओर मुख नहीं है। जैसे एक हाथभरका लम्बा चौड़ा और उतना ही मोटा पाटिया हो और उस पाटियेके बीच बीचमें ऐसे छिद्र हों कि आपको पता ही न पड़े कि इस पाटियामें छिद्र हैं। आप कभी सागवनका सिलीपर लेने जाते हैं या कोई मोटा टुकड़ा लेने जाते हैं तो उसमें आपको कहीं बिल नहीं दिखता है, पर जब उसे कटाने लगते हैं तो उसमें कहीं न कहीं बिल निकल आता है। इसी तरह इस पृथ्वी में किसी ओरसे मुख नहीं है उस नरकमें जानेके लिये और बीच ही बीच में इतने बड़े बिल बने हुए हैं।

नरकबिलोंकी रचनाएं— पहिले नरकमें १३ जगह बिलोंकी रचना है। जैसे एक पटल होगा, उसमें पहिले बिलोंकी रचना है, फिर उसके नीचे दूसरा पटल आया तो उसमें दूसरे बिलोंकी रचना है। पृथ्वीका कुछ टुकड़ा छोड़कर तीसरा पटल आया तो वहां बिल है। इस तरह १३ जगह बिलोंकी रचना है। नीचे नीचे नरकोंमें दो-दो पटल कम हैं, ७वें नरकमें केवल एक ही पटलमें बिलोंकी रचना है। इन नरकोंमें ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं, जो तीव्र आरम्भ वाले हैं, अधिक परिग्रही हैं, जिनको आत्महितका कुछ

भी ध्यान नहीं है। लोगोंमें धन कमाने, आरम्भ और परिग्रहके तीव्र कषाय हैं, इनमें पड़नेसे लोग नरकायुक्त बन्ध करते हैं और उन्हें नरकोंमें जन्म लेना पड़ता है। एक यह उक्ति है कि लोग पापका फल तो चाहते ही नहीं है और पापको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लोग पुण्यका फल तो चाहते हैं और पुण्यको करना नहीं चाहते हैं—ऐसी स्थितिमें क्या हो ? वे ही दुःख होते हैं।

जीवोंके परिणामके मापका उदाहरण— एक किम्बदन्ती है कि एक बार नारद घूमते-घूमते पहिले नरक गए थे। नरकमें देखा था कि इतने जीव भरे पड़े थे कि कहीं खड़े होनेकी जगह ही न मिली और जब बैकुण्ठ पहुंचे तो यह देखा कि खाली विष्णु भगवान् पड़े हैं। नारद विष्णुसे बोले कि हे भगवन् ! आप बड़ा पक्षपात् करते हो, नरकमें तो इतने जीव भर दिये कि वहां खड़े होने तककी जगह नहीं मिली और यहां आप अकेले पड़े हुए आराम कर रहे हैं। विष्णु बोले कि हम क्या करें, कोई यहां तो आना ही नहीं चाहता। नारदने कहा कि महाराज ! हमें इजाजत दो, हम बहुतसे लोगोंको यहां ले आएँ। सो विष्णुने एक पासपोर्ट लिख दिया कि तुम ले आओ यहां जिसको चाहो।

वृद्ध पुरुषोंका व्यामोह— अब नारद खुश होकर बड़ी जल्दीसे इस लोकमें आए। सो सबसे पहिले लगभग ६० सालके एक बाबा मिले। उनसे कहा कि बाबा बैकुण्ठ चलोगे ? चलो हम तुम्हें बैकुण्ठ ले चलेंगे। बैकुण्ठ कोई मरे बिना तो जा नहीं सकता, सो बाबा बोले कि हम ही तुमको मित हैं ? इसी तरह कई बूढ़ोंके पास गए, पर कोई भी बूढ़ा जानेको तैयार न हुआ।

युवकोंका व्यामोह— जब किसी भी वृद्धसे दाल नहीं गली तो नारद ने सोचा कि अब जवानोंके पास चलें, क्योंकि वृद्ध तो जानेको तैयार ही नहीं हैं। अब वे एक लगभग २५ सालके जवानके पास गये और बोले कि चलो, हम तुम्हें स्वर्ग ले चलेंगे, किन्तु यह युवक भी जानेको तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि अभी एक लड़का है, उसको पढ़ाना है, जिखाना है, शादी करनी है, अभी हमें जानेकी फुरसत नहीं है। इसी तरहसे कई युवकोंके पास नारद जी गये, लेकिन कोई भी जानेके लिये तैयार नहीं हुआ।

अल्पवयस्कोंका व्यामोह— फिर नारद कुछ लड़कोंके पास गये। सबसे पहिले एक लड़का लगभग १८ वर्षका एक मन्दिरके चबूतरे पर माथे पर तिलक लगाये हुए माला फेरता हुआ दिख गया। नारदने सोचा कि

यह लड़का जरूर हमारे संगमें चलेगा। सो नारदने उस लड़के से कहा कि चलो बेटा हम तुम्हें स्वर्ग ले चलें ? लड़का साथमें जाने को तैयार हो गया। जब थोड़ा चला तो बोला कि महाराज अभी कुछ दिन हुए सगाई हुई थी, अभी तीन दिन शादीके हैं, सब बराती तो आ गए हैं, सो शादी हो जाने दो, ऐसे समय पर जाना अच्छा नहीं लगता है, सो कृपा करके आप तीन वर्षके बादमें आना तब हम चलेंगे। नारदने कहा अच्छी बात। तीन सालके बादमें नारद फिर आए, बोले कि चलो बेटा स्वर्ग। तो वह लड़का बोला कि महाराज अब तो स्त्रीके गर्भ रह गया है, बच्चा हो जाय, सभी लोग बच्चेको तरसते हैं कि बच्चेका मुँह देख लें सो आप १० वर्ष गम खावो फिर चलेंगे। १० वर्षके बादमें नारद फिर आए, कहा चलो बेटा स्वर्ग। तो वह बोला कि अब यह बच्चा ही गया है, इसे अनाथ कहाँ छोड़ें, इसे ऐसा बना दें कि यह गृहस्थी संभालने लायक हो जाय, सो आप २० वर्षके बादमें आना तब चलेंगे। नारद २० वर्षके बादमें फिर आए, बोले कि अब तो चलो। तो वह बोला कि बेटा तो कुपूत निकल गया। धन बहुत जोड़कर रखा है। अगर हम चलते हैं तो यह लाखोंका धन ५ दिनमें बरबाद हो जायेगा, सो अभी तो नहीं चलेंगे पर कृपा करके आप दूसरे भवमें जरूर आना। तब हम जरूर चलेंगे। नारद चले गए।

भवान्तरमें भी व्यामोह— वह बुढ़ा होकर मरकर सांप बन गया और उसी स्थानपर रहने लगा जहां धन गढ़ा था। नारद वहां भी पहुंचे। वहां कहा कि चलो अब तो स्वर्ग चलो। तो वह फन हिलाकर वहांसे भी जाने के लिए मना करता है। अब नारदने सोचा कि विष्णु भगवान् सही कहते थे कि यहां कोई आना ही नहीं चाहता है। इसलिए काली है। सो लोग फल तो पुण्यका चाहते हैं पर पुण्य नहीं करना चाहते और लोग पापोंसे डरते हैं, पर पापोंसे मुख नहीं मोड़ते।

संसारी जीवोंकी दयनीय स्थिति— भैया ! संसारी जीवोंकी ऐसी दयनीय परिस्थिति है कि उनका कोई सहारा नहीं है। कुटुम्बके लोगोंको अपना हित समझकर उनके लिए कमायी करते हैं। बहुत-बहुत परिश्रम इकट्ठा करते हैं। पर जब मरण होगा तो ये सब बिछुड़ जायेंगे। कोई भी कुटुम्बके लोग मरणके समय साथी न होंगे। यहां पर सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। एक मिनटमें ही सारा फूसला हो जाता है, कोई भी पूछने वाला नहीं रहता है। इस जगतमें हम और आपका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। यह धन वैभव तो पुण्यका उदय है सो मिलता है। इस धन वैभव से इस आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है।

शुद्धात्मशरणाता— आत्माका स्वरूप जो ज्ञानस्वभाव है उसकी दृष्टि होने पर ऐसा अलौकिक आनन्द शुद्ध स्वच्छता प्रकट होती है कि जिसके प्रताप से भव-भवके पाये हुए पापकर्म निर्जराको प्राप्त होते हैं। एक ही शरण है हम आप लोगोंका कि हम अपने सहजस्वरूप रूप अपने को मान लें, मैं तो इतना ही मात्र हूँ, इससे अधिक और मैं कुछ नहीं हूँ। अपने स्वरूपमात्र अपने को मानना भर इतना कठिन लग रहा है इस व्यवहारी जीवको कि इस ओर दृष्टि ही नहीं जाती है और जो चीज पर है, भिन्न है, जिसका सम्बन्ध नहीं है ऐसी चीजोंमें लगने की बड़ी सुघ है।

सुगमता और दुर्गमता— एक हवेली बनवानी है, अजी यह तो अपने बाये हाथका काम है, ५० हजार रुपयेका बजट बना लिया, लो ६ महीनेमें हवेली खड़ी कर दी। उसमें भी आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, केवल विकल्प ही कर रहा है, पर भूलमें कुछ अभ्युदय वाले आत्माके ऐसे विकल्प हुए कि उनका निमित्त पाकर ऐसा तांता बन गया कि सारा काम सिलसिलेसे होकर ६ महीनेमें मकान खड़ा हो गया। यह जानता है कि मैंने मकान बनाया सो परके विकल्पोंमें पड़ना इसे बड़ा आसान लग रहा है। किन्तु अपने में सहजरूपकी दृष्टि जो प्रभु है विभु है, अपने आपकी सब दृष्टियोंका कारण है उस स्वरूप पर दृष्टिके लिए बड़ा साहस बनाना पड़ता है।

आत्मरमण बिना क्लेशका अभाव— यह प्राणी जब अपने आपको भूला है तो इसकी दृष्टि परकी ओर जाना स्वाभाविक ही है। जैसे जिस बालकको अपना खिलौना नहीं मिल रहा है वह बालक दूसरेके खिलौनेको देखकर रोता है, उसका रोना प्राकृतिक है। अब कई लड़के ऊधम कर रहे हों तो बड़े लोग उसे डांटते हैं—अरे बड़ा लड़कपन करता है और कदाचित्त वह लड़का कह दे कि तुम भी जब हमारी उन्नके थे तो तुम भी लड़कपन करते थे। तो लड़कपनमें लड़कपन जैसी बात आती है मगर प्रसनी बात चाहिए कि ऊधम तो करे, पर ऐसा ऊधम करे कि जो सुहावना लगे, दूसरोंकी विराधना न करे और दूसरोंको क्लेश न पहुंचे। वह लड़का दूसरेके खिलौने को देखकर रोने लगा। उसे कोई मना करे कि रोना बंद कर दो तो क्या उससे रोना बंद होगा? रोना तो तब बंद होगा जब उन्नका खिलौना उसे मिल जाय।

आत्मदर्शन ही संकटमुक्तिका साधन— इसी तरह अपने स्वरूपके अपरिचयी इस अज्ञानी बालकको अपना खिलौना जो सहज चैतन्यस्वरूप है, वह तो मिला हुआ नहीं है, गुम गया है, तो यह जो रूप, रस, गंध,

स्पर्शके बाहरी खिलौनोंको देखकर रोता है। अब इसको कोई दंड देकर या कोई धौंस देकर चाहे कि रोना यह बंद करावे तो कैसे बंद कर सकता है? इस तो अपने सहजस्वरूपको अनाविकालसे देखनेकी लगन ही नहीं है। इसको तो अपना अंतस्त्व, शुद्ध जीवास्तिकाय प्राप्त हो जाय तो इसका रोना बंद हो सकता है। अर्थात् विषयोंके लोभी पुरुष इन विषयोंको छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनके क्लेश भी नहीं समाप्त हो सकते हैं। है वह सारी व्यर्थकी आकुलता क्योंकि अंतमें रह जायेगा यह अकेला का ही अकेला। कुछ साथी न होगा। तो अपने आपकी दृष्टि करके अपने इस सहज अंतस्त्वमें रंग जाय तो इससे ही इसकी आपत्तियां दूर हो सकती हैं।

नारकियोंकी आयु— केवल अशुभ कर्मसे नरकगतिमें जन्म होता है। उन नारकी जीवोंमें जो प्रथम नारकके जीव हैं उनकी आयु अधिकसे अधिक १ सागर प्रमाण होती है। आयुके संबन्धमें कल पत्यका प्रमाण बनाया था, ऐसे-ऐसे एक करोड़ पत्यमें एक करोड़ पत्यका गुणा किया जाय, जो लब्ध हो उसको एक कोड़ाकोड़ी पत्य कहते हैं। ऐसे-ऐसे दस कोड़ाकोड़ी पत्यमें एक सागर होता है। दूसरे नरकके नारकियोंकी आयु तीन सागर प्रमाण तक होती है, तीसरे नरकके नारकियोंकी आयु ७ सागर प्रमाण तक होती है, चौथे नरकके गतियोंकी आयु १० सागर प्रमाण होती है, ५ वें नरकके नारकियोंकी आयु १७ सागर प्रमाण तक होती है, छठवें नरकके नारकियोंकी आयु २२ सागर प्रमाण तक होती है और ७ वें नरकके नारकियोंकी आयु ३३ सागर प्रमाण तक होती है।

तिर्यञ्चोंकी व्यञ्जनपर्यायें— अब तिर्यञ्च व्यञ्जनपर्यायकी बात सुनिये—तिर्यञ्च जीव १४ जीव समासोंमें विभक्त जानिए। इन १४ प्रकारों में सब तिर्यञ्च आ जाते हैं। जल्दी जानने के लिए जहां तक ऊंचेसे नीचे के क्रमके अनुसार सुनिये। संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव कोई पर्याप्त है कोई अपर्याप्त है। इस पर्याप्तमें लब्ध्यपर्याप्त और निवृत्त्य पर्याप्त दोनोंको ग्रहण करना। निवृत्त्यपर्याप्त उसे कहते हैं कि कोई जीव मरकर मानो बैल बन गया तो जिस समय वह गर्भमें आया तबसे लेकर कोई एक दो सेवेण्ड तक ऐसी हालत होती है कि जिस पिण्डके शरीररूपसे बन गया उस पिण्ड में स्वयं भी वृद्धिकी योग्यता नहीं हो पाती। क्योंकि त्यों रहता है, उसमें बड़वारी नहीं होती है। जब तक उस शरीरके बढ़नेकी, बननेकी योग्यता नहीं आ पाती है तब तक उसे निवृत्त्यपर्याप्त कहते हैं। निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्तमें फर्क इतना है कि लब्ध्यपर्याप्त तो पर्याप्त नहीं बनेगा

और नियमसे मरण करेगा । लब्धिपर्याप्तका अपर्याप्तमें मरण हो ही जायेगा । निवृत्त्यपर्याप्त पर्याप्त होगा ही, उसका तो पहिले मरण होता ही नहीं है—ऐसे संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त और संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त—ये दो प्रकारके तिर्यञ्च हैं ।

तिर्यञ्चोंमें असंज्ञी जीवोंकी पर्यायें— इनसे और हल्के देखो— असंज्ञीपंचेन्द्रिय अपर्याप्त व असंज्ञीपंचेन्द्रिय पर्याप्त । जो तिर्यञ्च कान सहित है, पर मन नहीं है, उन्हें असंज्ञीपंचेन्द्रिय तिर्यच बोलते हैं । उनमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होते हैं । इनमें और हल्के जीव देखो तो चतुरिन्द्रिय पर्याप्त और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त । देखो जिन जीवोंके स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र—ये चार इन्द्रिय हैं और जो पर्याप्त भी हो चुके, वे चतुरिन्द्रिय पर्याप्त हैं और जो इनमें पर्याप्त नहीं हुए, चाहे निवृत्त्य पर्याप्त हों या लब्ध्यपर्याप्त हों, वे अपर्याप्त कहलाते हैं । इनसे और भी निम्नश्रेणीके तिर्यच देखो तो तीनइन्द्रिय पर्याप्त और तीनइन्द्रिय अपर्याप्त— बिच्छू, चाँटा, चाँटा, कीड़ी आदि ये तीनइन्द्रिय जीव हैं, पर्याप्त भी हैं । अपर्याप्त तो जन्म लेनेके समय ही कुछ समयके लिए होता है, तो यह अपर्याप्त भी है । दोइन्द्रिय जीव उनसे जघन्यश्रेणीके हैं । जैसे लट, सीपी, जोंक, कीड़ी दोइन्द्रिय जीव हैं । पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों तरहके होते हैं ये ।

एकेन्द्रिय तिर्यचोंकी पर्यायें— त्रससे भी निकृष्ट हैं एकेन्द्रिय जीव । एकेन्द्रिय जीव दो प्रकारके पाये जाते हैं—कोई सूक्ष्मएकेन्द्रिय और कोई वादरेकेन्द्रिय । जो अत्यन्त सूक्ष्मशरीर वाले हैं, विश्वनेका तो काम ही नहीं है उनका और न भिड़नेका ही काम है । आग जल रही हो तो आगसे वे न मरेंगे, वे बहुत जल्दी-जल्दी अपनी मौतसे मरते रहते हैं । इतना सूक्ष्म शरीर होता है कि वायु, पत्थर, आग, पानी किसीसे भी उनका आघात नहीं होता है । इससे उन्हें कुछ भला न समझो, वे अपनी मौतसे तुरन्त जल्दी-जल्दी मरते रहते हैं । वादरएकेन्द्रिय जीव वे हैं, जिनके शरीरका आघात हो सकता है, लड़-भिड़ सकते हैं, ये हैं वादरएकेन्द्रिय । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति—ये ५ प्रकारके स्थावर होते हैं । इनमें ये चारों जीव समास घटित कर लो, वादरएकेन्द्रिय पर्याप्तभूत और अपर्याप्त तो ये हैं और सूक्ष्मएकेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त हैं । इस तरहसे तिर्यच जीव चौदह प्रकारके जानने चाहिए । तिर्यचोंका तो यह रूप सामने दिख ही रहा है । ये निगोद भी तिर्यच कहलाते हैं । ये वनस्पतिकायके भेद में हैं ।

इन्द्रियजातिके प्रति संसारी जीवोंकी मोटी पहिचान— इन जीवोंमें जरा जल्दी पहिचान करना हो कि यह कितनी इन्द्रियका जीव है तो मोटी पहिचान बताते हैं। सम्भव है कि यह पहिचान पूरी नियमरूप न हो लेकिन इससे अज्ञात बहुत हो जाता है। जिसके कान हों वह पंचेन्द्रिय है ही। चिड़िया हैं, पशु हैं, बैल हैं ये सब पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च हैं ही और चौइन्द्रिय त्र्यम्बुच छोटे और उड़ने वाले जीव होते हैं। जैसे मक्खी, मच्छर, टिड्डो, ततैया ये चौइन्द्रिय जीव कहलाते हैं और तीनइन्द्रिय जीव वे हैं जो जमीन पर चलते हैं और बहुतसे पैर होते हैं, कीड़ी, बिच्छू, कानखजूरा, पटार, गोभी सिरूला, खटमल, गिजाई ये सब तीनइन्द्रिय जीव हैं। जिनके पैर नहीं होते सरकते हुए रहते हैं, लट, केचुवा, जोक और सीप, कोड़ी, शंखमें जो कीड़ा रहता है वह ये सब दो इन्द्रिय जीव हैं। सीपके भीतर कीड़ा है। कौड़ीके भीतर कीड़ा है, ये दो इन्द्रिय जीव हैं। एकेन्द्रिय तो वे हैं जिनके जीभ होती ही नहीं है—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और धनस्पति।

विषमताका अन्तर— देखो भैया ! ज्ञानानन्द स्वरूप प्रभुकी कैसी कैसी अवस्थाएँ हैं ? एक अपने स्वरूपको न पहिचानने के कारण कितना अन्तर हो गया है कि एक आत्मा तो देखो बीतराग सर्वज्ञ तीन लोक, तीन कालकी बातें जानने वाला है और उस ही बिरादरीका एक यह आत्मा देखो जो पेड़ खड़े हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, हिल रहे हैं। ऊंट ऊपर सुंह करके पत्ती खा जाता है, लोग जैसा चाहेँ फाट डालते हैं, मानों उनमें जीव ही न हो। इस तरहका उन पर व्यवहार है। कितना अन्तर हो गया, और उन पेड़ोंमें और सिद्धमें क्या अन्तर देखना, अपनेमें और सिद्धमें ही अन्तर देख लो। कहां ये हम आप लोग लटोरे खचोरे बन रहे हैं, विषयोंके पीछे, पोजीशनके पीछे लग रहे हैं। रहना कुछ नहीं है। काहेकी पोजीशन करें ? इस पोजीशनमें बरा क्या है ? यहां की बातोंमें धरा क्या है, पर लोगों को कैसा विश्वास हो रहा है इन बातों पर। किसीको अपने स्वरूपकी सूझ ही नहीं होती। यह दशा है मोह और रागद्वेषके कारण।

देवोंका परिचय व भवनवासी व व्यन्तरोंकी परिस्थितियाँ— अथ देवगतिके व्यञ्जनपर्यायकी बातें सुनिये। देव चार जातियोंमें बंटे हुए हैं— भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमायिक। भवनवासी देव इस पृथ्वीके नीचे जो ऊपरी खण्ड है और नीचेका भी दूसरा खण्ड है इन दो खण्डोंमें रहते हैं और व्यन्तर भी इन दोनों खण्डोंमें रहते हैं और उनके अलावा व्यन्तर दूटे फूटे घरोंमें पेड़ोंमें रहते हैं। उनके भी मूल प्यासकी पीड़ा नहीं

लगती, बहुत दिनोंमें लगती है तो कंठसे अमृत ऋद्ध जाता है। इस तथ्य को न जानकर उन देवताओंके नाम पर लोग जीवहिंसा भी कर देते हैं। अरे उनका तो अमृत भोजन है, जब उनको भूख लगती है तो कंठसे अमृत ऋद्ध जाता है। निरुद्धसे निरुद्ध देवोंके भी यही बात है। हां वे कौतूहलप्रिय हैं। अपने को तुच्छ अनुभव करने वाले हैं, उनकी छोटी वृत्ति है। जैसे कि ये नीच आचरण कुल अथवा संस्कारमें पले हुए लोगोंकी वृत्ति ओछी होती है इसी प्रकार उन देवोंकी वृत्ति ओछी होती है। जब कि देखो भवनवासियों के भेदों में दो-दो इन्द्र हैं और दो दो प्रतीन्द्र हैं और ऐसे ही व्यंतरोंके हैं, यह ओछेपनकी ही तो निशानी है। अगर ढंग अच्छा होता तो दो दो इन्द्र का षे को होते ? विकल्प और आकुलताओंसे ये भरे हुए हैं।

ज्योतिषी देव— ज्योतिषी देव सूर्य, चन्द्र, तारा, नक्षत्र, ग्राह इनमें रहने वाले होते हैं। जो आँखोंसे सूर्य दिखता है यह स्वयं देव नहीं है। यह तो पृथ्वीकायका रचा हुआ विमान है। इनमें बसने वाला अधिष्ठाता सूर्य है और इसी तरह चन्द्रमाकी बात है। इनमें चन्द्र तो इन्द्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है और जो कभी गुच्छा सा दिखता है ऐसा लगता है कि बितकुल घड़े पड़े हैं जैसे थालीमें बूढ़ी फैला देने पर मालूम होता है। इन ताराओंके एक दूसरेके बीचमें करीब-करीब एक-एक, दो दो, तीन तीन योजनाका अन्तर है। ये भिन्न नहीं जाते। इसी प्रकार प्रत्येक तार्यों में देवोंका निवास है।

वैमानिक देव— चौथी जातिके देव है वैमानिक। ये उरुद्ध जातिके हैं, इनके दो भेद हैं—कल्पवासी और कल्पातीत। कल्पवासीदेव जहां रहते उसका नाम है स्वर्ग और उससे ऊपर कल्पातीत देव होता है। इन १६ स्वर्गोंमें ये जातियां हैं। कोई इन्द्र है, कोई सामानिक है। इनमें से कोई सलाहकार है, कोई सदस्य है, कोई वाडीगार्ड है, कोई इन्द्रका कोतवाल जैसा है। कुछ सेना है, कुछ प्रजाजन हैं। कोई वाहन का काम करते हैं। उनमें से कोई हुकुम देने वाला है। किसी हुकुम देने वालेको कहीं जाना है तो उसने हुकुम दिया कि ऋद्ध सज गया, उनमें से कोई अच्छी वृत्ति वाले हैं, कोई ओछीवृत्ति वाले हैं। यह भेद स्वर्गोंसे ऊपर नहीं हैं।

संसारी भवोंमें उपादेयताका अभाव— देवगतिमें बड़ी ऋद्धि है, बड़ा वैभव है। अपने शरीरको छोटा बना लें, बड़ा बना लें, हल्का बना लें, घनदार बना लें। बड़े विशाल विस्तारका देह होकर भी बितकुल हल्का बना लें, अनेक सेना बना लें, अनेक मनुष्य बन जायें और अपनी अन्नगाहनासे कहीं पहाड़ जैसे बन जायें। बड़ी विचित्र इनकी ऋद्धियां हैं।

यहां तो लोग चिड़ियोंकी तरह फुरसे उड़नेको तरसते होंगे कि हम न भये चिड़िया, मंदिरसे उड़ कर शीघ्र घर पहुंच जाते। कल्पतीत देवोंमें यह इन्द्रादिकका भेद नहीं होता। प्रत्येक देव वहां पूर्ण समर्थ इन्द्र है। इस तरह इन चार जातियोंमें बंटे हुए ये ष्यञ्जनपर्यायें चारों गतियोंके जीवों का वर्णन अन्य ग्रन्थोंमें करुणानुयोगमें बड़े विस्तार पूर्वकलिखा है। जीव-काण्ड, कर्मकाण्ड इन सबमें देख लो विशेष जानना हो तो।

ष्यञ्जन पर्यायोंके प्रति ज्ञानी की भावना-- यह ग्रन्थ आध्यात्मिक है। इसलिए प्रयोजनवश थोड़ा सा लोकरचनाका वर्णन किया गया है। इनका वर्णन करनेका प्रयोजन भी यह है कि अपनेको जानकारी हो जाय कि जीवका ऐसा ऐसा परिणामन संसारमें है। और यह भावना बने कि मैं इनमें किसी भी जगह पंदा न हूँ। स्वर्गोंका वर्णन सुना, बड़ी श्रद्धियां हैं। हजारों वर्षोंमें भूख लगे तो कंठसे अमृत ऋद्ध जाय। कई पलवारोंमें सांस ले, इतने वे समर्थ हैं, फिर भी मेरी उत्पत्ति वहां न हो ऐसी भावना ज्ञानी जीवके होनी है। इहानी जीव तो चाहता है कि हे भगवन् ! हमें खूब पुण्य मिले, स्वर्गोंमें जाकर बैठ हों, पर ज्ञानी जिसने ज्ञानानन्द स्वभावका अनुभव रस चखा है उसके कोई आकांक्षाएँ नहीं होती। एक ही दृष्टि है अपने सहजस्वरूपकी।

मानवीय वैभवोंमें भी ज्ञानीकी अनाकांक्षा-- भैया ! मनुष्यलोकमें भी कैसे-कैसे प्रतापी लोग होते हैं? नेता, मिनिस्टर, राजा, ऊंचे, ऊंचे लोग जिनकी लोग द्रव्यवानी करते हैं। बड़ा प्रबंध किया जाता, स्वागत सम्मान होना। ज्ञानी जीवकी दृष्टिमें यह अज्ञता है कि मैं ऐसा भी नहीं उत्पन्न होना चाहता। मेरा तो जन्ममरण ही न हो। कह दिया लाख और करोड़ आदमियोंने वाह-वाह तो प्रथम तो सब आदमियोंने ही नहीं कहा और कदाचित् सब आदमी वाह-वाह कह दें तो ये घोड़ा बैल तो हमारी वाह-वाह नहीं करते। क्या इनमें जीव नहीं है? क्यों इन्हें छोड़ते हो? ऐसा वैभव बढ़ावो कि ये गधे कुत्ते भी वाह वाह करें। पर यहां तो सभी लोग भी वाह-वाह नहीं करते हैं, और फिर और भी देख लो अनन्त जीवोंमें से लाखों हजारों जीव क्या गिनती रखते हैं? उन्होंने वाह-वाह कर दिया तो क्या हुआ? भैया ! वाह वाह क्या है? वाहका उल्टा पढ़ो, क्या हुआ? हवा। जैसे हवा बहती है वैसे ही वाह-वाहकी बात है। वाह-वाह कहिये किसीने तो उससे मिलता जुलता कुछ नहीं, कोरी उल्टी हवा चल गयी है।

विद्याधर व देवोंकी श्रद्धिकी अनाकांक्षा-- विद्याधरोंमें देख लो, आविष्कारकर्ता भी बहुत बड़े-बड़े कला-कौशल विस्वाते हैं, ज.स्.स्. इ.च.भ.

भी किया जाता है, इनमें भी ज्ञानी जीव उत्पन्न होनेकी भावना नहीं होती है। देवलोक है, बड़े-बड़े भवनवासियोंके ठाठके महल हैं, और उनके रत्नमय महलोंमें भी बड़े-बड़े मन्दिर हैं व छोटेसे छोटे मन्दिर भी हैं, यहां के बड़े-बड़े राजाओंसे भी ऊंचा सुख-वैभव है—ऐसे देवोंमें भी और ऊंचे वैज्ञानिकदेवोंमें भी ज्ञानी जीवके जन्मकी वाञ्छा नहीं रहती और नरकोंके निवासियोंमें ज्ञानी जीवके तो क्या, किसीकी इच्छा नहीं रहती। किन्हीं भी संसारी जीवोंमें इस ज्ञानी जीवके जन्मकी इच्छा नहीं रहती है। ज्ञानी के वाञ्छा रहती है तो एक यही कि हे नाथ ! कारणपरमात्मतत्त्व और कारणपरमात्मतत्त्वके वंशवके स्मरणमें ही मेरी भक्ति बार-बार हो।

तृष्णा न करनेका उपदेश— हे आत्मन् ! राजा इन्द्र बड़े बड़े महात्माओंके वैभवको सुनकर अथवा देखकर हे जड़वैभव वाले पुरुष ! तू व्यर्थमें क्लेशको प्राप्त होता है। अपनी कूखी-सूखी खा रहा था, बड़ी मौज में था, दूसरोंकी चुपड़ी देख ली, इसीसे बीमार हो गए। हाय ! मुझे ऐसा न हुआ, थोड़ीसी पूंजी थी, खर्च चलता था, आराम था और जहां शहर का सुख देखा कि बस हो गये बीमार। अब वह बीमारी ऐसी लग गयी है टी. बी. की तरहकी कि मरे तब ही छूटे। तो कहते हैं कि हे जड़बुद्धि वाले पुरुष ! तू दूसरेके वैभवको देखकर क्यों क्लेशको प्राप्त होता है ?

ज्ञानीकी हितबुद्धि— भैया ! यह वैभव यद्यपि पुण्यसे प्राप्त होता है, परन्तु आप यह बतलाओ कि भेद कैसे आ गये—कोई दरिद्र, कोई श्रीमान् ! पूर्वकृत जो पुण्यकर्म हैं, उनके उदयका फल है। उसमें ऐसा नहीं है कि किसीके पुण्योदय है तो प्राप्त ही होना चाहिये। परिणाम खोटे हों और उन खोटे परिणामोंके कारण जो विशेष अभ्युदय हुआ था, सो रुक गया। ज्ञानी पुरुष कहता है कि हे प्रभो ! मुझे वैभवको प्राप्त करनेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु हे जिननाथ ! आपके चरणकमलोंमें, पूजामें, स्मृतिमें मेरी भक्ति जगे। वह ज्ञानी पुरुष करेगा ऐसे शुभ काम, पर उसका चित्त विरक्त में रहता है, विरक्तिसे ही वह अपना हित मानता है।

व्यञ्जनपर्यायोंका वर्णन करके जिसमें कि द्रव्यव्यञ्जनपर्याय भी आते हैं और विपरीत गुणपरिणामन भी, चूंकि व्यञ्जन है, व्यक्त है, वह भी गर्भित है। उन पर्यायोंके साथ इस आत्माका और उन पर्यायोंके कारणभूत कर्मोंके साथ आत्माका और उनके फलभूत सुख-दुःख आदिकके साथ आत्माका क्या सम्बन्ध है अथवा सम्बन्ध नहीं है ? इस विषयको स्पष्ट करनेके लिए कुन्दकुन्दाचार्यदेव यह कहते हैं—

कृता भोक्ता आदा पौगलकम्मरस होदि ववहारो ।

कम्मजभावेणादा कृता भोक्ता हु णिच्छयदो ॥१८॥

कर्मके कर्तृत्व व भोक्तृत्वमें अपेक्षा— मालूम ऐसा होता है कि आत्मा पुद्गलकर्मोंका करने वाला है और यह आत्मा उन कर्मोंके उदयके फलभूत दुःखोंका भोगने वाला है, इस सम्बन्धमें आचार्य कहते हैं कि यह आत्मा पुद्गलकर्मोंका कर्ता और भोक्ता है, यह तो व्यवहारन्देहा दर्शन है और आत्मा कर्मजनित विभावपरिणामोंका कर्ता और भोक्ता है। यह निश्चयनयसे है। यहां निश्चयनयसे मतलब है अशुद्धनयसे। आत्माका परपदार्थोंके साथ परिणामनमें निमित्तपना भी अधिक निकटतासे है तो कर्मोंके साथ है। इस कारण इन द्रव्यकर्मोंका यह आत्मा कर्ता है निकटप्रति अनुपचरित असद्भूत व्यवहारसे।

कर्मके कर्तृत्व और भोक्तृत्वमें अनुपचरित असद्भूतव्यवहारा— पुद्गलकर्म भिन्न पदार्थ है, इसलिये पुद्गलकर्ममें आत्माका कर्तृत्व बताना असद्भूत है, किन्तु यहां प्राकृतिक नैमित्तिकता है, इस कारण यह अनुपचरित है। जैसे हम अन्य मकान, दुकान, मेल-मिलाप, विरोध, विनाश इनके करने वाले कहा करते हैं, किन्तु इनमें निकटता नहीं है, इसलिये ये अनुपचरित नहीं हैं। आत्माका जैसा विभावपरिणामोंसे उस द्रव्यकर्मका सम्बन्ध है इसी प्रकार विद्वद्भूत बह्यविद्योंका भी सम्बन्ध है, किन्तु यह विषयभूत बाह्यपदार्थोंका नियात्मक सम्बन्ध नहीं है। इसी कारण यह बात सामने आती है कि किसीको मन्दिरप्रतिमाके दर्शन भी हों तो भी उसके भाव नहीं सुधरते। यह जीव सम्बन्धशरणमें भी अनेक बार गया तो भी नहीं सुधरा। सब निमित्त फेल हो गये हैं, कोई नियामक नहीं रहा। अरे भाई! निमित्त ही नहीं हैं। निमित्त तो कर्मोंका उदयउदीगणाक्षय क्षयोपशम है, वे तो बाह्यपदार्थ हैं, उनके साथ तुम्हारा अन्वयव्यतिरेक कुछ नहीं है। जैसे कि विभावपरिणामोंका और द्रव्यकर्मका परस्परमें निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, उस प्रकारका यहां नहीं पाया जाता है। अतः द्रव्यकर्मका कर्ता यह जीव आसन्नगत अनुपचरित असद्भूत व्यवहारसे है और उनका फल भी सुख-दुःखको भोगनेका कथनव्यवहारसे है।

अशुद्धनिश्चयनयसे जीवके विभावका कर्तृत्व व भोक्तृत्व—निश्चयनय अर्थात् अशुद्धनयसे यह जीव मोह, राग, द्वेष आदि भावकर्मोंका कर्ता है और उनका भोक्ता है अथवा असद्भूतव्यवहारसे यह कर्म शरीरादिक का कर्ता है। इन सबमें निमित्तनैमित्तिकता है, क्योंकि मैं चढ़ा बना लेता हूं, कपड़ा बुन लेता हूं, मकान बना देता हूं—ऐसा कहना यह उपचरित

असद्भूतव्यवहारसे है। इस तरह पहिले जो वर्णन चला था, उस वर्णनमें समझाये गये उन पर्यायोंके साथ, उपयोगके साथ, कर्मोंके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है—ऐसा बतानेके लिये यह उपर्युक्त गाथा कही गयी है। मद्भूतव्यवहार मतिज्ञान आदिके पर्यायोंमें बताया जाता है कि ये ज्ञान-गुणके आंशिक विकास हैं। जो स्वभावसे नहीं उत्पन्न होते हैं, उनको असद्भूत कहा गया है—ये सब रागद्वेष मोहादिक जो इच्छा भी परिणाम है, ये सब असद्भूत हैं। विभावपरिणाम वाले पुरुष कब इस परिणामसे हटकर और किस उपायसे चलकर यह निर्विकल्प सहजसमयसारकी जानें? इसका उपाय एक पूर्वमें परमगुरुके चरणयुगलकी सेवा करना है। परमगुरु अरहंतदेव कहलाता है।

आत्माका शरण—परमाथंतः हमारे लिये हमारा शरण हमारा परिणाम है। जब विषयकषाय और कल्पनाओंके संकटोंसे घिर जाते हैं, उन संकटोंसे छूटनेका उपाय निर्विकल्प, निष्कषाय परमगुरुके स्वरूपका आश्रय है। बाकी समस्त उपाय नागनाथ, सर्पनाथ जैसे पर्यायान्तर हैं। उनमें यह छूटनी करने लगे कि यह उपाय हमें संकटोंसे बचायेगा और यह न बचाएगा—ऐसा नहीं है। एक ही ज्ञानस्वरूपका स्मरणरूप उपाय संकटोंसे बचा सकता है। जीवनभर यही तो करना है। कितना ही सताए हुए हों कर्मोंदयके, फिर भी जब कभी सुधार होगा, आत्मप्रगति होगी तो केषल इसी आत्मज्ञानके प्रसादसे होगी। दूसरा कोई कितना ही मित्र हो, बचा नहीं सकता।

लोकमें अशरणाता—भैया! पुराने समयकी बात जाने दो और अपने घरकी भी बात जाने दो। मान लो कि हम छोटे पुरुष हैं, पर आज भी जैसे जो बड़े माने गए हैं, उनके मरणका जब समय आता है तो सारे देशके प्रमुख भी हैरान रहते हैं कि बचा लें, पर कोई बचा नहीं पाता है। कभी सिकन्दर सम्राट था, मरणके समय क्या-क्या हिकमत नहीं की गयी होगी और आजके जमानेमें गांधी व नेहरू भी सम्राट थे, जिनकी चिंतनाका आदर, विचारोंका आदर आदि सब देश करते थे और उनको महत्त्वकी दृष्टिसे देखते थे। मरणके समयमें उन्हें कोई न बचा सका। किसीसे कोई आशा रखना सब व्यर्थकी बातें हैं। जिससे चिन्त आपका लगा हो, जिसे आप अपना इष्ट मानते हों, उससे भी अपनी शान्तिकी आशा रखना व्यर्थकी बात है, क्योंकि परकी ओर दौड़ते हुए उपयोगमें वह सामर्थ्य नहीं रहती कि कुछ शान्तिका लाभ करा सके। जिस किसीको भी जो कि सबसे अधिक प्रिय है और इष्ट है, उसका उपयोग उत्तम ही

बाहर दौड़ा और भूला हुआ है । वह तो शांतिसे अधिक ही दूर हो गया है ।

परसे अलगाव— संसारमें कहते हैं कि दुःख तो है पर्वत बराबर और सुख है राई बराबर । यहां सुखसे मतलब है इन्द्रियसुखका । वास्तवमें इस संसारमें कहीं सुखका नाम नहीं है, पर लगे फिर रहे हैं उस ओर ही आसक्ति बनाए रहनेमें । क्या करेंगे जोड़-जोड़कर ? किसी दिन सब कुछ छोड़कर चले ही जायेंगे । लड़का, भतीजा आदि किसीके भी तुम ठेकेदार नहीं होते, उनमें सुमति होगी, उनका छटवूल उदय होगा तो वे छपने बूते पर सुखी रहेंगे । आपके छोड़े हुए वैभवके खातिर वे सुखी न रहेंगे और यदि कुपूत होंगे, कुबुद्धि जगेगी तो आप जो कुछ छोड़कर जायेंगे, वह सब एक हफ्तेमें ही स्वाहा कर देंगे, फिर किसकी चिंतनामें वैभव जोड़नेके ये सब विकल्प किये जा रहे हैं ? यह सब कुछ गम्भीरताके साथ सोचना चाहिये ।

गृहस्थका वैभव— यद्यपि गृहस्थावस्थामें कुछ वैभवकी आवश्यकता है । न हो कुछ वैभव तो काम नहीं चलता है, पर इतनी हिम्मत भी तो साथमें रहनी चाहिये कि इस वैभवके रहते हुए यदि कोई कार्य आ पड़े, वह कार्य करने योग्य है तो उसके लिए यह सब व्यय भी किया जा सकता है— ऐसी मनमें सामर्थ्य बने तब तो समझो कि गृहस्थीके लिए आवश्यकता है, इसलिए वैभव बनाया है अन्यथा केवल मनको मोहमें पागनेके लिए ही ये विकल्प बनाए जा रहे हैं ।

परमश्रीकी प्रसाधना— जो मनुष्य बीतराग निर्बिकल्प सर्वज्ञ कार्य-समयसारके गुणस्मरणके प्रसादसे और उसके अनुरूप कारणसमयसारकी दृष्टिकी कृपासे इस सहजसमयसारको जानता है, वह अवश्य ही परमश्रीका अधिकारी होता है । संसार दुःखमय है, इसे मिटाना है तो हम कौनसा काम करें कि यह संसार टले, संकट मेरे टले, संसार बना है द्रव्यकर्मका निमित्त पाकर । ऐसे द्रव्यकर्मके मिटानेमें हमारा बल नहीं चलता है, क्योंकि पर परद्रव्य ही है । द्रव्यकर्मके मिटानेका निमित्त है भावकर्म न होना । सो हमारा बल इस पर तो चल सकेगा कि मुझमें भावकर्म न बनें, किन्तु द्रव्यकर्मका मिटाना और इस पर्यायको दूर करना, इस पर हमारा जरासा भी बल नहीं है और भावकर्मका भी मिटाना और रोकना यह भी तो जैसा मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, उस ही स्वरूपके आश्रयके द्वारा ही तो संभव होता है ।

धर्म और धर्मका पालन — धर्म एकस्वरूप है और धर्म

की विधि भी एकस्वरूप है और धर्मका फल भी एकस्वरूप है। धर्म है सहजस्वभावका आश्रय करना। प्रथम तो जो धर्म है वह पालन करनेकी चीज नहीं है, व्यवहारकी बात नहीं है। परिणामन और परिवर्तन से सम्बन्ध नहीं रखता; वह है आत्माका विशुद्ध स्वभाव। वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं। वह तो सब जीवोंमें है। जो पालन करे उसके भी है, न पालन करे उसके भी है। उस वस्तुस्वभावरूप धर्मकी दृष्टि देना यही है पालन करनेका धर्म। जहां पालन करनेकी बात आए वह हो गया व्यवहार तो निश्चय धर्म है ज्ञानस्वभाव और व्यवहार धर्म है ज्ञान स्वभावका आश्रय। करना और इस ज्ञानस्वभावके आश्रय करने के प्रोप्राममें जो स्वाध्याय गुरु संग आदिक बातें हैं, वे व्यवहार धर्मके प्रति व्यवहार धर्म हैं।

संसारके निरोधका मूल पुरुषार्थ— इस ज्ञानदृष्टिके पढ़ने से भाव-कर्मका निरोध हुआ, जिसके प्रतापसे द्रव्यकर्मका निरोध हुआ है और द्रव्यकर्मका निरोध होनेसे संसारका निरोध होता है। जैसे एक सूईसे दो तरफ नहीं सिया जा सकता है कि आगेको भी सिये और पीछेको भी सिये। एक मुसाफिर पूरबको और पश्चिमको एक साथ जाय, ऐसा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार संसारके भोग भोगना और मोक्षमार्गमें प्रगति करना—ये दो बातें एक साथ कभी नहीं हो सकती हैं। धन वैभव परिजन पोजीशनमें अपने चित्तको उतमाना और उनमें ही अपना बड़प्पन मानना ये सब संसारकी बातें हैं, अशांतिके कारण हैं।

इन्द्रजाल— जैसे किस्सोंमें सुनाया करते कि किसी गधेको कहीं शेर की खाल पड़ी हुई मिल गई। सो उस खालको ओढ़कर अपनेको बड़ा मान मानकर जंगली जानवरों पर हुकुमत करता है और अपनेमें बड़प्पन महसूस करता है, किन्तु यथार्थ जानने वाला तो उस पर हास्य धरता है। कहीं लोमड़ी गिर गयी रंगरेजकी रंगकी हौजमें सो वह नीली हो गई और कहीं से एक डंढा मिल गया और कहींसे मिल गया पुट्टा सो वह जंगली जानवरों पर सितम ढालने लगी। तुमको मालूम है कि मुझे भगवानने इन जंगली जानवरों पर राज्य करने के लिए भजा है। इसी तरह कुछ धन मिल जाय, परिजन मिल जायें पुत्र स्त्री आदिक, हां में हां मिलाने वाले मित्र मिल जायें अथवा कोई लोग इज्जत रखें तो उन बातोंको मानों लोमड़ी की तरह अपना बड़प्पन महसूस करते हैं। हम सीधे भगवानके भेजे हुए हैं। अरे क्या बड़प्पन करना ? वे सब विषादकी चीजे हैं। हर्ष माननेकी चीज नहीं है। इन सब बातोंको विषफल खानेकी तरह बताय

है ? जैसे विषफल देखनेमें बड़ा सुन्दर लगता है और खानेमें जहरीला होता है, उसके खानेका फल मंग ही होगा। तो खुश हो हो करके मर सकें, मिट सकें, बरबाद हो सकें, ऐसी घटनाओंका ही तो नाम इन्द्रजाल है। सो खुश होकर पंचेन्द्रियके विषयोंमें आनन्द मानकर गिर रहे हैं, बरबाद हो रहे हैं, खेद कर रहे हैं। यही तो अवसरका खो देना है।

गोरखधन्धा— एक कोई राजाका मित्र था, दुर्भाग्यवश गरीब हो गया तो उसने राजाको संकेत किया। तो राजाने हुक्म दे दिया कि इनको ले जावो, एक बजे से ३ बजे तक दो घंटेमें खजाने से जितना जो कुछ ला सकें ले आवें। वह सेठ गया दूसरे दिन। तनिक दरवाजेके अन्दर घुसा तो वहां देखा कि बहुत सुहाबना गोरखधन्धा रखा हुआ है। सो जैसे छल्ला होते हैं एकमें एक फंसे हुए, वैसे ही फंसे हुए थे। सो उन्हें वह निकालकर देखने लगा। जब वह सुलभा ने लगा तो और भी वे छल्ले फंसते ही चले जायें। निकालने की वह को शिश करे पर छल्ले फंसते जायें। ऐसे गोरख धंधेमें वह पड़ गया। तो जो खजाब्ची था वह बोला कि हमारा गोरखधन्धा ठीक करो तब भीतर पैर रख सकते हो। तो ज्यों-ज्यों वह सुलभाए त्यों त्यों छल्ले फंसते जायें। इन गोरखधंधोंमें ही-उसके दो घंटे बीत गए, कुछ भी वहांसे ला न सका। यही हाल हम आप सबका है। रिटायर हो गए हैं, मरणके दिन निकट आ गए हैं, फिर भी अपना कल्याण करनेका कुछ अवसर ही कभी नहीं आ पाता है।

भावी स्थितिपर धर्मपालनकी आशाका स्वप्न— आज जैसी परिस्थिति है उस परिस्थितिमें ही अपने हितकी बात बनालो, और यह ध्यान करने लगे कि हमारा फलां काम बन जाय, छोड़ीसी तो बात रह गयी है, लड़के समर्थ हो जायें, मुन्नाका विवाह कर दें, फिर कोई चिंता न रहे, फिर अच्छी तरहसे धर्म करेंगे। तो भाई इस तरहसे धर्म करनेका अवसर नहीं आता है। जब अच्छी स्थिति होती है तो धर्म करनेका ख्याल ही नहीं आता और जब कठिन बीमारी पड़ जाय तो फट ख्याल आ जाता है कि मैं आत्महितके लिए कुछ नहीं कर पाया। यदि मैं इस बार बच जाऊंगा तो केवल आत्महितका ही काम करूंगा और फिर कुछ नहीं करना है। बच जाय तो कुछ ही समय बाद मामला लेबिलपर पहिले जैसा ही पहुंच जायेगा।

दुःख सुखमें प्रभुके स्मरण व विस्मरणकी आदत— एक आदमी नारियलके पेड़ पर चढ़ गया। चढ़नेको तो चढ़ गया पर उतरते समय उधों ही उसने नीचेको देखा तो भयभीत हुआ। सोचा कि अब मेरे बचनेकी

उम्मीद नहीं है। सो उसने सोचा कि यदि मैं सही सलामत उतर जाऊं तो १०० पुरुषों को भोजन कराऊंगा। उसने हिम्मत बांधी और तुरन्त कुछ नीचे उतर आया। सोचा कि १०० तो नहीं पर २५ को जरूर भोजन कराऊंगा और नीचे उतरा तो सोचा कि ५ को जरूर भोजन कराऊंगा, और जब बिलकुल नीचे उतर आया तो सोचा कि बाह उतरे तो हम हैं, किसीको काहे भोजन करायें ? तो जैसे-जैसे दुःख कम हो जाते हैं वैसे ही वैसे फिर वही पहिलेकी जैसी हालत हो जाती है।

सिद्धान्त और मन्तव्यके ओर छोर— यह जीव सम्यग्ज्ञानके भाव से रहित होकर भ्रांत होता है, शुभ अशुभ नानाप्रकारके कर्मोंको करता है और वह मोक्षमार्गमें नहीं लग पाता है। मोक्षमार्गमें लगनेका उसे कोई अवसर ही नहीं है। जैसे सिद्धान्तमें सर्व जीवोंको एकस्वरूप देखनेका उपदेश है उस सिद्धान्त के माननेकी तो हम दुहाई देते हैं और हम धर्मके नाम पर धर्मके ही नाते सर्व धर्मीजनोंको हम एक समभावकी दृष्टिसे नहीं निहार सकते। तो बतलावो कहां धर्मके निकट आए ? मंदिरका प्रसंग हो, जलूसका उत्सव ही, तो उन आयोजनोंमें भी अपने माने हुए मन्तव्योंकी दीवाल अड़ जाती है। यह हमारा मंदिर है, यह उनका है, यह हमारा आयोजन है यह उनका है, यह मेरा जलूस है और यह दूसरेका है—ऐसी बात लोगोंके घर कर जाती है। तो अब और आगे कैसे गाड़ी चले ? बहुत पीछे हटे हुए हैं धर्ममार्गसे। अब धर्ममें बढ़ना है तो चुपचाप अपने आपमें अपनी सफाई करके बढ़ो। इसी से ही कुछ तत्त्व मिलेगा, बाकी तो सब चार दिनकी चांदनी फेर अंधेरी रात।

धर्मयोग— जो जीव इन्द्रियजन्य सुखका त्याग करके अथवा कर्म सम्बन्धी सुखका त्याग करके कर्मरहित सुखसमूहरूप इमृत जलक समूहमें अर्थात् आत्मतत्त्वमें मग्न होते हुए होते हैं, ऐसे भव्य आत्मा इस चतुर्थ-मय एक अद्वितीय आत्मभावको प्राप्त हों। धर्मकी समस्या सुलभ ना बहुत सरल है और बड़ी विद्याओं व धर्म ज्ञानकी बड़ी बातें स्मरुनेमें कुछ संदेह भी किया जा सकता है, विशद बोध नहीं भी हो पाता है पर धर्मकी समस्या सुलभाना कुछ कठिन नहीं है।

धर्मकी समस्याकी प्रयोगात्मक सुलभन— पुराणोंमें कथन है स्वर्ग अथवा नरककी रचना है अथवा तीन लोक, तीन कालकी रचना है यह सब अज्ञाके द्वारसे माना जाता है। कोई तो उनमें श्रद्धाबलसे बहुत निश्चय रखते हैं। मान लो कोई न भी रख सके तो धर्मकी समस्या सुलभानेमें कहां विवाद यह तो प्रयोग वाली बात है। जैसे व्यवहारकी बात प्रयोग

करके हम ठीक ज्ञान कर लेते हैं। जैसे कि सबने देखा होगा कि अग्निसे रोटी पकती है, बड़ा दृढ़ विश्वास है, खाने-पीनेसे कूब सुख शांति होती है अथवा अमुक प्रकारसे व्यापार करनेमें लाभ होता है। कितनी बातें प्रयोग करके देख लेते हैं या किसीको गाली देनेसे चांटे रसीद होते हैं, प्रयोग करके देख लो ना। किसीसे भले शब्द बोल दो, प्रेमसे मीठी वाणी कह दो तो उसके एवजमें भली बात सुननेको मिलती है। जैसे प्रयोगसे अनेक बातें निर्णयमें आती हैं, इसी तरह धर्म और अधर्मके प्रयोगसे सब बातें निर्णयमें आ जाती हैं।

अधर्मसे शान्तिका प्रयोगात्मक निर्णय— किसीसे राग करो, मोह बढ़ाओ तो उस कालमें भले ही सुहावना लगता है, पर उत्तरकालमें कितनी चिंताओंमें पड़ जाता है और अन्तमें मिलता भी कुछ नहीं है। वह ही विरुद्ध हो जाए तो संक्लेश किए जाते हैं अथवा अनुकूल बने रहें तो राग कर करके बरबाद हो जाते हैं। जैसे लोकमें हुक्म देने वाले भी दुखी हैं और हुक्म मानने वाले भी दुखी हैं। दोनोंके दुःख अपनी-अपनी जगह हैं। हुक्म मानने वाला तो जानना है कि यह हुक्म देने वाला बड़ा है, सुखी है जो मनमें आया हुक्म दे डाला, किन्तु हुक्म देने वालेको कितनी विपत्तियां सताती हैं, कितनी जिम्मेदारी उस पर है, उसको हुक्म मानने वाला नहीं पहिचान सकता। इसीतरह द्वेषमें तो दुःख है, विरोधमें, लड़ाईमें दुःख है, यह सब जानते हैं, किन्तु राग करनेमें जो क्लेश है, इसे पहिचानने वाला ज्ञानी ही हो सकता है।

धर्म और अधर्मसे हित अहितके निर्णयकी प्रयोगसाध्यता— भैया ! रागद्वेष करनेसे हम आकुलतामें पड़ते हैं और रागद्वेष न हो, किसी पर-वस्तुका लगाव न हो तो प्रयोग करके देख लो कि आकुलताएं शांत होती हैं या नहीं। प्रयोग करके देखा कि निर्णय हो जाता है कि रागद्वेष मोह करना तो अधर्म है और रागद्वेषमोहसे विमुक्त होकर एक जाननहार बने रहना धर्म है। अरे भैया ! हम जाननहार भी नहीं बनना चाहते, पर क्या करें, यह तो हमारा गुण है। बिबश होकर जानन तो हुआ ही करेगा, सो हो, मात्रजाननसे कोई क्लेश नहीं है। यह निर्णय कर लेना कठिन बात नहीं है, पर कोई मानना ही नहीं चाहते, इस ओर अपनी बुद्धि लगाना ही नहीं चाहते तो उसका क्या इलाज ?

असत्याग्रहकी अकर्तव्यता— भैया ! हठ करना अच्छी बात नहीं होती है। अनुकूल उद्देश्य है, इष्ट सामग्री मिल गयी, जिसे जो इष्ट हुआ तो अब वैसा गर्विष्ठ बनकर मनमाना व्यवहार बनाना आदि ऐसी हठका फल

बुरा है। इस हठके फलमें बादमें ऐसी घटनाएं आ जाती हैं कि खुशको ही मान खाना पड़ता है। उदय कब तक अनुकूल चलेगा? सुख और दुःख चक्रके आरोंकी तरह इस लोकमें घूम रहे हैं। हां सुख दुःखका विनाश हो और आत्मीय आनन्द प्रकट हो तो वह बात अहितकी नहीं है। यह तो संसारसे परे जो शुद्ध आत्मा है उनकी कलाकी बात है।

ज्ञानात्मक आत्माके ज्ञानकी सहजसाध्यता— अपने ज्ञानकी थाह पा लेना, मर्म जान लेना यह भी कठिन नहीं है, इसके लिए भी कोई बड़ी विद्याएं हम जानते हों, बहुत शास्त्रोंके विद्वान् हों तब हम अपने आत्माके मर्मकी बात जान सकेंगे ऐसा नहीं है, वह तो जाननका अधिकारी है ही, किन्तु जो अल्पज्ञ हैं वे भी एक बात मनमें आ जाय कि इस लोकमें समस्त समागम जंजाल असार हैं, भिन्न हैं मेरे लिए ठीक नहीं हैं इस ज्ञानके दल पर अपने उपयोगकी ऐसा बनाएं कि किसी भी बाह्यपदार्थका ख्याल न करें तो स्वयमेव अपने आप उस ज्ञानज्योतिका अनुभव हो जायेगा। तो ये सब बातें बड़े प्रेमकी हैं। जगतके जीवोंमें किसी भी प्रकारका भेद और विरोध न रखकर अपने आपकी प्रीति रीति बढ़ाकर अपनेमें मग्न होनेका यत्न करें तो बात बन सकती है। यह बहुत बड़ा वैभव है कि हम अपनी पोषीशकको महत्त्व न देकर अपने को अज्ञान ज्ञान और आचार विचारसे भरपूर अनुभव करें।

तत्त्वज्ञपुरुषकी उत्कृष्ट आसीनता— भैया! आत्महितयोगीवै प्रति यही हो सकता है कि कोई प्रशंसा न करेगा, पर उस प्रशंसाकी भी परवाह नहीं है उस तत्त्वज्ञानी पुरुषको। जो जीव कर्मज सुखको छोड़कर निष्कर्म सुखमें रुचि करता है वह एक अद्वैत ज्ञायकस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वैभव होता है, रागद्वेष चलते हैं, इसकी कोई अधिक चिंता नहीं है। चिंता तो इसकी होनी चाहिए कि मेरा जो अपने आपका स्वरूप है वह जानन में क्यों नहीं आता? कुछ भी स्थिति हो। अपने उपयोगमें अपना सहज आत्मस्वरूप जो सर्व कर्म और विभावोंसे रहित है, शुद्ध आत्माका जो केवल स्वरूप है वह अनुभवमें आए क्योंकि इस ज्ञानानुभवके बिना अन्य प्रकारसे इस जीवकी मुक्ति नहीं है। संसारी जीवमें सांसारिकताके ढंगसे गुण प्रकट होता है और सिद्ध जीवोंमें उनका आनन्द परमगुण प्रकट हुआ है यह व्यवहारनय का विषय है।

आत्मस्वरूपकी मूलक— निश्चयसे तो भैया! एक निशाना भर भिन्नता है वह न मुक्त है, न संसारी है किन्तु एक लक्ष्यभूत चिह्न विदित हो जाता है। किसी पुरुषके बारेमें पूछें कि यह कौन है? तो कोई कहेगा कि

यह बालक है, पर यह भी कोई स्थायी उत्तर नहीं है। जवान है, धनी है, असुकका पिता है, असुकका लड़का है। ये कुछ चिह्न इस मनुष्यमें नहीं पाये जाते हैं। इस मनुष्यका तो सही वर्णन बतावो कि यह स्वयं क्या है ? तो कहना होगा कि सब प्रकारकी बातें कह चुकनेके बाद भी अब निष्कर्षमें सबसे रहित है और यह मनुष्य है सो समझ जायेगा। यह आत्मा न कषाय सहित है और न कषाय रहित है, किन्तु एक सहजज्ञायकरस्वरूप है। अंगुलीको अंगुलीसे जकड़ दिया जाय उस स्थितिमें पूछा जाय कि अंगुली का स्वरूप कैसा है ? तो यह अंगुली जकड़ी हुई है, बंधी हुई है, यह स्वरूप है। यही तो अंगुलीका स्वरूप है। अरे यह तो एक परिस्थिति बनायी है। अंगुलीमें जो कुछ है वही अंगुलीका स्वरूप है। गाय कैसी है ? अरे बंधी है। वह न बन्धी है और न छूटी है। अंगुलीका बंधा भी स्वरूप नहीं है और छूटा भी स्वरूप नहीं है। गायमें जो कुछ पाया जाता है वह गायका स्वरूप है। सो संसारी जीवोंमें विभावपरिणमन है और मुक्त जीवोंमें स्वभावपरिणमन है। यह सब व्यवहारनयका वर्णन है। निश्चयसे तो यह आत्मा न मुक्त है और न संसारी है। यह ज्ञानवर्तोंका निर्णय है। इस ही प्रकरणसे उठकर कुन्दकुन्दाचार्यदेव नयविभागपूर्वक इसका निर्णय करते हैं।

द्व्वद्वियेण जीवो वदिरित्तो पुब्बभण्हपज्जाया।

पज्जयण्येण जीवा संजुत्ता होंति दुविहोहि ॥१६॥

ज्ञान दर्शनकी शाखाओंका विस्तार— द्रव्यार्थिकनयसे जीव पूर्वमें कही हुई पर्यायोंसे भिन्न है और पर्यायार्थिक नयसे यह जीव दोनों प्रकार की पर्यायोंसे सहित है। जो शुद्ध है वह शुद्ध पर्यायसे सहित है और जो अशुद्ध है वह अशुद्ध पर्यायसे सहित है। जीवके सम्बन्धमें बहुत वर्णन चला है। पहिले तो उपयोग स्वरूपका वर्णन था और उसके विस्तारमें स्वभाव-ज्ञान, विभावज्ञान, कारण स्वभावज्ञान, कार्यस्वभावज्ञान, सम्यक्विभावज्ञान केवलविभावज्ञान आर दर्शनके सम्बन्धमें स्वभावदर्शन, विभावदर्शन का: ए-स्वभावदर्शन, कार्यस्वभावदर्शन— ऐसे विस्तारपूर्वक गुणों और गुणपर्यायों को बनाया है। और गुणपर्याय तथा व्यञ्जनपर्याय इन सबका माध्यमभूत जो अर्थपरिणमन है उसका वर्णन किया और व्यञ्जनपर्यायों का वर्णन किया।

ज्ञानदर्शनकी विस्तारविवेचनामें शिक्षा— इस सब वर्णनके बाद अब शिक्षारूपमें क्या प्रहण करना है ? इस बातको इस पद्धतिमें बतला रहे हैं कि द्रव्यार्थिकनयसे जीव पूर्वके सर्व पर्यायोंसे भिन्न है। देखो ना कोई

वकील गतनीसे बेहोशीसे नशेमें अपने ही खिलाफ बात बोल जाय, दूसरे वादीके अनुकूल बात बोल जाय, उस बातको बोलवर फिर यह कह देवे कि इतनेमें फिर हमारी नींद खुल गयी। विरोध-विरोधमें ही सब बोलते जिससे अपना मुकदमा खराब हो जाय और बोलनेके बाद फिर कहे कि ऐसा देखा—इतने में नींद खुल गयी। ऐसी ही बात यहां हो गयी कि पर्यायों का वर्णन किया, स्वभावको छोड़कर पर्यायोंको विस्तृत किया और करनेके बाद अब कह रहे हैं द्रव्याधिकनयकी रूपेक्षासे कि ये जीव इन सब पर्यायोंसे भिन्न हैं।

यहां दोनों नयोंकी सफलता बतलायी जा रही है। भगवान् अरहंत परमेश्वरके द्वारा भणित ये दो नय हैं—द्रव्याधिकनय और पर्यायाधिकनय ये परमेश्वरसे आए हुए हैं, जैसे कहते हैं ना कि परमेश्वरके भेजे गए ये संदेश हैं। परमेश्वरसे आये हुए संदेश हैं अर्थात् उनके उपदेशकी परम्परा से चला आया हुआ यह निर्णय है। द्रव्याधिकनय कहता है कि जिसका द्रव्य ही प्रयोजन हो, द्रव्य ही देखनेका मतलब हो। मतलब तो छोटी चीज है। मतका लव-मायने माने गयेकी छोटीसी बात लवलेश जो मानता है, उसकी मामूली, रंच सी बात उसका नाम है मतलब और मतलब जो अपना मन होता है उसमें बल है, पुष्टि है। तो जिसका रुक्ष एक द्रव्य देखनेका हो उसे कहते हैं द्रव्याधिकनय और पर्याय ही जिसका प्रयोजन हो उसे कहते हैं पर्यायाधिकनय। भगवान्का उपदेश एक नयके आधीन नहीं है। एक नयके आधीन ही हुआ उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है क्योंकि इन दोनों नयोंके आधीन हुई बुद्धि ग्रहण कहनेके योग्य है। निरपेक्ष नयका विषय निर्णयमें ठीक नहीं हो सकता।

एक नयकी अग्राह्यता—एक नयके ही रखनेमें भले ही एक गौण रखें, एक मुख्य रखें पर दूसरेको कतई न मानना इतना जो एक सिद्धान्त है कोई नयका वह उपदेश ग्राह्य नहीं है। इसही का तो फल है कि कोई क्षणिकवाद निकल आया, कोई अपरिणामवाद निकल आया; किन्तु हित की दृष्टिसे एक नय प्रधान बनेगा, दूसरा नय गौण रहेगा। यह ठीक है पर जानकारी सब नयोंकी नहीं होती तो केवल एक नयकी जानकारीका उपदेश ग्राह्य नहीं है।

द्रव्याधिकनयसे जीवका स्वरूप—यहां बतला रहे हैं कि द्रव्याधिकनयसे सब जीव उन समस्त पर्यायोंसे भिन्न हैं। द्रव्याधिकनयका कैसा बल है कि वह सत्ताको ग्रहण करने वाला है। द्रव्याधिकनय केवल द्रव्यको देखता है उस दृष्टिमें पूर्वोक्त व्यञ्जनपर्यायोंसे ये समस्त जीव जिसमें मुक्त

और संसारी जीवों का भेद नहीं करना है, सबको लेना है, वे सब इस दृष्टि में सर्वथा भिन्न ही हैं। अपेक्षा लगाकर वह पूर्वक ही बोलना चाहिए।

स्याद्वादका चिन्ह अपेक्षा और ही— जैसे किसी बालकके प्रति पूछा जाय, उसका पिता भी पास बैठ जाए और उसीसे पूछ दें कि यह कौन है ? वह बतायेगा कि यह मेरा लड़का है। उस समय ऐसा ज्ञान करना चाहिये कि इसका लड़का ही है और ऐसा बोध करें कि इसका लड़का भी है। तो क्या वह और कुछ भी है। अपेक्षा लगाकर भी बोलनेमें अनर्थ हो जाता है। स्याद्वादका चिन्ह भी नहीं है, स्याद्वादका चिन्ह अपेक्षा और 'ही' है। दोनोंका एक साथ प्रयोग है।

द्रव्यार्थिकनयसे जीवकी शुद्धता— द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिसे समस्त जीव पर्यायोंसे सर्वथा भिन्न ही हैं। अपेक्षा लगाकर ही लगानेमें संकोच नहीं होता है, क्योंकि शुद्धनयसे समस्त जीव शुद्ध ही हैं। यहां शुद्धसे मतलब केवल ज्ञानादिक शुद्धपर्यायोंसे नहीं है, केवल ज्ञानादिक शुद्धपर्यायोंका जानना अशुद्धनयसे होता है और स्वभावपरिणामन हो या विभावपरिणामन हो, सबसे व्यतिरिक्त केवल द्रव्यस्वभावको जानना ही शुद्धनयका विषय है। यहां शुद्ध और अशुद्धका अर्थ तो केवल शुद्ध है और केवलको छोड़कर अन्य बातें देखना अशुद्ध है। आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें शुद्ध शब्दकी व्याख्या जब तक स्पष्ट न हो, तब तक स्वाध्याय करते जाइये, कुछ पकड़में न आएगा। अब तो केवल यही जानना पड़ेगा कि सभी जीव द्रव्यार्थिकनयसे शुद्ध हैं। अरे हां ! शुद्ध हैं। ये संसारी भी शुद्ध हैं क्या ? अरे, संदेह भी करने लगा, परन्तु शुद्धनयका सबसे बड़ा प्रयोजन है खालिश एक ध्रुवस्वभाव को निरखना ही। उस निरखनेमें अन्य कुछ और बातें दृष्ट ही नहीं होती हैं।

द्रव्यार्थिकनयका विषय प्रियतम— भैया ! द्रव्यार्थिकनयसे क्या निरखा जा रहा है ? परमशरण परिणामिकभाव ध्रुवस्वभाव अति अभीष्टतम पीतम है, पीतम मायने प्रियतम, जो सबसे अधिक प्रिय हो। अब तो वास्तविक प्रियतमको लोग भूल गए और जिसे जो अधिक प्रिय है, उसको ही प्रियतम कहने लगे। चाहे वह लाठी ही बरसाता हो, मगर वह है हमारा प्रियतम। अरे ! तुम्हारा प्रियतम तो तुम्हारे आत्मामें बसा हुआ ध्रुवज्ञानस्वभाव है, वही प्रियतम है। जितने भी अच्छे शब्द हैं, उनका मर्म तो लोग भूल गए और उनका अर्थ कुछका कुछ लगा बैठे। अब बोलते हैं साइयां। सइयां, साइयां— यह शब्द बिगड़ा है स्वामी शब्दसे। अरे ! आपका स्वामी कौन है ? आपका स्वरूप स्वस्वामीसम्बन्ध भिन्न-

द्रव्य में नहीं है, आपके स्वामी आप हैं। और एक शब्द बोला जाता है खसम। उस खसमका अर्थ है—ख मायने इन्द्रिय, सम मायने शांत हो जायें, अर्थात् जहां इन्द्रियां शांत हो जायें मायने इन्द्रियविजयी साधुजन, संतजन, ह्यानी लोग जो हैं उनका नाम है खसम और उनको छोड़कर अपने मनमाने का नाम रखने लगे। बल्लभ, बालभ, बल्लभ शब्दसे बना, जो प्रिय हो। तो जितने भी प्यारके शब्द हैं वे सब आत्मस्वभावके लिए घटित हैं पर वहांसे दृष्टि उड़ गई तो जो कुछ समझमें आया उसीको ही ये शब्द बोले जाते हैं। सर्व जीव शुद्धनयसे शुद्ध ही हैं। इस प्रकार द्रव्यार्थिकनयसे जीवका वर्णन करके अब पर्यायार्थिक नयमें यह जीव कैसा दृष्ट होता है इसका वर्णन चलेगा। यह गाथा इस अधिकारके उपसंहाररूप है। इसमें विभावपर्यायोंका और स्वभावपर्यायोंका कुछ आगे वर्णन होगा।

नयोंकी अपेक्षासे पर्यायोंसे आत्माकी संयुक्तता व विविक्तता—द्रव्यार्थिकनयसे तो समस्त जीव शुद्ध हैं अर्थात् मात्रज्ञानस्वभावी हैं और पर्यायार्थिकनयसे विभावव्यञ्जन पर्यायकी अपेक्षा वे सब जीव संयुक्त हैं। इनमें सब जीवोंमें विभावव्यञ्जन पर्यायों अपर्यायों सिद्ध होती हैं, किन्तु ऐसा है नहीं। सिद्ध जीवोंका तो अर्थपर्यायोंके साथ परिणामन है, व्यञ्जन पर्यायोंके साथ नहीं है। यहां व्यञ्जन पर्याय व्यक्त पर्यायको माना है। जिसमें अञ्जन लगे हुए की तरह परका सम्बन्ध हो अथवा वि अञ्जन विशेष अञ्जन हो, उसे व्यञ्जन कहते हैं, इस दृष्टिसे नारक, तिर्यञ्च मनुष्य और देव व्यञ्जनपर्याय कहलाते हैं।

सिद्धोंके व्यञ्जन पर्याय मानने या न माननेके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर—व्यञ्जन पर्यायोंसे सहित होना पर्यायार्थिक नयसे है, ऐसा सिद्धान्त उपस्थित होने पर यह शंका होती है कि सब जीवोंको दोनों पर्यायोंसे संयुक्त कैसे बताया गया है? सिद्ध भगवान् तो सदा निरञ्जन हैं। न बाह्य अञ्जन है, न कर्म अञ्जन है, न विभाव अञ्जन है फिर यह बात कैसे घटित होती कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक—इन दोनों नयोंमें सब जीव सदा संयुक्त हैं। प्रत्येक जीवमें द्रव्यार्थिकनयकी भी बात है और पर्यायार्थिक नयसे भी ऐसी बात है और पर्यायको माना है व्यञ्जनपर्याय। उसके उत्तरमें ऐसा जानना कि प्रथम तो व्यञ्जनपर्याय सिद्ध भी कहा जा सकता है, शुद्ध शुद्धव्यञ्जनपर्याय। शरीरादिकके सम्बन्धसे रहित आत्मप्रदेशके विस्तारत्मक शुद्धव्यञ्जन पर्याय है इसलिए पर्यायार्थिकनयसे भी वह संयुक्त है और यहां व्यञ्जनपर्याय से मतलब चतुर्गतिमें शरीरोंमें लिया जाय तो सिद्ध भगवान्के नैगमनयकी दृष्टिसे व्यञ्जनपर्याय वह सकते हैं। नैगमनय

का अर्थ है निर्विकल्पप्राप्ति नयमें जो विवक्षित हो, संकल्प हो, आशय हो उसमें होने वाला जो परिज्ञान है वह नैगमनय है।

सिद्धोंमें व्यञ्जनपर्यायको सिद्ध करने वाली अपेक्षा— नैगमनय तीन प्रकारका होता है—भूतनैगम, वर्तमाननैगम और भावीनैगम तो भूत नैगमनयकी अपेक्षा भगवान् सिद्धमें भी व्यञ्जनपर्याय और अशुद्धपना सम्भव होता है। यह जीव तो वर्तमानमें अशुद्ध वही है किन्तु जो पहिले अशुद्धपर्याय थी तो भूतपर्यायकी अपेक्षा व्यञ्जन पर्यायकी बात कही जा सकती है क्योंकि वह भगवान् पूर्वकालमें व्यवहारनयसे संसारी था, बहुत क्या कहें, दोनों नयोंको सब जीवोंमें घटाया है, और दोनों नयोंके बलसे सभी जीव शुभ और अशुभ हैं, विवक्षाएं यथासम्भव लगाना चाहिए। यहाँ यह बतलाया जा रहा है कि भगवंत सर्वज्ञदेवविषयक बोध दोनों नयोंके आधीन है। एक नयकी बात नहीं है। जो प्रतिपक्षी नयकी बात भुलाकर केवल एक नयसे ही माना है, उसको परिज्ञान निर्दोष नहीं होता है।

नयद्वयका गुंथन— भैया ! दोनों नय ऐसे एक साथ गुंथे हैं कि उनको मना ही नहीं किया जा सकता है। जैसे आपसे पूछें कि यह क्या है ? तो आप बोलेंगे कि यह घड़ी है। यह घड़ी है, इसका ही अर्थ यह है कि यह घड़ीके अलावा और कुछ नहीं है। दोनों बातें एक साथ गुंथी हुई हैं कि नहीं ज्ञानसे या केवल यह ही एक बात है कि घड़ी है ? और घड़ीके अतिरिक्त और कुछ नहीं है ? यह बात भी है कि नहीं है ? यदि यह बात नहीं है तो इसका अर्थ है कि और कुछ भी हो गया है, चौकी आदिक हो गया है। और जब और कुछ हो गया तो यह घड़ी है ऐसा जो पहिला पक्ष है वह भी खण्डित हो गया। कुछ भी बात बोलें, उसमें दोनों नय तो एक साथ लगे ही हैं। कुछ भी तो बोला जायेगा ना जो कहा जायेगा वह तो है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है—ये दोनों बातें एक साथ उसमें आयी हैं या नहीं ? उसीमें आयीं। तो यही तो दोनों नयोंकी व्याप्तता हुई।

किसी भी वस्तुधर्मकी साधनामें सप्त भंगोंकी अनिवार्यता— भैया ! और भी देखो—कुछ भी एक बात हो वहाँ ७ बातें एक ही बातमें हो ही जाती हैं। जैसे कहें कि यह घड़ी है, तो इसमें दूसरी बात क्या सामने आयी कि यह अघड़ी नहीं है अर्थात् घड़ीके अलावा अन्य चीज नहीं है। फिर पूछा गया कि अच्छा तुम एक बात बताओ, हमें दो बातें न चाहियें। यह घड़ी है और अघड़ी नहीं है—इनमें तुम एक कोई बात यथावत् बताओ। तो वह हो गया अवकन्वय तो अब तीन बातें आ पड़ी कि नहीं। तुम एक प्रस्ताव रखो, कुछ भी अस्तित्व बताओ, जरा भी जीम हिलावां

तो हिलानेके ही साथ तीन स्वतंत्र बातें आकर खड़ी हो ही जायेंगी। एक जो बात बतायी गयी उससे खिलाफ और एक जो बतायी गयी वह और एक अव्यक्तव्य। तब ये तीन भाग हो जाते हैं। तो जहां तीन स्वतंत्र बातें हैं वहां उनके मिलान चार हुआ करते हैं। इसी तरह इन तीन धर्मोंके मिलान भी चार हैं। यों तो तीन स्वरूप और चार मूल हुए, ऐसे ७ धर्म हो जाते हैं।

सप्तभंगपर दृष्टान्त— तीन चीजें रख लो—आम, नमक, मेथी, इन तीनों चीजोंको तुम अलग-अलग खा सकते हो, आमको केवल खाओ, नमक अलग खा लो, मेथी अलग खा लो। और दो-दो मिलाकर खाओ तो आम नमक खाओ आममेथी खा लो और नमक मेथी खा लो, तीनों बातों का मिलान कर लो। तीनोंका मिलान एक है तो इस तरह आप ७ स्वाद ले लेंगे। एक स्वतंत्र धर्म हो तो उसके धर्म ७ होते हैं और कदाचित् चार स्वतंत्र धर्म हों तो उसके स्वाद १५ हो गए।

भङ्ग निकालनेकी विधि— जितनी चीजें हों इतनी धार दो-दो रखो यदि तीनके भंग जानना है तो तीन जगह दो-दो रख दो और उनका आपसमें गुणा करके एक घटा दो। दो-दूनी चार, चार दूनी ८ और एक कम कर दो तो रह गए ७। और ५ चीजें हों तो पांच बार दो-दो रख दो-दो दूनी चार, चार दूनी ८, ८ दूनी १६ और १६ दूनी ३२, ठीक है, ३२ में १ घटा दो, ३१ का स्वाद आ जायेगा। तीन जब स्वतंत्र धर्म होने ही पड़ते हैं तो बात करनेमें जीभ हिलानेमें कोई रोक नहीं सकता है तो उसके विस्तारमें ७ भंग बन जाने अनिवार्य हैं। स्याद्वाद और सप्तभंगी अनिवार्य हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता।

वचनमें सप्रतिपक्षताका गठन— हम कौन हैं? आदमी हैं। इसका अर्थ यही हुआ ना कि हम सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल आदि कुछ नहीं हैं, सिर्फ आदमी हैं। दो बातें अपने आप आयीं कि नहीं आयीं? हम पुरुष हैं, इसका ही अर्थ हुआ कि पुरुषके अलावा पशु-पक्षी आदि कुछ नहीं है। इन दोनोंको मानोगे या नहीं? अच्छा, एक बात कुछ न मानकर बताओ। हम आदमी हैं, यह बात मानने लायक है कि नहीं है या झूठ बह रहे हैं? मान लायक है और हम हाथी, शेर, घोड़ा, बैल कुछ नहीं हैं। यह मानने लायक बात है कि नहीं? इन तीनोंमेंसे यदि एक कुछ नहीं माना गया, वया नहीं माना गया? यह आदमी है— ऐसा नहीं माना गया तो आदमी ही नहीं रहा। आदमीके अलावा अन्य कुछ नहीं है— ऐसा नहीं माना गया। यदि यह सिंह, हाथी आदि बन जायेंगे तो अभी यहीं आपत मच जायेंगी।

वचनमें सप्रतिपक्षताकी ऐसी गठित व्यवस्था है कि यदि उनमें स्याद्वादका गठन नहीं है तो सब छितरा है, कुछ न रहेगा।

स्याद्वाद या निर्विकल्पता— भैया ! या तो अन्तर्बहि पूर्ण चुप बैठो और बोलो तो स्याद्वाद मानों या निर्विकल्प बन जाओ। कोई जरूरत नहीं है स्याद्वादकी पकड़ करनेकी। करो ज्ञानानुभव, पर दूसरोंके लिए समझाने चले या अपनेको भी समझाने चले व स्याद्वाद न माना तो काम न चलेगा। दोनों नयोंका विरोध मिटा देने वाला यह स्याद्वादचिन्हित जिनेन्द्रवचन है। जीव नित्य है या अनित्य है ? सदा रहता है या क्षण-क्षणमें मिटता जाता है ? द्रव्यार्थिक दृष्टिमें सदा रहता है, यह विदित है और पर्यायार्थिक से क्षण-क्षणमें होता है—ये दोनों बातें कितने विरोधकी कही जा रही हैं, पर कोई विरोध नहीं है। नित्यकी बात अनित्यकी बात माने बिना नहीं बनती और अनित्यकी बात नित्यकी बात माने बिना नहीं बनती—ऐसा वस्तुस्वभाव है।

दृष्टान्तपूर्वक नयद्वयकी अनिवार्य सहयोगिता—जैसे कोई पुरुष ऐसा बूँदों कि जिसके पीठ हाथ हों, और पेट न हो। क्या है कोई ऐसा ? कोई मिले तो लावो। कोई ऐसा नटखटी लड़का हो तो उसे पकड़ कर लावो। कोई न मिलेगा। अगर पेट नहीं है तो पीठ नहीं है और अगर पीठ नहीं है तो पेट नहीं है। तो जैसे पीठ और पेट दोनोंका ऐसा अनिवार्य सम्बन्ध है कि हटाया नहीं जा सकता, इसी तरह पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक दोनों नयोंका ऐसा अनिवार्य सम्बन्ध है कि वस्तुमें दोनों ही बातें गुणित हैं। दोनों नयोंकी बातें पायी जाती हैं। दोनों नयोंका विरोध मिटा देने वाला स्याद्वादचिन्हित जिनवचनोंमें जो पुरुष निर्मोह होकर रमण करता है, वह शीघ्र इस समयसारको प्राप्त करता है। कोई नई बात नहीं है, जिसे प्राप्त की जा रही हो, किन्तु वही पुरानी बात है, जो अनादिसे है। उसकी प्रामिक्की बात कहते हैं, जो कुनयपक्षसे अग्रखिन्त है अथवा नयपक्षसे भी अग्रखिन्त है—ऐसे कारणसमयसारको वह पुरुष देख ही लेता है।

दियेके तले व ऊपर भी अन्धेरा— भैया ! जगत्में अन्य समस्त वैभवोंका मिलना सुगम है, किन्तु एक निजका यथार्थ परिज्ञान होना बहुत दुर्लभ बात है। खुद ज्ञानमय है और खुदको अपनी ज्ञानमयताका पता न पड़े, यह कितने अन्धेरेकी बात है ? इसे कहो दिया तले अन्धेरा। आजकल तो दियाके ऊपर अन्धेरा रहता है। यह जो बत्तब जल रहा है, यह तो वही दिया है, जिसके ऊपर अन्धेरा रहता है। आजकलके दिये उल्टे हो गये, अब उनके ऊपर अन्धेरा है और जो पहिले दिये जलते थे, उनके नीचे

अन्धेरा था। अब ऐसा जमाना मिश्रणका हो गया कि ऊपर भी अन्धेरा और नीचे भी अन्धेरा। तो यों समझ लो कि ज्ञानके मार्गमें मोही जीवोंके लिए ऊपर भी अन्धेरा व नीचे भी अन्धेरा है। सो ऐसा मोह हो रहा है कि यह स्वयं तो ज्ञानज्योतिर्मय है और स्वयंको ही यह जान नहीं पाता है।

आत्महितके प्रयोजककी धुनि— ज्ञानके मार्गमें दोनों नयोंके आधीन उपदेशको प्रहण करना चाहिए। अपने प्रयोजनकी धुनि रखो और सब नयोंकी बातोंमें हां कहो। जब आप अपने जीवनमें धुनि तो अपनी ही रखते हो, मगर सुन सबकी लेते हो—हलो ! हलो ! ठीक हैं, यह भी ठीक है और धुनि अपनी रखते हो तो यहां भी अपनी धुनि रखो स्वभावदृष्टिकी। जो कोई हितके लिए उपदेश करता हो, हां बिल्कुल ठीक है। वह भी स्वरूप है, हां यह भी स्वरूप है, पर धुनि रखो कारणसमयसारके आलम्बनकी। जैसे बहुत गप्पोंमें लगकर भी अपने प्रयोजनकी बात आप नहीं भूला करते हैं, इसी तरह सर्वप्रकारके कांडोंमें लगकर भी ज्ञानी प्रयोजनकी बात नहीं भूलते हैं ज्ञानमें। जो दो नयोंके सम्बन्धमें नीतिका उल्लंघन नहीं करता और इस प्रकारकी परिणतिसे परमतत्त्वका परिज्ञान करके फिर नयपक्षसे अतीत होकर परमभावमें मग्न होता है—ऐसा ही सत्पुरुष उस समयसारको शोत्र प्राप्त कर लेता है।

जैनसिद्धान्तमें समप्रवस्तुदर्शन— जितने भी जो कुछ दर्शन हैं, वे सब जैन आगममें लिखित हैं। बौद्ध वेदांती, नैयायिक, भीमांसक सबका दर्शन जैन आगममें अन्तर्निहित है, परखने वाला चाहिए। जहां स्याद्वादकी विश्वासा छोड़ दी गई है, वहां यह एकांतरूपसे प्रकट होकर दुनियामें निराला प्रसिद्ध हो गया है, किन्तु कोई दर्शन निराला अलग नहीं है, सब वस्तुस्वरूपसे सम्बन्ध रखता है। एक हिंसाकांडोंकी बात छोड़कर अर्थात् जो वस्तुकी ही बात है, वे सब बातें जैनआगममें पायी जाती हैं। द्रव्याधिकनय ही तो वेदांत सांख्य आदि सिद्धान्तोंको बताता है और पर्यायाधिकनय ही तो बौद्ध व अन्य क्षणिकवाद सिद्धान्तको बताता है। निराली चीन हैं कहां अज्ञ ? पर दोनों नयोंके आधीन उपदेशको प्रहण करें तो उन सब का निचोड़ पा सकते हैं और फिर सबको छोड़कर निर्विकल्प समाधि जग सकती है।

स्याद्वाद विना व्यवहारकी असंभवता— स्याद्वादके विना तो व्यवहारमें, घर गृहस्थमें भी काम नहीं चलता है। नातेदारी, रिश्तेदारी—वे सब स्याद्वादके ही तो आधीन हैं। नातेदारी तो आधीन नहीं है, पर रिश्ते-

दारी आर्धान है। रिश्तेदारी और नातेदारीमें अन्तर है। रिश्तेदारी तो वह कहलाती है कि यह मेरा कुछ है और नातेदारीका अर्थ है—न मायने नहीं, ते-मायने तुम्हारा, तुम्हारा नहीं है—ऐसी बातको नातेदारी कहते हैं। अब जगत्की रीति नो देखो—मुखसे तो कहते जाते हैं कि ये मेरे नातेदार हैं अर्थात् ये हमारे कुछ नहीं हैं और उन्हें ही अपना मानते जाते हैं। यह पिता है, पुत्र है, भतीजा है, एक ही पुरुष सब कुछ बन जाता है तो अपेक्षा ही तो जुदा-जुदा है।

स्याद्वादका एक दृष्टान्त— चार अंधे बोले कि चलो हाथीकी खोज करें कि कैसा होता है ? दटोलते-दटोलते एक हाथी मिला तथा एकके हाथ में सूंड पड़ गयी तो वह कहता है कि हाथी तो मूसल जैसा होता है। एक के हाथमें पेट लग गया तो वह कहता है कि हाथी तो ढोल जैसा होता है। एकके हाथमें कान पड़ गया तो वह कहता है कि हाथी तो सूप जैसा होता है। एकके हाथमें पैर आ गए तो कहता है कि हाथी तो खम्भा जैसा होता है। यह चार अन्धोंकी बात कह रहे हैं। अब वे चारों आपसमें लड़ने लगे। एक कहता है कि हाथी सूप जैसा होता है, दूसरा कहता है कि तू भूठ बोलता है, वह तो ढोल जैसा होना है। इस तरहसे चारों परस्परमें झगड़ने लगे। कुछ समय बाद एक घुड़सवार निकला। पूछा कि क्या मामला है। चारोंने अपनी अपनी बात रखी। सभी कहें कि अजी ! ये तीनों भूठ बोलते हैं, हाथी तो ऐसा होता है। उसने समझाया कि भाई ! लड़ो नहीं। इसने कान पकड़ा तो सूप जैसा लगा, इसने पेट पकड़ा तो ढोल जैसा लगा, इसने पैर पकड़ा तो खम्भा जैसा लगा और इसने सूंड पकड़ी तो मूसल जैसी लगी। मूसल जानते हो किसे कहते हैं ? मूसलमें कोई भी कला नहीं है, उठे और गिरे, इतना ही करना जानता है। अब उसने चारों अन्धोंको ढंगसे समझाया। तो उन चारोंका यह झगड़ा स्याद्वादने मिटा दिया।

भैया ! लोग एक दूसरेके आशयका तो आदर नहीं करते, उनकी दृष्टि नहीं परस्पर और मनके मुताबिक अर्थ लगाते हैं तो इसीसे व्यक्तियों में परस्परमें झगड़ा होने लगता है। अन्य जगह, अन्य दर्शन, अन्य खोजों से क्या करना है ? एक स्याद्वादचिहित जैन आगममें वस्तुस्वरूपके सम्बन्ध में सभी दर्शन हैं, सो वस्तुस्वरूपके परिज्ञानका अभ्यास करो। उन दोनों नयोंकी विवक्षा अनुसार प्रयोग करो और वस्तुस्वरूपको सही पहिचानो। अच्छा, यह तो पहिले बताओ कि सिद्धभगवान् मुक्त हैं या नहीं। सिद्धभगवान् मुक्त होंगे ना। ये मुक्त हैं मी और नहीं भी। अरे ! मुक्त कर्मासे ही

तो हैं कि ज्ञानसे भी मुक्त हो गए क्या ? ज्ञानसे मुक्त नहीं हैं । जब हम मुक्त जैसी बातको भी स्याद्वादसे सप्रतिपक्ष जान लेते हैं तो फिर अन्य बातोंका विवाद क्या है ? सब जाना जा सकता है और कोई स्वयं बाह्य बातें बोलें तो यों जान लो कि आशयसे तो ऐसा ही है । इसलिए वस्तुस्वरूपको दोनों नयोंसे भी परखिये और परखकर फिर जो एक वस्तुगत शाश्वत सहजस्वरूप दीखा, उसमें रत हो जाइये, यही उपदेशकी सार ग्रहण करनेकी पद्धति है ।

❀ समाप्त ❀

मुद्रकः—मैनेजर, जैन साहित्य प्रेस, १८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ ।